



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1878]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2010/भाद्र 19, 1932

No. 1878]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2010/BHADRA 19, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2010

का.आ. 2224(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसमें इसके परचात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3146(अ), तारीख 8 दिसम्बर, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 371.200 कि.मी से 411.550 कि.मी. (रोहतक-बावल सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का मार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 5 फरवरी, 2010 को "दैनिक भास्कर" और 15 फरवरी, 2010 को "हिन्दुरतान टाइम्स" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अग्रगण्य कर दिया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अग्रगण्य रिपोर्टें दे दी हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोक्ता के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी त्रिल्लिंगमों से मुक्त हांकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 371.200 किमी से 411.560 किमी तक (रोहतक बावल खम्ह) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित जयथा संरचना सहित भूमि का सक्षिप्य विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम एवं हदबस्त नं०	संरचना संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल		मुख्याधिकारी/हितवाद्द व्यक्तियों के नाम
				बावत संख्या	किंवा संख्या			(किंता-सस्ता में)	(वर्ग-मीटर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
1	झज्जर	(1) बेरी	(1) डीघल	114 //						
			ह ब र 5		13/1	निजी	कृषि	3-0	1517.58	रणधीर सिंह पुत्रान दीवान, पातो विद्या, राजपाल, प्रदीप पुत्रान बलवीर कपूरा पुत्रा कन्हैया, रणसिंह पुत्रान दुलीचन्द, मनमूल पुत्रान शिवलाल, करतारी पुत्रान शिवलाल, नफसिंह पुत्रान रणसिंह, चंदर पुत्रान मिश्री, महेन्द्र सिंह पुत्रान सूरे सिंह, जगजीत सिंह पुत्रान महताब सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान दयाव ओमवती पुत्रीया महताब सिंह, समुन्द्र सिंह पुत्रान वेद सिंह, दलीपसिंह, खुवीर सिंह पुत्रान अमय सिंह, रामनिवास, रामेश्वर पुत्रान विष्णुमी, शेरसिंह, पवनसिंह पुत्रान गोस्वाम दास
					13/2	निजी	कृषि	0-8	202.344	
					14	निजी	कृषि	1-16	910.548	
					17	निजी	कृषि	1-8	708.204	
					18	निजी	कृषि	3-2	1568.166	
					1453	पंचायत	कृषि	0-2	50.586	जमूल मुखान मालकान प्रवीन कुमार पुत्र सुखवीर
					23	निजी	कृषि	1-2	556.446	
					24/1	निजी	कृषि	2-2	1062.306	
					24/2	निजी	कृषि	1-8	708.204	
				124 //						सुरज मान पुत्र रामा
					465	सरकारी	रास्ता	0-11	278.223	ग्राम पंचायत
					4	निजी	कृषि	2-13	1340.529	रणधीर सिंह पुत्रान दीवान, पातो विद्या, राजपाल, प्रदीप पुत्रान बलवीर कपूरा पुत्रा कन्हैया, रणसिंह पुत्रान दुलीचन्द, मनमूल पुत्रान शिवलाल, करतारी पुत्रान शिवलाल, नफसिंह पुत्रान रणसिंह, चंदर पुत्रान मिश्री, महेन्द्र सिंह पुत्रान सूरे सिंह, जगजीत सिंह पुत्रान महताब सिंह, राजेन्द्र सिंह पुत्रान दयाव ओमवती पुत्रीया महताब सिंह, समुन्द्र सिंह पुत्रान वेद सिंह, दलीपसिंह, खुवीर सिंह पुत्रान अमय सिंह, रामनिवास, रामेश्वर पुत्रान विष्णुमी, शेरसिंह, पवनसिंह पुत्रान गोस्वाम दास
					5	निजी	कृषि	1-10	758.79	सुरज मान पुत्र रामा
					6	निजी	कृषि	0-12	303.516	
					7	निजी	कृषि	1-12	809.376	
					470	पंचायत	रास्ता	0-2	50.586	ग्राम पंचायत
					456	सरकारी	नाली	1-5	632.325	प्रदेश सरकार
					458/1	सरकारी	नाली	0-10	252.93	प्रदेश सरकार
					14	निजी	कृषि	3-7	1694.631	रामतरुण, वेदपाल, जगदीश, नरेश कुमार, अजीतसिंह पुत्रान शुभराम
					15	निजी	कृषि	1-10	758.79	चरणसिंह पुत्र खजानी पुत्री शीशाराम, भरगई पुत्री व पृथी सिंह, सुरजमान, वजीर सिंह पुत्रान शीशाराम
					16/1	निजी	कृषि	1-18	961.134	शान्ति विद्या, कृष्ण नरेन्द्र पुत्रान प्रेम, विनोदबाला, पुनम, शीला पुत्रीया भगवाना, सन्तनारायण, रामफल, सतपाल, रामेश्वर, कृष्णा, जयप्रकाश, भगवतमल पुत्रान चिरजीलाल, लक्ष्मी विद्या, अशिषपाल, मनोज, पुरुषोत्तम पुत्रान महेन्द्र
					16/2	निजी	कृषि	2-14	1365.822	
					17/1	निजी	कृषि	0-7	177.051	रामरूप, वेदपाल, जगदीश, नरेश कुमार, अजीतसिंह पुत्रान शीशाराम, धर्मो, ब्रह्मो, खजानी पुत्रीया रामरूप रामकुमार पुत्रान व चन्दो पुत्री सुन्दरलाल पुत्र उदमी
					25	निजी	कृषि	2-14	1365.822	
					1482	निजी	रास्ता	0-3	75.879	जुमला मुखान मालकान
				125 //						
					1484	रास्ता		0-2	50.586	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				20	निजी	कृषि	0-0	0	शान्ति विद्या, कृष्ण, नरेन्द्र पुत्रान प्रेम, विनोद लाल, पूरुष, शीला पुत्रीया भगवाना, सन्तनारायण, रामप्रकाश, सतपाल, रामेश्वर, कृष्णा, जयप्रकाश, मंगलमल पुत्रान शिखरीलाल, लाजमी विद्या, तिरातीपाल, मनोज, पुरुषोत्तम पुत्रान महेंद्र
				153 //					
				1493	निजी	रास्ता	0-2	50 586	जुमला भुरकान मालकान
				1	निजी	कृषि	1-5	632 325	जगतसिंह पुत्रान चंदगीराम, आमअधर, विद्यासज, दिलालर सिंह पुत्रान जगत सिंह, सरजा मलदा, चंदरवती विद्या महावीर सिंह
				1485	निजी	रास्ता	0-2	50 586	जुमला भुरकान मालकान
				10/1	निजी	कृषि	1-10	758 79	धीर सिंह पुत्र सादेशम, पवन कुमार पुत्र देव राज
				10/2	निजी	कृषि	1-8	708 204	राजीव कुमार पुत्र अतर सिंह
				1481	निजी	रास्ता	0-6	151 758	जुमला भुरकान मालकान
				1486	निजी	रास्ता	0-3	75 879	
				11	निजी	कृषि	2-15	1391 115	चमेली, चम्पा पुत्रीया लक्ष्मीनारायण पुत्रान हरी सिंह, धनो विद्या, रिषी सिंह, मुन्नी विद्या, सतनारायण, ओदल, अश्वनी कुमार, कृष्ण, बलराम पुत्रान सुनीता पुत्रीया भीमसिंह
				12	निजी	कृषि	1-13	834 669	राजीव कुमार पुत्र अतर सिंह
				19	निजी	कृषि	1-17	935 841	नारायण सिंह पुत्र चन्दगी
				20	निजी	कृषि	3-6	1669 338	बाला पुत्री राजेन्द्र सिंह, आमप्रकाश, राजवीर, भाद पुत्रान मनफूल
				21/1	निजी	कृषि	1-15	885 255	
				21/2	निजी	कृषि	1-7	682 911	
				22/1	निजी	कृषि	1-1	531 153	नारायण सिंह पुत्र चन्दगी
				22/2	निजी	कृषि	0-14	354 102	प्रीत कौर विद्या, नवीन पुत्रान दयाचन्द, नवित, कविता पुत्रीया दयाचन्द, भीरसिंह पुत्रान मजू, रामकरन पुत्रान भादू
				154 //					
				5/1	निजी	कृषि	1-9	733 497	भूपेन्द्र सिंह, बहाल सिंह, मबर सिंह पुत्रान बदर, सत्य, रोशनी, गीता पुत्रीया महेंद्र, कुलपन, सुरेन्द्र पुत्रान भीमसिंह, राजसिंह, रूपसिंह पुत्रान भगवान सिंह
				5/2	निजी	कृषि	1-9	733 497	सरुण आदि -मू ४० नं ३८९ रिछपाल, लक्ष्मण पुत्र शमजीलाल गौ गो
				6	निजी	कृषि	1-12	809 376	राजीव कुमार पुत्र अतर सिंह
				15	निजी	कृषि	0-0	0	चमेली, चम्पा पुत्रीया लक्ष्मीनारायण पुत्रान हरी सिंह, धनो विद्या, रिषी सिंह, सतनारायण, ओदल, अश्वनी कुमार, कृष्ण, बलराम पुत्रान सुनीता पुत्रीया भीमसिंह
				168 //					
					निजी	कृषि	0-12	303 516	बाला पुत्री राजेन्द्र सिंह, आमप्रकाश, राजवीर, भाद पुत्रान मनफूल
				2/1	निजी	कृषि	2-9	1239 357	
				2/2	निजी	कृषि	1-9	733 497	रामकरन पुत्रान भादू, भीरसिंह पुत्रान मोजी दीर अतर विद्या, कविता पुत्री दयानन्द
				1487	निजी	रास्ता	0-3	75 879	जुमला भुरकान मालकान
				1480	निजी	रास्ता	0-5	126 465	
				428 मिन	निजी	तालाब	1-3	581 739	विजय सिंह, ईश्वर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान रामकरन
				428/1	निजी	प्लोट	0-8	202 344	जगदीश प्रसाद पुत्रान निहालचन्द, राजेश कुमार पुत्रान कुमार पुत्रान ईश्वर सिंह
				27	निजी	प्लोट	0-1	25 293	नक्षिया विद्या, जमदीसिंह सुधी विद्या, आनंद, राजेश सिंह आदि राजेन्द्र पुत्रान बलदेव, अतर, पुत्र मणदी आदि
				9	निजी	कृषि	2-17	1441 701	देवी दत्त, महावीर, श्रीनिवास, जयभक्तान पुत्रान जयगोपाल, धनपती विद्या, अजित, सुनील, शिखर पुत्रीया व रमेश चन्द, सदीप पुत्र श्रीदत्त
				12	निजी	कृषि	3-0	75 879	
				13/1	निजी	कृषि	0-14	354 102	जगदीश प्रसाद पुत्रान निहालचन्द, राजेश कुमार पुत्रान कुमार पुत्रान ईश्वर सिंह
				13/2	निजी	कृषि	0-19	480 567	सारा विद्या, सुन्दर लाल, सुरेश कुमार भगवान मलकान
				18	निजी	कृषि	1-16	910 548	जयनारायण, नरेन्द्र अशोक, कुमार पुत्रान नारायण
				19	निजी	कृषि	3-0	1517 58	देवी दत्त, महावीर, श्रीनिवास, जयभक्तान पुत्रान जयगोपाल, धनपती विद्या, अजित, सुनील, शिखर पुत्रीया व रमेश चन्द, सदीप पुत्र श्रीदत्त
				474	निजी	रास्ता	0-2	50 586	जुमला भुरकान मालकान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				22/1	निजी	कृषि	0-1	25,293	देवी दत्त, महावीर, श्रीनिवास, जयभगवान पुत्रान जयगोपाल, धनपती विद्या, अनिल, सुनील, डिम्पल पुत्रीया व रमेश चन्द, संदीप पुत्र श्रीदत्त
				22/2	निजी	कृषि	0-6	151,758	राकेश पुत्र जगपाल सिंह, मुकेश पुत्र प्रीत सिंह, नरेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह, श्री कृष्ण, रामफल पुत्रान मौजी गौ मी०
				23/1/1	निजी	कृषि	0-5	126,465	देवी दत्त, महावीर, श्रीनिवास, जयभगवान पुत्रान जयगोपाल, धनपती विद्या, अनिल, सुनील, डिम्पल पुत्रीया व रमेश चन्द, संदीप पुत्र श्रीदत्त
				23/1/2	निजी	कृषि	2-16	1416,408	राकेश पुत्र जगपाल सिंह, मुकेश पुत्र प्रीत सिंह, नरेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह, श्री कृष्ण, रामफल पुत्रान मौजी गौ मी०
				23/2	निजी	कृषि	2-0	1011,72	सारा विद्या, सुन्दर लाल, सुरेश कुमार, भगतसम पुत्रान जयनारायण, नरेन्द्र, अशोक कुमार पुत्रान चन्द्रमान
				24/1	निजी	कृषि	0-10	252,93	सारा विद्या, सुन्दर लाल, सुरेश कुमार पुत्रान जयनारायण, नरेन्द्र, अशोक कुमार पुत्रान चन्द्रमान, सरस्वती विद्या, राखी पुत्री प्रवीण कुमार पुत्र भगत राम
				24/2	निजी	कृषि	0-1	25,293	सारा विद्या, सुन्दर लाल, सुरेश कुमार, भगतसम पुत्रान जयनारायण, नरेन्द्र, अशोक कुमार पुत्रान चन्द्रमान
				197//					
				2	निजी	कृषि	0-1	25,293	राकेश पुत्र जगपाल सिंह, मुकेश, पुत्र प्रीत सिंह, नरेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह, श्री कृष्ण, रामफल पुत्रान मौजी गौ मी०
				3	निजी	कृषि	4-2	2074,026	राकेश पुत्र जगपाल सिंह, मुकेश पुत्र प्रीत सिंह, नरेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह
				4	निजी	कृषि	2-11	1289,943	सारा विद्या, सुन्दर लाल, सुरेश कुमार, भगतसम पुत्रान जयनारायण, नरेन्द्र, अशोक कुमार पुत्रान चन्द्रमान
				480	पंचायत	रास्ता	0-7	177,051	ग्राम पंचायत
				7	निजी	कृषि	2-7	1189,771	सारा विद्या, सुन्दर लाल, सुरेश कुमार, भगतसम पुत्रान जयनारायण, नरेन्द्र, अशोक कुमार पुत्रान चन्द्रमान
				8	निजी	कृषि	3-17	1947,561	राकेश पुत्र जगपाल सिंह, मुकेश पुत्र प्रीत सिंह, नरेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह
				1488	निजी	रास्ता	0-4	101,172	जुमला मुस्कान मलखान
				13	निजी	कृषि	4-4	2124,612	रामधन पुत्र छोदू
				14	निजी	कृषि	2-1	1037,013	राजसिंह पुत्र नन्दकिशोर, कृष्णा पुत्रीया चन्दकिशोर, जगमोहन, दूधराम पुत्रान कृष्णपाल, चन्द्रसिंह पुत्रान गुलाब सिंह, सरोज विद्या, विद्या, मौन पुत्रीया बंदी पुत्रान चन्द्रराम, फूलपती पत्नी राजसिंह
				16/1	निजी	कृषि	1-1	531,153	बलपन्त सिंह, हवा सिंह, बहादुर, जीत पुत्रान रामसरूप
				16/2	निजी	कृषि	1-1	531,153	दया पुत्री इन्दरराज
				17	निजी	कृषि	3-18	1972,854	देवी दत्त, महावीर, श्रीनिवास, जयभगवान पुत्रान जयगोपाल, धनपती विद्या, अनिल, सुनील, डिम्पल पुत्रीया व रमेश चन्द, संदीप पुत्र श्रीदत्त
				18	निजी	कृषि	0-7	177,051	देवी दत्त, महावीर, श्रीनिवास, जयभगवान पुत्रान जयगोपाल, धनपती विद्या, अनिल, सुनील, डिम्पल पुत्रीया व रमेश चन्द, संदीप पुत्र श्रीदत्त
				23	निजी	कृषि	0-0	0	खजानी देवी विद्या पनमेरवरी, गंगादेई, निर्मलादेवी, सुमिता देवी, अनिता देवी पुत्रान पन्ना लाल, वाजिद सिंह, विजेन्द्र सिंह, महेश कुमार, पन्नालाल पुत्रान लक्ष्मी नारायण
				24/1	निजी	कृषि	2-8	1214,064	देवी दत्त, महावीर, श्रीनिवास, जयभगवान पुत्रान जयगोपाल, धनपती विद्या, अनिल, सुनील, डिम्पल पुत्रीया व रमेश चन्द, संदीप पुत्र श्रीदत्त
				24/2	निजी	कृषि	0-16	404,688	खजानी देवी विद्या पनमेरवरी, गंगादेई, निर्मलादेवी, सुमिता देवी, अनिता देवी पुत्रान पन्ना लाल, वाजिद सिंह, विजेन्द्र सिंह, महेश कुमार, पन्नालाल पुत्रान लक्ष्मी नारायण
				25	निजी	कृषि	1-11	784,083	बदर सिंह उर्फ बंदी पुत्रान रूपचन्द, फलते सिंह पुत्र कहरी
				212//					
				4	निजी	कृषि	3-4	1618,752	खजानी देवी विद्या पनमेरवरी, गंगादेई, निर्मलादेवी, सुमिता देवी, अनिता देवी पुत्रान पन्ना लाल, वाजिद सिंह, विजेन्द्र सिंह, महेश कुमार, पन्नालाल पुत्रान लक्ष्मी नारायण
				5	निजी	कृषि	1-9	733,497	बदर सिंह उर्फ बंदी पुत्रान रूपचन्द, फलते सिंह पुत्र कहरी
				1489	निजी	रास्ता	0-2	50,586	जुमला मुस्कान मलखान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				6/1	निजी	कृषि	2-2	1062.306	वेदकौर पत्नी करतार सिंह, सोमवीर पुत्रान करतार सिंह, प्रेम पुत्री रामचन्द्र
				6/2	निजी	कृषि	2-10	1264.65	श्री कृष्ण, रामफल पुत्रान मौजी
				7	निजी	कृषि	0-7	177.051	
				15	निजी	कृषि	2-16	1416.408	श्री कृष्ण, रामफल पुत्रान मौजी, बिजेन्द्र, सुन्दरलाल पुत्रान श्री कृष्ण
				16/1	पंचायत	कृषि	2-2	1062.306	ग्राम पंचायत
				16/2	निजी	कृषि	0-12	303.516	हरीराम, ईश्वरदत्त, सुनीलदत्त पुत्रान सतोषा देवी पुत्रान ओमदत्त, सतोष देवी विधवा, रमेश दत्त, सोमदत्त पुत्रान विद्या दत्त, सराजेरानी, कविता, कन्दना पुत्रीया विद्यादत्त, चामादेवी विधवा, विष्णु दत्त, भगवानदत्त पुत्रान सरस्वती पुत्रान देवी दत्त
				25	निजी	कृषि	1-13	834.669	
				481	पंचायत	रास्ता	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				213//					
				11	निजी	कृषि	0-15	379.395	वेदकौर पत्नी करतार सिंह, सोमवीर पुत्रान करतार सिंह, प्रेम पुत्री रामचन्द्र
				1493	निजी	रास्ता	0-3	75.879	जुमला मुस्कान मलखान
				20	निजी	कृषि	1-10	758.79	वेदकौर पत्नी करतार सिंह, सोमवीर पुत्रान करतार सिंह, प्रेम पुत्री रामचन्द्र
				21/1	निजी	कृषि	0-18	455.274	हरीराम, ईश्वरदत्त, सुनीलदत्त पुत्रान सतोषा देवी पुत्रान ओमदत्त, सतोष देवी विधवा, रमेश दत्त, सोमदत्त पुत्रान विद्यादत्त, सराजेरानी, कविता, कन्दना पुत्रीया विद्यादत्त, चामादेवी विधवा, विष्णु दत्त, भगवानदत्त पुत्रान देवी दत्त
				21/2	निजी	कृषि	1-11	784.083	वेदकौर पत्नी करतार सिंह, सोमवीर पुत्रान करतार सिंह, प्रेम पुत्री रामचन्द्र
				234//					
				1/1	निजी	कृषि	2-11	1289.943	दीवान उर्फ दीवान सिंह पुत्रान सयोराम
				1/2	निजी	कृषि	1-10	758.79	रामकेशन, रामफल, मुख्तार, बलवीर पुत्रान जीतराम, चदरमुखी, बलदेवी पुत्रीया जीतराम, धनपती विधवा, सुश, सुरेन्द्र, अनिल पुत्रान जिते सिंह, मानवती विधवा, सुजन पुत्रीया मुकेश, दिनेश पुत्र राजेन्द्र
				2	निजी	कृषि	0-1	25.293	
				1493/1	निजी	रास्ता	0-2	50.586	जुमला मुस्कान मालकान
				1621	निजी	रास्ता	0-4	101.172	
				9/2	निजी	कृषि	1-8	708.204	जयकरण पुत्र रामफल
				10/1	निजी	कृषि	0-9	227.637	दीवान उर्फ दीवान सिंह पुत्रान सयोराम
				10/2	निजी	कृषि	2-2	1062.306	रामगोपाल पुत्र सुखराम, मोला पुत्र गबदू
				11	निजी	कृषि	2-12	1315.236	साहब सिंह, रामफल, रामसिंह, अनूप सिंह पुत्रान दलीप पुत्रान सुखराम, सुखवीर सिंह, बदलू, नरेश पुत्रान नरेशसिंह पुत्रान दलीप सिंह
				12	निजी	कृषि	1-7	682.911	जयकरण पुत्र रामफल
				1366	सरकारी	प्लॉट	0-19	480.567	प्रदेश सरकार
				19/2	निजी	कृषि	1-10	758.79	खुशीर सिंह पुत्र नीर सिंह पुत्रान गंगा राम, बिजेन्द्र, राजीव पुत्रान श्रीमति सविता, कविता, पुनेश पुत्रीया श्रीमति रामरती पुत्री मेर सिंह
				20	निजी	कृषि	1-4	607.032	राजवीर पुत्र रामफल
				21/2	निजी	कृषि	0-2	50.586	नीराम, जयपाल, बिजेन्द्र पुत्रान अमर सिंह पुत्रान भरत सिंह, आशीष पुत्र दलेल पुत्र अमरसिंह
				1622	निजी	रास्ता	0-4	101.172	मुस्तारका मालकान
				22	निजी	कृषि	3-7	1694.631	नीराम, जयपाल, बिजेन्द्र पुत्रान अमर सिंह पुत्रान भरत सिंह, आशीष पुत्र दलेल पुत्र अमरसिंह
				235//					
				5	निजी	कृषि	0-1	25.293	दीवान उर्फ दीवान सिंह पुत्रान सयोराम
				249//					
				2	निजी	कृषि	4-2	2074.026	भगवाना पुत्र सयोराम
				9/1	निजी	कृषि	1-0	505.86	मुस्तारका मालकान
				9/2	निजी	कृषि	2-0	1011.72	श्रीमति भरती पुत्री बरखा, रिसाल सिंह, चादराम, श्योराम पुत्रान मेरा पुत्र मुखराम
				9/3	निजी	कृषि	0-12	303.516	हरचन पुत्र सयोराम
				10	निजी	कृषि	0-4	101.172	रामसिंह पुत्र गंगादान पुत्र नहना, चर्मपाल पुत्र लालचन्द पुत्र गंगाराम
				11	निजी	कृषि	0-19	480.567	हरचन पुत्र सयोराम
				11/7	निजी	खाद गड्डा	0-0	0	जुमला मुस्कान मलकान, मकडुजा रामचन्द्र पुत्र दाताराम गौ मीठ
				11/8	निजी	खाद गड्डा	0-1	25.293	मकडुजा प्रभू पुत्र बिहारी गौ मीठ
				11/9	निजी	रास्ता	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान
				12/1	निजी	कृषि	1-18	961.134	हरचन पुत्र सयोराम
				12/2	निजी	खाद गड्डा	0-2	50.586	रतीराम पुत्र कुरदा पुत्र गुलाब सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				12/3	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				12/4	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	जयप्रकाश पुत्र जयलाल
				12/5	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	धनराज पुत्र कपूरसिंह, कुलदीप, दिनेश पुत्रान लालचन्द, हेतराम पुत्र व श्रीमति सीमा पुत्री बलगानन्द
				12/8	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	राजवीर, रमेश, सजय पुत्र बनेसिंह पुत्र दर्याव सिंह, श्रीमति बक्तावरी, धनवीर, धनमेखरी, प्रेमवीर पुत्री दर्याव सिंह पुत्र नेतराम, रामकुमार पुत्र दरिया सिंह, सावित्री देवी पत्नी उमैद सिंह
				12/7	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	मांगेराम पुत्र दलीप पुत्र नेतराम
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0-19	480.567	ग्राम पंचायत
				627	निजी	प्लाट	1-1	531.153	मगवाना पुत्र सवीराम
				628	निजी	प्लाट	2-0	1011.72	
				629	निजी	प्लाट	1-5	632.325	महताब, दिलबाग, कंवर सिंह, सतवीर पुत्र श्रीमति रोशनी, सुमित्रा पुत्री बसन्ती
				830	निजी	प्लाट	1-7	682.911	प्रमू, श्रीमति लक्ष्मी आदि मु० ख० न० 781
				831	निजी	प्लाट	1-5	632.325	रामकल, रामधन पुत्र रोजक राम
				832	पंचायत	रास्ता	0-9	227.637	ग्राम पंचायत
				833	निजी	प्लाट	1-19	986.427	रतीराम पुत्र कुरदा
				834	निजी	प्लाट	1-9	733.497	जयप्रकाश पुत्र जयलाल
				841	निजी	प्लाट	2-10	758.79	रामकिशन, रामराज, रामचन्द्र पुत्र भरतू
				842	पंचायत	रास्ता	0-7	177.051	मुस्तारका मालकान
				19/1	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान - रतन पुत्र चन्दू गै० मी०
				19/2	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान - बिहारी पुत्र श्रीचन्द गै० मी०
				19/3	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान - शिवलाल पुत्र अलीमैर गै० मी०
				19/4	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान - पृथ्वी पुत्र सावलिया गै० मी०
				20/10	निजी	खाद गड़ड़ा	0-0	0	मुस्तारका मालकान - मेहर सिंह पुत्र जयकर्ण गै० मी०
				20/11	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान - शकर पुत्र मामचन्द गै० मी०
				20/12	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान - मेहरा पुत्र भानी गै० मी०
				20/13	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान - रिसाल पुत्र चन्दराम गै० मी०
				20/14	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	मुस्तारका मालकान - ख्याली पुत्र भयाराम गै० मी०
				20/15	निजी	खाद गड़ड़ा	0-0	0	जूमला मुस्तारका मालकान - शयोचन्द पुत्र देवकराम गै० मी०
				20/25	निजी	रास्ता	0-2	50.586	जूमला मुस्तारका मालकान
				20/35	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - घासी पुत्र हीरा गै० मी०
				20/36	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - निहाल पुत्र मामचन्द गै० मी०
				20/37	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - फूले पुत्र रामजीलाल गै० मी०
				20/38	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - मान पुत्र मांगेराम गै० मी०
				20/39	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - मुखार्ये पुत्र सुभाषचन्द गै० मी०
				20/40	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - रणजीत पुत्र भरतू गै० मी०
				20/50	निजी	रास्ता	0-2	50.586	जूमला मुस्तारका मालकान
				20/80	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - रामचन्द पुत्र नन्दू
				20/61	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - घीसाराम पुत्र मीरसिंह
				20/62	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - प्रमू पुत्र पलड गै० मी०
				20/63	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - रणसिंह पुत्र पलड गै० मी०
				20/64	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - समे पुत्र प्रताप गै० मी०
				20/65	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	जूमला मुस्तारका मालकान - प्रताप पुत्र सुपडू गै० मी०
				20/66	निजी	खाद गड़ड़ा	0-0	0	जूमला मुस्तारका मालकान - नीराम पुत्र मन्नु गै० मी०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				20/75	निजी	रास्ता	0-2	50 586	जुमला मुस्तरका मालकान :-
				20/84	निजी	खाद गड्डा	0-0	0	जुमला मुस्तरका मालकान :- छोदू पुत्र श्योराम गी० मी०
				20/85	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- हजारि पुत्र बन्सी गी० मी०
				20/86	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- दिया पुत्र बन्सी गी० मी०
				20/87	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- सुरजी पुत्र श्रीचन्द गी० मी०
				20/88	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रामकेशन पुत्र श्रीचन्द गी० मी०
				20/89	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- तारा पुत्र श्रीचन्द गी० मी०
				20/90	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रामशकर पुत्र श्रीचन्द गी० मी०
				20/91	निजी	खाद गड्डा	0-0	0	जुमला मुस्तरका मालकान :- फकीरा पुत्र श्रीचन्द गी० मी०
				20/100	निजी	रास्ता	0-2	50 586	जुमला मुस्तरका मालकान :-
				20/109	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रणवीर पुत्र बुधराम गी० मी०
				20/110	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- मेहर सिंह पुत्र बुधराम गी० मी०
				20/111	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रामधन् पुत्र धनसिंह गी० मी०
				20/112	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रामकुवर पुत्र मानू गी० मी०
				20/113	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- सुरता पुत्र रामजीलाल गी० मी०
				20/114	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- प्रमू पुत्र रामजीलाल गी० मी०
				20/115	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- अतार पुत्र रामजीलाल गी० मी०
				20/116	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रतन पुत्र मगत गी० मी०
				20/125	निजी	रास्ता	0-4	101 172	जुमला मुस्तरका मालकान :-
				21/10	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- नफे पुत्र अजीत गी० मी०
				21/11	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- माना पुत्र रामजीलाल गी० मी०
				21/12	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- जितसिंह पुत्र रामजीलाल गी० मी०
				21/13	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- बलवन्त पुत्र प्रताप गी० मी०
				21/14	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- बोदन पुत्र चन्दरी गी० मी०
				21/15	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रूप पुत्र जोमी राम गी० मी०
				21/16	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रामसरूप पुत्र जीतः गी० मी०
				21/17	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- तारा पुत्र हरलाल गी० मी०
				21/18	निजी	खाद गड्डा	0-0	0	जुमला मुस्तरका मालकान :- रामधन् पुत्र राहमा गी० मी०
				21/26	निजी	रास्ता	0-4	101 172	जुमला मुस्तरका मालकान :-
				21/35	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- अभीचन्द पुत्र भोला गी० मी०
				21/36	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- अभीचन्द पुत्र रामसरूप गी० मी०
				21/37	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- धूपन पुत्र रामसिंह गी० मी०
				21/38	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- मन्ती पुत्र रामसिंह गी० मी०
				21/39	निजी	रास्ता	0-10	252 93	जुमला मुस्तरका मालकान :-
				21/53	निजी	रास्ता	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :-
				21/54	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- भरतू पुत्र गजे गी० मी०
				21/55	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- ओमल पुत्र मार्गाराम गी० मी०
				21/56	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- रिसाल पुत्र जुगललाल गी० मी०
				21/57	निजी	खाद गड्डा	0-1	25 293	जुमला मुस्तरका मालकान :- नेतराम पुत्र राजे गी० मी०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				21/58	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	बर्मन्ड, सुरेश चन्द, राजसिंह पुत्रान हरी सिंह, प्रेम पुत्री चन्द
				21/59	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	बर्मन्ड, सुरेश चन्द, राजसिंह पुत्रान हरी सिंह, प्रेम पुत्री चन्द
				21/60	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	जगदीश प्रसाद पुत्रान निहालचन्द मालक कक्या रायकला, देवी सहाय, नानक, श्रीमति कृष्णा, धर्मन्ड, श्रीमति बेद कौर आदि
				21/61	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	रामधन पुत्र छोटू
				21/62	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
				21/63	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	सारा विद्या, सुंदर लाल, सुरेश कुमार, भगतसाम पुत्र जयनारायण, नरेन्द, अशोक कुमार पुत्र चंदर भान
				21/64	निजी	रास्ता	0-8	202 344	जुमला मुस्तरका मालकान
				21/65	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	सारा विद्या, सुंदर लाल, सुरेश कुमार, भगतसाम पुत्र जयनारायण, नरेन्द, अशोक कुमार पुत्र चंदर भान
				21/66	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	खजानी देवी विद्या पनभरवरी गंगादेवी, निर्मलादेवी, सुमिता देवी अनिता देवी पुत्रान पन्ना लाल, बजिज सिंह, दिजेन्द्र सिंह, महेश कुमार पुत्रान लक्ष्मी नारायण
				21/67	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	
				21/68	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	रामकिशन पुत्र बालक राम
				21/69	निजी	खाद गद्दा	0-1	25 293	दुलीचन्द, धर्मपाल उर्फ धर्मचन्द, पूरण पुत्र व किरानदेई, कस्तूरी, भतरी, अगुड़ी पुत्रीयान जागराम
				21/70	निजी	खाद गद्दा	0-1	25 293	
				21/71	निजी	खाद गद्दा	0-1	25 293	
				21/72	निजी	खाद गद्दा	0-1	25 293	श्री कृष्ण, रामफल पुत्र मीजी, बिजेन्द्र, सुंदर लाल पुत्र श्री कृष्ण
				22/1	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	कांडिया विद्या, फूली, भरपाई, केशर पुत्रीया रामकिशन, रामराज, रामचन्दर पुत्र भरतू
				22/2	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	विजय सिंह, इश्वर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान रामकला
				22/3	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	नयमा विद्या, शकुन्तला, कमला पुत्री रणवीर धर्मवीर पुत्रान शेषसिंह
				22/4	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	महाराज सिंह, प्रदीप कुमार पुत्रान राजेन्द्र सिंह, रणवीर सिंह, रघवीर सिंह पुत्रान भगवान सिंह, सुकन विद्या, नरेन्द्र सिंह, अश्वनी कुमार पुत्रान महावीर सिंह, भूपसिंह पुत्र अर्जुन सिंह
				22/5	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	पनभरवरी विद्या, करसीरी देवी, कृष्णा देवी पुत्रीया सुरेश चंद, दिनेश चंद, रामपत, आनन्द कुमार पुत्रान भयसाम
				22/6	निजी	खाद गद्दा	0-1	25 293	भीमसिंह पुत्र छजजू
				22/7	निजी	खाद गद्दा	0-1	25 293	राजेन्द्र सिंह पुत्र बलदेव
				22/8	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	पनभरवरी विद्या, करसीरी देवी, कृष्णा देवी पुत्रीया सुरेश चंद, दिनेश चंद, रामपत, आनन्द कुमार पुत्रान भयसाम
				22/9	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	महाराज सिंह, प्रदीप कुमार पुत्रान राजेन्द्र सिंह, रणवीर सिंह, रघवीर सिंह पुत्रान भगवान सिंह, सुकन विद्या, नरेन्द्र सिंह, अश्वनी कुमार पुत्रान महावीर सिंह, भूपसिंह पुत्र अर्जुन सिंह
				22/10	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	
				22/11	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	
				22/12	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	
				22/13	निजी	रास्ता	0-8	202 344	जुमला मुस्तरका मालकान
				22/14	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	बर्मन्ड, सुरेश चन्द, राजसिंह पुत्रान हरी सिंह, प्रेम पुत्री चन्द
				22/15	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	बर्मन्ड, सुरेश चन्द, राजसिंह पुत्रान हरी सिंह, प्रेम पुत्री चन्द
				22/16	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	जगदीश प्रसाद पुत्रान निहालचन्द मालक कक्या रायकला, देवी सहाय, नानक, श्रीमति कृष्णा, धर्मन्ड, श्रीमति बेद कौर आदि
				22/17	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	रामधन पुत्र छोटू
				22/18	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद
				22/20	निजी	खाद गद्दा	0-2	50 586	सारा विद्या, सुंदर लाल, सुरेश कुमार, भगतसाम पुत्र जयनारायण, नरेन्द, अशोक कुमार पुत्र चंदर भान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				22/21	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	विजय सिंह, ईश्वर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान रामकला
				22/22	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	रामशेर सिंह पुत्र रुकमा, कुष्मा पुत्री रुकमा, सुखदेवी पुत्री माईलाल, उभेद सिंह पुत्रान माईलाल, महेन्द्र सिंह, बिजेन्द्र सिंह, जोगेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान रामदेव सिंह, रामकीर पुत्री भोजू
				22/23	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				22/24	निजी	रास्ता	0-6	151 758	मुस्तारका मालकान
				22/25	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	हसकर विधवा मार्ग
				22/26	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	हवा सिंह, अमरसिंह, रामचंवर, धर्मवीर पुत्रान बालक
				22/27	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				22/28	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	देवी सिंह, सुरत सिंह पुत्रान रामसरूप
				22/29	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	परसराम, हेकराम, देवसराम पुत्रान रामसरूप
				22/30	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	रामकला, रामकल, जीताराम पुत्रान पूरण
				22/31	निजी	खाद गड़ड़ा	0-0	0	
				260 //					
				1/5	निजी	रास्ता	0-1	25 293	श्रीमति भतीरी विधवा, श्रीमति जालजी राजबाला, सन्तोष, कमलेश पुत्रीयां घासी, हसरज, कृषी सिंह, धन्दसिंह, जयसिंह, अफलादून पुत्रान घासी, आजाद, नरन्द पुत्रान दुलीचन्द, सजय, दलजीत पुत्रान बलवान, दुलीचन्द पुत्र अमीलाल
				1/6	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25 293	
				1/7	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	राजसिंह पुत्रान यान सिंह
				1/8	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/9	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/10	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/11	निजी	खाद गड़ड़ा	0-6	151 758	मुस्तारका मालकान
				1/31	निजी	रास्ता	0-1	25 293	
				1/32	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25 293	बनवारी, कपूर सिंह, छोदराम, रणवीर, जगदीर पुत्रान छतर सिंह, रामसिंह, बलवीर सिंह पुत्रान दलीप सिंह श्रीमति भरपाई विधवा, सुरत सिंह
				1/33	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/34	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/35	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	करीसिंह, होशियार सिंह पुत्र चन्दनी
				1/36	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/37	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	आजाद सिंह पुत्र दिगान सिंह
				1/38	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	हुकम चन्द, कबल सिंह पुत्रान बगवाना, राजवीर, बलजीत पुत्रान रसीराम, श्रीमति विमला, जगदली पुत्री रती राम
				1/39	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/40	निजी	खान गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/41	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	श्रीमति नन्ही विधवा, बिरभा, सजना छोटी पुत्रीया उदय सिंह, धन्दरमान, राजिव सिंह, जिते सिंह पुत्रान उदय सिंह
				1/42	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	मुस्तारका मालकान
				1/43	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	श्रीमति उदय कौर विधवा, श्रीमति चन्दर, रामप्यारी, विमला पुत्रीयां बलवीर सिंह, मुखलाप सिंह, दिलबाग सिंह, महेन्द्र, जले, समुन्दर, सरस पुत्रान दयाप सिंह
				1/44	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/45	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	
				1/46	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50 586	राजसिंह, गुलाब सिंह, समुन्दरसिंह, दर्शन सिंह, रमेश कुमार पुत्रान रामफल पुत्र बुनीलाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				1/47	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	श्रीमति किताबो, कश्मीरी, शीला, पुत्रीयान मोहरसिंह पुत्र गोकल
				1/48	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	रामधन, करतार पुत्रान देगराम
				1/49	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	रामधन, करतार पुत्रान देगराम
				1/50	निजी	सस्ता	0-9	227.637	गुरतारका मालकान
				1/51	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	श्रीमति भरवाई विद्या, मार्गाराम, रामनान, गुरसिंह पुत्रान पृथ्वी, श्रीमति शान्ति देवी पुत्री पृथ्वी
				1/52	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				1/53	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				1/54	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	रायसिंह पुत्र श्रीराम खेवट नं० 1407
				1/55	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	रायसिंह पुत्र श्रीराम खेवट नं० 1407
				1/56	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				1/57	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	रामचन्द्र, धर्मपाल पुत्रान मेर सिंह
				1/58	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				1/59	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				2/1	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	भगवान पुत्र सयोराम
				2/2	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	हरधन पुत्र सयोराम
				2/3	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	सरदार, करतारसिंह, जिलेसिंह पुत्रान कहरौ, श्रीमति किताबो, बुगली, जेदू, धर्म पुत्रीया कहरौ, श्रीमति सरती विद्या कहरौ
				2/4	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	रामकिसान, रामचन्द्र, रामराज पुत्रान भरतू
				2/5	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	हुकम चन्द, कलम सिंह पुत्रान भगवान, राजवीर, बलवीर पुत्रान रतीराम, श्रीमति विमला, जगवती पुत्री रती राम
				2/6	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				2/7	निजी	खाद गड़ड़ा	0-0	0	हुकमचन्द, बलवीर पुत्रान रिसाल सिंह
				2/11	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	गुरतारका मालकान
				2/12	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	शावल पुत्र कन्हैया
				2/13	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	रघुवीर सिंह पुत्र बख्तवार
				2/13	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				2/14	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	श्रीमति नाहटी विद्या, उमर सिंह, औषधकान पुत्रान चन्दणी राम श्रीमति कल्या देवी, रोहणी पुत्री पुत्रीया चन्दणी राम रतनसिंह पुत्र हरनाम
				2/15	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				2/16	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				2/17	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	गुरसिंह, हुकमसिंह पुत्रान शंवल
				2/18	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				2/19	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	दया कौर पुत्री व राजा, रनवीर पुत्र मूल चन्द, रामशेर, सतयवान पुत्रान रामपत व श्रीमती प्रेम विद्या, दया किसान, साहब सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान राम रूप पुत्रान लोक राम
				2/20	निजी	खाद गड़ड़ा	0-3	75.879	रनसिंह, धत्र पुत्रान जीतू, श्रीमति दया कौर पुत्री रनवीर, राजा पुत्रान मूलचन्द, श्रीमति प्रेम विद्या, दया किसान पुत्र मूल चन्द, साहब सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान रामसरूप, सतयवान, रामशेर पुत्र रामपत
				2/21	निजी	खाद गड़ड़ा	0-9	227.637	गुरतारका मालकान
				2/22	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	भगवान, हुकमचन्द, सुलतान पुत्र कन्हैया
				2/23	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				2/24	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	मगवान पुत्र हुकमी
				2/25	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	सुभाष, नरेश पुत्रान हरद्वारी, हरद्वारी पुत्र हरिसाम, सुरेश कुमार, हवासिंह पुत्र हरद्वारी
				2/26	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	केहरी, बलवीर पुत्रान टेकराम, करतार सिंह पुत्रान नवल सिंह
				2/27	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	श्रीमति रतनी पुत्री कवल सिंह, रूपसिंह, प्रताप दत्तल, प्रकाश, कृष्ण पुत्र कवल सिंह
				2/28	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				2/29	निजी	रास्ता	0-2	50.586	मुस्तारका मालकान
				2/30	निजी	रास्ता	0-2	50.586	
				2/32	निजी	खाद गड़ड़ा	0-0	0	रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है
				2/33	निजी	रास्ता	0-0	0	मुस्तारका मालकान
				2/34	निजी	खाद गड़ड़ा	0-0	0	दलन सिंह पुत्र दूधराम
				2/35	निजी	खाद गड़ड़ा	0-0	0	श्रीमति रतनी पुत्री कवल सिंह, रूपसिंह, प्रताप दलाल, प्रकाश, कृष्ण पुत्र कवल सिंह
				2/36	निजी	रास्ता	0-0	0	मुस्तारका मालकान
				2/37	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	श्रीमति चन्दी विधवा हरचन्द, करतार सिंह पुत्रान नवल सिंह, श्रीमति सन्तोष, ज्योति पुत्रीया रिसाल सिंह
				2/38	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	लक्ष्मीनारायण, जगदीशचन्द आदि मु० ख० नं० 1348
				2/39	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	हुकम सिंह पुत्र रामजीलाल
				2/40	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	श्रीमति रिसाली पत्नी छोदराम
				9/1	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	राजसिंह पुत्र धानसिंह
				9/2	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				9/3	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	रामकिशन फूल, अमीरसिंह पुत्रान नेकी
				9/4	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				9/5	निजी	खाद गड़ड़ा	0-3	75.879	मुस्तारका मलखान
				9/6	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	सीस राम पुत्र राम भगत
				9/7	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	श्यामाध पुत्र उदमी पुत्र जाहरया, नफीसिंह, लालचन्द पुत्र उदमी, राजसिंह, सतराम, इंदर सिंह पुत्रान मारगराम पुत्र लालचन्द
				9/8	निजी	खाद गड़ड़ा	0-1	25.293	
				9/23	निजी	रास्ता	0-4	101.172	मुस्तारका मालकान
				10/4	निजी	रास्ता	0-2	50.586	
				10/5	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	चन्दराम, कवलसिंह, सुरत सिंह पुत्र मनसा राम
				10/6	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	जगदीश, राजवीर, छोदू राम सन्दीप पुत्रान रणसिंह
				10/7	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				10/8	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	बिहारी लाल पुत्र रणधीर सिंह
				10/9	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				10/10	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				10/11	निजी	रास्ता	0-3	75.879	मुस्तारका मालकान
				10/12	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	सूरजमान चन्द्रमान पुत्रान सुभाषचन्द
				10/13	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				10/14	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	जितेसिंह पुत्र व श्रीमति केसर पुत्री रामसरूप, राज, जयसिंह पुत्रान व बाला, शीला, मीना पुत्रीयान श्रीमति पनमेधरी, श्रीमति सरस्वती विधवा व ओमप्रकाश, कुलदीप, सतीश पुत्रान व श्रीमति सरोज, उषा पुत्रीयान बलवन्त, सीसराम पुत्र श्यामराम
				10/15	निजी	खाद गड़ड़ा	0-2	50.586	
				106/10	निजी	रास्ता	0-8	202.344	मुस्तारका मालकान
						गौत्र का कुल योग	198-10	100413.21	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(2) घदलन इ.स. 7	28 //				
				25	निजी	कृषि	0-0	0
				29 //				
				9	निजी	कृषि	0-15	379.395
				10	निजी	कृषि	2-19	1492.287
				11/1	निजी	कृषि	4-10	2278.37
				11/2	निजी	कृषि	1-4	807.032
				12	निजी	कृषि	0-16	404.688
				19	निजी	कृषि	0-2	50.586
				20	निजी	कृषि	6-12	3338.676
				21	निजी	कृषि	7-1	3566.313
				32 //				
				1	निजी	कृषि	4-13	2352.249
				10	निजी	कृषि	5-9	2756.937
				11	निजी	कृषि	4-12	2326.956
				20/1	निजी	कृषि	0-0	0
				20/2	निजी	कृषि	3-15	1896.975
				750	पंचायत	रास्ता	0-4	101.172
				21	निजी	कृषि	2-15	1391.115
				33 //				
				202	सरकारी	रास्ता	1-16	910.548
				5 मिन	निजी	कृषि	0-8	202.344
				8 मिन	निजी	कृषि	1-4	807.032
				149	पंचायत	नाली	0-3	75.879
				15 मिन	निजी	कृषि	2-2	1062.306
				16/1	निजी	कृषि	3-0	1517.58
				25	निजी	कृषि	3-16	1922.268
				48 //				
				5	निजी	कृषि	4-14	2377.542
				6/1	निजी	कृषि	4-18	2478.714
				8/2	निजी	रास्ता	0-7	177.051
				150	पंचायत	नाली	0-8	202.344
				15	निजी	कृषि	5-14	2883.402
				16	निजी	कृषि	5-6	2681.058
				25	निजी	कृषि	4-2	2074.026
				49 //				
				1	निजी	कृषि	2-2	1062.306
				10	निजी	कृषि	1-5	632.325
				11	निजी	कृषि	0-13	328.809
				20/1	निजी	कृषि	0-10	252.93
				20/2	निजी	कृषि	0-11	278.223
				754	पंचायत	रास्ता	0-16	404.688

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				21/1	निजी	कृषि	2-9	1239.357	रघुनाथल बोला, बर्नदार, श्रीमति सारजा विद्या, प्रदीप पुत्र शादी, बन्धन पुत्र जयनारायण
				53//					
				1	निजी	कृषि	5-16	2933.968	अभिषेक, सुरजामल पुत्र विजेन्द्र, विनोद, कपिल, राजेश पुत्र प्रताप, बीरा, टेकराम पुत्र रामभगत, बीरा पुत्री सतवीर पुत्र कबल सिंह, श्रीमति पतासा देवी विद्या, सत्यवान, नसीब पुत्र राजसिंह, श्रीमति सन्तोष विद्या, अजय पुत्र सीन पुत्री प्रदीप पुत्र राज सिंह, बानी पुत्र रगवीर सिंह, अभिषेक, सुरजामल पुत्र विजेन्द्र, विनोद, राजेश, कपिल पुत्र प्रताप सहन धर्मवीर पुत्र धीर
				9/1	निजी	कृषि	1-2	556.445	
				9/2	निजी	कृषि	0-9	227.637	बीरा, टेकराम पुत्र रामभगत, बीरा पुत्री सतवीर पुत्र कबल सिंह, श्रीमति पतासा देवी विद्या, सत्यवान, नसीब पुत्र राजसिंह, श्रीमति सन्तोष विद्या, अजय पुत्र सीन पुत्री प्रदीप पुत्र राज सिंह, बानी पुत्र रगवीर सिंह, अभिषेक, सुरजामल पुत्र विजेन्द्र, विनोद, राजेश, कपिल पुत्र प्रताप
				10	निजी	कृषि	6-12	3338.676	
				11/1	निजी	कृषि	0-19	480.567	रतीराम, लेखी राम, करण सिंह पुत्र सोहन
				11/2	निजी	कृषि	1-16	910.548	बीरा, टेकराम पुत्र रामभगत, बीरा पुत्री सतवीर पुत्र कबल सिंह, श्रीमति पतासा देवी विद्या, सत्यवान, नसीब पुत्र राजसिंह, श्रीमति सन्तोष विद्या, अजय पुत्र सीन पुत्री प्रदीप पुत्र राज सिंह, बानी पुत्र रगवीर सिंह, अभिषेक, सुरजामल पुत्र विजेन्द्र, विनोद, राजेश, कपिल पुत्र प्रताप
				12/1	निजी	कृषि	3-0	1517.58	
				12/2	निजी	कृषि	1-5	632.325	जसवन्त सिंह पुत्र हरी सिंह, रामफल पुत्र भरत, जगदेव, ओमसहाय पुत्र हरिसिंह, दयापुत्र श्रीमति सिंगरो, सतवन्ती पुत्री अखीराम, मेहर सिंह, तेजवीर सिंह पुत्र धर्मपाल, श्रीमति कृष्णा विद्या, पवन कुमार, दीपक कुमार पुत्र श्रीमति मन्जू देवी, अनुरा देवी पुत्री रगवीर पुत्र जिले सिंह
				13	निजी	कृषि	0-0	0	
				18/1	निजी	कृषि	0-0	0	
				18/2	निजी	कृषि	2-4	1112.892	सुरेश कुमार, नरेश कुमार, मनवीर पुत्र जयकरण
				19	निजी	कृषि	5-19	3009.867	
				20/1	पंचायत	गैर कृषि	0-0	0	ग्राम पंचायत
				20/2	निजी	कृषि	0-0	0	रतीराम, लेखी राम, करण सिंह पुत्र सोहन
				22	निजी	कृषि	1-16	910.548	सुरेश कुमार, नरेश कुमार, मनवीर पुत्र जयकरण
				23	निजी	कृषि	6-10	3288.09	
				24/1	निजी	कृषि	0-1	25.293	
				54//					
				150	पंचायत	नास्ती	1-4	607.032	ग्राम पंचायत
				5	निजी	कृषि	1-12	809.376	श्रीमती जीवनी, सुमित्रा, राजेश पुत्री रमेश कुमार, देवेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पुत्र धर्मचन्द, नरेन्द्र पुत्र कृष्ण पुत्र हरभूल
				6	निजी	कृषि	0-1	25.293	रतीराम, लेखी राम, करण सिंह पुत्र सोहन
				71//					
				3	निजी	कृषि	5-1	2554.593	रमेश, सुरेश, नरेश, पुत्रान रामफल, समशेर पुत्रान दयाचन्द, मन्नु, पुत्रान रामकवर रामफल, दयाचन्द, रामकवर पुत्र मानसिंह, श्रीमति सुनील पुत्री हरेन्द्र, अजय पुत्र फूलबती पुत्री मानसिंह
				4/1	निजी	कृषि	2-18	1466.994	
				4/2	निजी	कृषि	0-2	50.586	जयप्रकाश, रोहताश, जयसिंह, महावीरसिंह, रामवीरसिंह पुत्र प्रेमराज पुत्र नन्दा पुत्र हन्सराज, श्रीमति बरखी विद्या, बसन्ती कृष्णा पुत्री छोद, सतवीर, जय भगवान, रामफल पुत्र खेमचन्द व श्रीमति शीला विद्या, श्रीमति ज्योति पुत्री भूपेन्द्र, जितेन्द्र पुत्र कृष्ण
				6	निजी	कृषि	0-4	101.172	रमेश, सुरेश, नरेश, पुत्रान रामफल, समशेर पुत्रान दयाचन्द, मन्नु, पुत्रान रामकवर रामफल, दयाचन्द, रामकवर पुत्र मानसिंह, श्रीमति सुनील पुत्री हरेन्द्र, अजय पुत्र फूलबती पुत्री मानसिंह
				7	निजी	कृषि	6-11	3313.383	
				8	निजी	कृषि	0-18	455.274	
				753	पंचायत	पथ	0-9	227.637	ग्राम पंचायत
				14	निजी	कृषि	4-2	2074.026	ओम प्रकाश, रविन्द कुमार पुत्र हुकम सिंह
				15	निजी	कृषि	3-16	1922.268	
				16	निजी	कृषि	6-15	3414.555	महेन्द्र सिंह, ओम प्रकाश पुत्र रतन सिंह
				17	निजी	कृषि	0-8	202.344	
				25	निजी	कृषि	2-2	1062.306	
				72//					
				154	पंचायत	गैर कृषि	0-12	303.516	ग्राम पंचायत
				20	निजी	कृषि	0-14	354.102	ओम प्रकाश, रविन्द कुमार पुत्र हुकम सिंह पुत्र चन्दगी
				21	निजी	कृषि	0-5	126.465	
				गौरव का कुल योग			166-14	84328.882	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
			(3) तकरिया ह.ब.स 6	10//	20 मिन	निजी	कृषि	0-2	50.586	शान्ति पुत्री जोरा सिंह, ईश्वर सिंह, कवल सिंह पुत्रान रामे सुरेश कुमार पुत्रान पार्वती पुत्री रामा, श्रीमति प्रेम, आजाद कौर, सावित्री देवी पुत्रीया किताब सिंह, जसवीर, विरेन्द्र पुत्रान सूबे सिंह, रघवीर सिंह, रामचन्द्र पुत्री मागे राम
					21/2/1	निजी	कृषि	2-0	1011.72	
					21/2/2	निजी	कृषि	2-11	1289.943	रघवीर, रामचन्द्र पुत्रान मागेराम
					21/2/3	निजी	रास्ता	0-0	0	रघवीर, रामचन्द्र पुत्रान मागे राम, साधु पुत्रान मदीसिंह, श्रीमति शान्ति, ईश्वर सिंह, जोरावर सिंह, कवर सिंह पुत्रान रामा, सुरेश कुमार पुत्र व श्रीमति पार्वती पुत्री रामा, श्रीमति शान्ति विद्या, मन्मन, हरीप्रेम, महीपाल, राजसिंह, सजय कुमार पुत्रान पनमेशदरी पुत्री करनसिंह व श्रीमति प्रेम, आजाद कौर, सावित्री देवी पुत्रीया किताब सिंह, जसवीर, विरेन्द्र पुत्रान सुबे सिंह
					रास्ता	पचायत	रास्ता	0-9	227.637	ग्राम पचायत
				11//						
					25	निजी	कृषि	0-16	404.688	रघवीर, रामचन्द्र पुत्रान मागेराम
				12//						
					5	निजी	कृषि	0-1	25.293	माने पुत्र नेता, जसवीर सिंह पुत्र सूबे सिंह, श्रीमति देवकी विद्या, सदीप पुत्र सूबे सिंह, महा सिंह, खजान पुत्रान माने, श्रीमति प्रिया पुत्रान जय सिंह
				13//						
					1/1	निजी	कृषि	2-12	1315.236	रघवीर, रामचन्द्र पुत्रान मागेराम
					1/2	निजी	कृषि	2-10	1264.65	माने पुत्र नेता, जसवीर सिंह पुत्र सूबे सिंह, श्रीमति देवकी विद्या, सदीप पुत्र सूबे सिंह, महा सिंह, खजान पुत्रान माने, श्रीमति प्रिया पुत्रान जय सिंह
					1/3	निजी	कृषि	1-2	556.446	
					8/2	निजी	कृषि	0-0	0	कूडे पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण
					9	निजी	कृषि	5-12	2832.816	
					10	निजी	कृषि	2-5	1138.185	माने पुत्र नेता, जसवीर सिंह पुत्र सूबे सिंह, श्रीमति देवकी विद्या, सदीप पुत्र सूबे सिंह, महा सिंह, खजान पुत्रान माने, श्रीमति प्रिया पुत्रान जय सिंह
					12	निजी	कृषि	5-17	2959.281	सुदे पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण
					13/1	निजी	कृषि	1-18	961.134	कूडे पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण
					18/1	निजी	कृषि	0-4	101.172	दयानन्द, सुभाब आदि मैसर्स पवन फूड प्रोड्यूस डीपल कायान मुचरी
					18/2	निजी	कृषि	3-8	1719.924	कूडे पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण
					19	निजी	कृषि	2-1	1037.013	कूडे पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण पुत्र रामसिंह
					22	निजी	कृषि	0-0	0	कूडे पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण पुत्र रामसिंह
					23/1	निजी	कृषि	3-4	1618.752	मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण पुत्र रामसिंह
					23/2	निजी	कृषि	0-18	455.274	भरपाई विद्या, दर्शना, बिमला पुत्रीया रामावतार पुत्र रामकला
					24	निजी	कृषि	0-9	227.637	
					332	पचायत	रास्ता	0-3	75.879	ग्राम पचायत
					रास्ता	पचायत	रास्ता	0-2	50.586	ग्राम पचायत
				20//						
					3	निजी	कृषि	1-19	986.427	करतार सिंह, जगवीर पुत्रान दलीप, मनोज, ओमप्रकाश पुत्रान कतार सिंह
					4	निजी	कृषि	2-8	1214.064	सुरत सिंह पुत्रान आशा, रामकिशन, सहदेव, कल्याण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				7	निजी	कृषि	2-18	1418.408	सिंह पुत्रान सुरतसिंह,
				8	निजी	कृषि	1-9	733.497	कवार सिंह, जगवीर पुत्रान दलीप, मनोज, ओमप्रकाश
				13/1	निजी	कृषि	1-4	607.032	पुत्रान कतार सिंह
				13/2	निजी	नाली	0-2	50.586	नृपसिंह, कपूर सिंह, दयानन्द, सुखवीर सिंह, जय भगवान सिंह, जयसिंह उर्फ विजेन्द्र सिंह पुत्रान खेमचन्द, करतार सिंह, जगवीर सिंह, मनोज कुमार, ओमप्रकाश पुत्रान करतार सिंह
				14/1	निजी	कृषि	2-8	1214.064	जगवीर सिंह पुत्रान लोक राम, बलवन्त सिंह पुत्रान सयोजी
				14/2	सरकारी	नाली	0-5	126.465	हरियाणा सरकार
				303.304	सरकारी	नाली	0-5	126.465	
				17/1/1	सरकारी	नाली	0-5	128.465	
				17/1/2	निजी	कृषि	2-11	1289.943	जगवीर सिंह पुत्रान लोक राम, बलवन्त सिंह पुत्रान सयोजी
				17/2	पंचायत	पानी की नाली	0-4	101.172	ग्राम पंचायत
				18/1	सरकारी	नाली	0-2	50.586	हरियाणा सरकार
				18/2	निजी	कृषि	1-6	657.618	जुमाल मलखान, डीगल हकदारन हदबस्त रकबा खेवट
				70	पंचायत	शामलात देह	0-15	379.395	ग्राम पंचायत
				24/1	पंचायत	नाली	0-4	101.172	हरियाणा सरकार
				24/2	निजी	कृषि	2-16	1418.408	जगवीर सिंह पुत्रान लोक राम, बलवन्त सिंह पुत्रान सयोजी
				86	पंचायत	रास्ता	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				73	पंचायत	तालाब	1-18	961.134	ग्राम पंचायत
				89	पंचायत	तालाब	1-8	657.618	कर्मसिंह, जिलेसिंह, सतवीर सिंह पुत्रान देशराम, राजवीर, सोमवीर पुत्रान केवल सिंह, नरसिंह, रामफल, राजकुमार पुत्रान सरूप सिंह
				25//					
				4/1	पंचायत	पानी	0-4	101.172	हरियाणा सरकार
				4/2	निजी	कृषि	2-9	1239.357	आजाद सिंह, राजवीर सिंह पुत्रान जयलाल
				189	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	कर्मसिंह, जिलेसिंह, सतवीर सिंह पुत्रान देशराम, राजवीर, सोमवीर पुत्रान केवल सिंह, नरसिंह, रामफल, राजकुमार पुत्रान सरूप सिंह
				190	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	
				191	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	
				192	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	
				193	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	श्रीमति समझो देवी विधवा, सतवीर पुत्रान राजवन्ती, जलवन्ती, मतेरी, कमलेश, प्रेम पुत्रीया जयलाल, जयवीर, नवल पुत्रान दर्यादेव सिंह, श्रीमति भानमती विधवा, सुमन, भजू, देवा पुत्रीया दीपक पुत्रान राजसिंह मलखान कर्मण श्रीमति निहाली विधवा अमर सिंह पुत्र नैकी
				194	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	रणवीर सिंह, राजवीर सिंह, धर्मवीरसिंह, जगदेव सिंह, सतदेव सिंह, जगवीर सिंह पुत्रान बलवीर सिंह
				195	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	टैकराम, सुन्दर लाल पुत्रान रामसरूप
				196	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	भाना, जयनारायण, प्रकाश, राजेन्द्र पुत्रान बलदेव, श्रीमति कुलवती विधवा, जगदीश चन्द, सजीव, जगपाल पुत्रान पूनम देवी पुत्री सुरज भान
				197	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	ओमप्रकाश, रघवीर पुत्रान सिम्हू
				198	निजी	प्लाट	0-2	50.586	रणवीर, राजवीर सिंह, धर्मवीर, जगदेव, सतदेव, जगवीर पुत्रान बलवीर
				199	निजी	खाद गडबा	0-2	50.586	सुरज भान, दिलबाग सिंह, सुरेश, रमेश पुत्रान प्यार लाल
				200	निजी	प्लाट	0-2	50.586	दुकमचन्द, ताराचन्द, रामफल, जगदीश, रामरूप पुत्रान हरनारायण
				201	निजी	प्लाट	0-2	50.586	जागेराम, रिसाल सिंह, मुन्नीराम, मुन्नायार सिंह, हवा सिंह पुत्रान रामसिंह
				202	निजी	प्लाट	0-2	50.586	
				8/1	निजी	कृषि	0-0	0	श्रीमति शान्ति विधवा, सतरा, राजबाला पुत्रीया उदमी पुत्रान दीपू, जयसिंह, धर्मसिंह, रमसिंह पुत्रान उदमी, अतर सिंह, रमेश, सुरज भान पुत्रान रणधीर
				8/2	पंचायत	पानी की नाली	0-0	0	ग्राम पंचायत
				7/1	निजी	कृषि	1-15	885.255	श्रीमति शान्ति विधवा, सतरा, राजबाला पुत्रीया उदमी पुत्रान दीपू, जयसिंह, धर्मसिंह, रमसिंह पुत्रान उदमी, अतर सिंह, रमेश, सुरज भान पुत्रान रणधीर
				7/2	पंचायत	पानी की नाली	0-5	126.465	ग्राम पंचायत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				146	निजी	बगीचा	0-7	177.051	ओमप्रकाश, स्ववीर पुत्रान सिन्हा
				147/1	निजी	प्लाट	0-5	126.465	सूरज भान, दिलबाग सिंह, सुरेश, रमेश पुत्रान प्यार लाल
				147/2	निजी	प्लाट	0-4	101.172	88 / 123 की मालकीयता वाले मौलिक
				148	निजी	बगीचा	0-7	177.051	राजवीर सिंह, राजवीर सिंह, धर्मवीरसिंह, जगदेव सिंह, सतदेव सिंह, जगवीर सिंह पुत्रान बलवीर सिंह
				149	निजी	प्लाट	0-6	151.758	टेकराम, सुन्दर लाल पुत्रान रामसरूप
				150	निजी	बगीचा	0-6	151.758	कर्णसिंह, जिलेसिंह, सतवीर सिंह पुत्रान देहराम, राजवीर, सोमवीर पुत्रान कंचल सिंह, नरेशसिंह, रामकल, राजकुमार पुत्रान सरूप सिंह
				151	निजी	प्लाट	0-12	303.516	श्रीमति कृमाली देवी विधवा, राजवन्ती, जलवन्ती, भतेरी, कमलेश, प्रम पुत्रीया जयलाल, सतवीर पुत्रान जयलाल, जयवीर, नवल सिंह पुत्रान दर्याव सिंह, भानवती विधवा, सुमन, मन्जू, रेखा पुत्रीया दीपक पुत्रान राजसिंह
				152	निजी	बगीचा	0-7	177.051	भान, जयनारायण, प्रकाश, राजेन्द्र पुत्रान बलदेव, श्रीमति फूलवती विधवा, जगदीश चन्द, संजीव, जगपाल पुत्रान पूनम देवी पुत्री सूरज भान
				153	निजी	बगीचा	0-6	151.758	जागराम, रिसाल सिंह, मुन्शीराम, मुखारार सिंह, हवा सिंह पुत्रान रामसिंह
				155	निजी	बगीचा	0-5	126.465	सुभाष पुत्रान माहनी, प्रेमी पुत्री बलवान सिंह, कृष्ण पुत्रान इन्दर, सोमनीदेवी विधवा, चन्दसिंह, सीताराम पुत्रान रीग पुत्री कमल सिंह, महारसिंह पुत्र श्रीमति माहनी
				156	निजी	बगीचा	0-6	151.758	सीलक राम, आनन्द सिंह पुत्रान श्रीमति ओमपती पत्नी दुलीचन्द पुत्रान जुग
				336	पञ्चायत	रास्ता	0-3	75.879	ग्राम पञ्चायत
				159	निजी	बगीचा	0-5	126.465	राजपाल सिंह, धर्मपाल सिंह पुत्रान सुरत सिंह, श्रीमति वेदो विधवा, दीपक पुत्रान जयलाल, श्रीमति भुरवी विधवा, रामकिशन, राकेश पुत्रान जीते पुत्रान भीतर सिंह, जीते पुत्रान भीतर सिंह
				160	निजी	बगीचा	0-6	151.758	पुष्पी पुत्र कुताडिया पुत्र रामजीलाल
				163	निजी	बगीचा	0-4	101.172	किताबी विधवा, रामरती, राजेश, सतोष पुत्रीया हेरवर सिंह, धर्मवीर, बिजेन्द्र, राजकुमार, मुकेश पुत्रान बरती राम, रिछाराम पुत्रान हरदे राम
				164	निजी	बगीचा	0-13	328.809	सुरेश कुमार, राजेश कुमार पुत्रान हांसियार सिंह, करतार सिंह, राजकपूर पुत्रान श्रीनारायण, दिलबाग, देवेन्द्र पुत्रान श्रीमति तारा, निर्मला पुत्रीया रामधगत, श्रीमति खजानी पत्नी सूरज भान, ओमप्रकाश पुत्रान भूटिया
				166	निजी	बगीचा	0-6	151.758	दलपत सिंह, मालिकराम पुत्रान भेराम, ओमप्रकाश, सुरेश, मुकेश पुत्रान दलपत सिंह, देवेन्द्र, बिजेन्द्र, प्रवीण कुमार पुत्रान मालिकराम
				167	निजी	बगीचा	0-7	177.051	स्ववीर सिंह, रामकिशन पुत्रान मनशा, जीते, जगजीत पुत्रान जीतो पुत्रीया सरदारी, कवर सिंह पुत्रान मनसा, श्रीमति प्रिया विधवा, अनीता, सुनीता पुत्रीया सुरेश पुत्रान कवरसिंह, भरपाई विधवा, दर्शना, बिनला पुत्रीया रामधगतार पुत्रान रामकला, आजाद सिंह, दयानन्द पुत्रान रामेश्वर, श्रीमति खजानी विधवा, बलवीर सिंह, रनवीर सिंह, सतवीर सिंह, महावीर सिंह, सतवीर सिंह, महावीर सिंह, ओमप्रकाश, शक्ति सिंह पुत्रान कमल पुत्रीया हुकमचन्द, महावीर पुत्रान हुकमचन्द, दयानन्द, सुभाष आदि नैसर्ग पवन फूड प्राइव्यूस डीगल
				168	निजी	बगीचा	1-2	556.446	जागराम, रिसाल सिंह, मुन्शीराम, मुखारार सिंह, हवा सिंह पुत्रान रामसिंह
				169	निजी	प्लाट	0-16	404.688	टेकराम, सुन्दर लाल पुत्रान रामसरूप
				170	निजी	बगीचा	1-3	581.739	भान, जयनारायण, प्रकाश, राजेन्द्र पुत्रान बलदेव, श्रीमति फूलवती विधवा, जगदीश चन्द, संजीव, जगपाल पुत्रान पूनम देवी पुत्रीया सूरज भान
				171	निजी	प्लाट	0-13	328.809	उभेद सिंह, रामवीर पुत्रान रवीराम
				172/1	निजी	प्लाट	0-7	177.051	आजाद सिंह, राजवीर सिंह पुत्रान जयलाल
				172/2	निजी	प्लाट	0-7	177.051	श्रीमति मान्नि विधवा, संतरा, राजबाई पुत्रीया उदमी पुत्रान दीपू, जयसिंह, धर्मसिंह, रनसिंह पुत्रान उदमी, अतर सिंह, रमेश, सूरज भान पुत्रान राजवीर
				173	निजी	बगीचा	0-8	227.837	सुरत सिंह पुत्र आशा, रामकिशन, सहदेव, कप्तान सिंह पुत्रान सुरत सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				174	निजी	बगीचा	0-8	202.344	राजपाल सिंह, धर्मपाल सिंह पुत्रान सुरत सिंह, श्रीमति वेदो विद्या, दीपक पुत्रान जयलाल, श्रीमति मूर्ति सिन्ध्या, रामकिशन, राकेश पुत्रान जीते पुत्रान नीतर सिंह, जीते पुत्रान नीतर सिंह
				36/1	पंचायत	पानी की नाली	0-4	101.172	हरियाणा सरकार
				16/2	निजी	कृषि	0-3	75.879	पृथी पुत्र कुशदिया पुत्र रामजीलाल
				16/3	निजी	कृषि	0-16	404.688	
				16/2	पंचायत	पानी की नाली	0-4	101.172	ग्राम पंचायत
				24/2	निजी	कृषि	1-7	682.911	रिफाई उपलब्ध नहीं है
				26/1	निजी	कृषि	0-5	126.465	पृथी पुत्र कुशदिया
				26/2	सरकारी	कृषि	1-2	556.446	हरियाणा सरकार
				97	निजी	प्लाट	0-8	202.344	श्रीमति धर्मा सिन्ध्या, रामकर, जयकिशन, रामकिशन, जगदीश पुत्रान श्रीमति कानि, मूर्ति, विमला पुत्रीय दुलीचन्द
				98	निजी	प्लाट	0-3	75.879	सुकलाल पुत्र कुशदिया
				33 / /					
				96	पंचायत	रास्ता	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				5/1	पंचायत	पानी की नाली	0-4	101.172	ग्राम पंचायत
				5/2	निजी	कृषि	0-1	25.293	पृथी पुत्रान कुशदिया पुत्रान रामजीलाल
				334	पंचायत	रास्ता	0-10	252.93	ग्राम पंचायत
				6/1	निजी	कृषि	2-18	1416.408	ओमप्रकाश पुत्रान सिन्धु, धर्मपाल सिंह पुत्र सुरत सिंह, रणवीर पुत्रान हुकमचन्द, दीपक पुत्रान जयलाल, विजेन्द्र पुत्रान मुन्नी राम, धर्मवीर सिंह पुत्रान बन्नी राम, राजेन्द्र सिंह पुत्रान राधेराम, राजपाल सिंह पुत्रान सुरतसिंह
				6/2	पंचायत	पानी की नाली	0-5	126.465	ग्राम पंचायत
				7	पंचायत	कृषि	0-8	202.344	
				7/1	पंचायत	प्लाट	0-0	0	
				7/2	पंचायत	प्लाट	0-1	25.293	
				7/3	पंचायत	प्लाट	0-1	25.293	
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0-2	50.586	
				7/4	पंचायत	प्लाट	0-1	25.293	
				7/5	पंचायत	प्लाट	0-1	25.293	
				7/6	पंचायत	प्लाट	0-0	0	
				14	पंचायत	कृषि	0-12	303.516	ग्राम पंचायत
				15/1	पंचायत	पानी की नाली	0-5	126.465	
				16/2	पंचायत	कृषि	2-15	1391.115	ग्राम पंचायत :- मदीसिंह पुत्र रतीराम गौ गौ
				16/1	निजी	प्लाट	0-3	75.879	सरदार पुत्र रामसूर्य
				16/2	निजी	प्लाट	0-3	75.879	दयानन्द पुत्रान चन्दगी राम
				16/3	निजी	प्लाट	0-3	75.879	धर्मसिंह पुत्र रतीराम
				16/4	पंचायत	प्लाट	0-0	0	ग्राम पंचायत :- मदीसिंह पुत्र रतीराम गौ गौ
				16/6	पंचायत	प्लाट	2-10	1264.65	ग्राम पंचायत
				17/5	निजी	प्लाट	0-0	0	राजे पुत्र कबल
				17/6	निजी	प्लाट	0-3	75.879	बलराम पुत्र राजे
				17/7	निजी	प्लाट	0-3	75.879	रामकर पुत्र दुलीचन्द
				17/8	निजी	प्लाट	0-0	0	मन्दलाल पुत्र रूपलाल
				17/18	पंचायत	प्लाट	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				17/19	पंचायत	प्लाट	0-6	151.758	
				91	पंचायत	हस्पताल	0-13	328.809	
				92	पंचायत	पंचायत	0-17	429.981	ग्राम पंचायत
				24	पंचायत	कृषि	1-8	708.204	
				25	पंचायत	पशु विभाग	3-0	1517.58	पशु विभाग हरियाणा चण्डीगढ़
				201	निजी	खाद गडका	0-2	50.586	जाने राम, रिसाल सिंह, मुन्नीराम, मुख्तियार सिंह, हवा सिंह पुत्रान राम सिंह
				202	निजी	खाद गडका	0-2	50.586	जाने राम, रिसाल सिंह, मुन्नीराम, मुख्तियार सिंह, हवा सिंह पुत्रान राम सिंह
				203	निजी	खाद गडका	0-2	50.586	आजाद सिंह, राजवीर सिंह पुत्रान जयलाल
				204	निजी	खाद गडका	0-2	50.586	श्रीमति शक्ति विद्या, सतग, राजबाला पुत्रीया उदमी पुत्रान दीपू, जयसिंह, धर्मसिंह, रत्नसिंह पुत्रान उदमी, अतर सिंह, रमेश, सुरज भान पुत्रान रणधीर
				206	निजी	खाद गडका	0-2	50.586	उमेश सिंह, रामवीर पुत्र रतीराम
				206	निजी	खाद गडका	0-2	50.586	ओमप्रकाश पुत्रान मृटिया, सतीश कुमार, सुरजीत सिंह पुत्रान ओमप्रकाश
				207	निजी	खाद गडका	0-2	50.586	सुरत सिंह पुत्रान आशा, रामकिशन, सहदेव, कप्तान पुत्रान सुरत सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				208	मिजी	प्लाट	0-2	50.586	जयनगवन पुत्रान बाजनी फली सूरजमान, सूरज भाग पुत्रान जनना
				209	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	सोहनचरण, आनन्द सिंह पुत्रान श्रीमति ओमबेदी फली दुलीचन्द पुत्रान जुगु
				210	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	सुभाष पुत्रान नरहरी, प्रेमो पुत्रीला बलवान सिंह, कुम्भ पुत्रान इन्दर, सोननी देवी विद्या, चन्द सिंह, सीताराम पुत्रान रीता पुत्री कमल सिंह, महासिंह पुत्र नरहरी
				211	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	अजीत सिंह, बलजित सिंह, तारदीर सिंह पुत्रान जिले सिंह
				212	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	राजपल सिंह, बर्माचल सिंह पुत्रान सुरत सिंह, श्रीमति बेदी विद्या, दीपक पुत्र जयलाल, श्रीमति मुरती विद्या, रामकिशन, राकेश पुत्रान जीतो पुत्रान नीतर सिंह, जीतो पुत्रान नीतर
				214	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	कितानी विद्या, रामती, राजेब, संतोष पुत्रीया इन्दर सिंह, बर्माचल, विजेन्द्र, राजकुमार, मुकेश पुत्रान बस्ती राम, रिंछाराम पुत्रान हरदे राम
				215	मिजी	प्लाट	0-2	50.586	जागवीर सिंह पुत्र लोक राम, इलचमा सिंह पुत्रान सबाजी
				216	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	श्रीमति खजानी, बर्मा पुत्रीया फली, बलवीर सिंह, रघवीर सिंह, सतवीर सिंह, महावीर सिंह, राजवीर सिंह, राजेन्द्र, ज्ञान प्रकाश, शक्ति सिंह पुत्रान हुकमसिंह
				217	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	सखीर सिंह, रामकिशन पुत्रान मनसा, जीत, जगजीत पुत्रान जीतो पुत्रीया सरदादी, कब्र सिंह पुत्रान मनसा, श्रीमति प्यारी विद्या, जनीता, सुनीता पुत्रीया सुरेन्द्र, पुत्रान कंवरसिंह, नरपई विद्या, बर्मा, विमला पुत्रीया रामाकलार पुत्रान रामकला, आजाद सिंह, दयानन्द पुत्रान रामेश्वर, श्रीमति खजानी विद्या, बलवीर सिंह, सतवीर सिंह, सतवीर सिंह, महावीर सिंह, महावीर सिंह, महावीर सिंह, सतवीर सिंह, महावीर सिंह, आनप्रकाश, शक्ति सिंह पुत्रान कमला पुत्रीया हुकमचन्द, महावीर पुत्रान हुकमचन्द, दयानन्द, सुभाष आदि वीरसत पवन फूड प्रड्यूसर डीगल
				221	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	पुत्री पुत्र कुवाडिया पुत्र रामजी लाल
				222	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	दलपत सिंह, मालिक राम पुत्रान भैरव, ओमप्रकाश, सुरेश, मुकेश पुत्रान दलपत सिंह, देवेन्द्र, विजेन्द्र, प्रवीर कुमार पुत्रान मालिक राम
				223	मिजी	खाद गडबा	0-2	50.586	सूरजमल, रमेश, अतरसिंह, राजेश कुमार, सुरेश कुमार पुत्रान हाशियार सिंह, बलवन्त सिंह पुत्रान मनसा, दिलबाग, देवेन्द्र पुत्रान तारा, निर्मला, निर्मला पुत्री रामनगत
				40 //					
				4	पंचायत	कृषि	0-5	126.465	ग्राम पंचायत
				5/1	पंचायत	बंजर भूमि	1-4	607.032	
				5/2	सरकारी	परू विभाग	2-16	1416.408	परू विभाग हरियाणा चण्डीगढ़
				348	पंचायत	रास्ता	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				6/1	पंचायत	बंजर भूमि	3-0	1517.58	
				6/2	पंचायत	बंजर भूमि	1-8	708.204	
				15/1	पंचायत	बंजर भूमि	1-8	708.204	
				15/2	पंचायत	बंजर भूमि	2-12	1315.236	
				93	पंचायत	रास्ता	0-2	50.586	
				16/1	पंचायत	बंजर भूमि	1-16	910.548	
				16/2	पंचायत	बंजर भूमि	1-7	682.911	
				25/1	मिजी	कृषि	1-9	733.497	सुन्दर सिंह, जय नगवान पुत्रान आजाद सिंह, नरती पुत्री माईचन्द, जयचन्द, रघवीर सिंह पुत्रान तुलाराम, विजेन्द्र सिंह पुत्रान जगन सिंह, श्रीमति सावित्री विद्या जगन सिंह
				26/2	मिजी	कृषि	0-18	455.274	जुमला मलखान, डीगर हकदारन हदबस्त रकबा खेवट
				41 //					
				10	पंचायत	बंजर भूमि	0-0	0	ग्राम पंचायत
				11	पंचायत	बंजर भूमि	0-7	177.051	
				20	पंचायत	बंजर भूमि	1-4	607.032	
				21	शिव मन्दिर	बंजर भूमि	2-0	1011.72	शिव मन्दिर लखारिया खस्त खन्ना मकहुजा मलखान
				48 //					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				1	निजी	कृषि	2-15	1391.115	दिलबाग सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रान रामभगत, पंकज कुमार पुत्रान दिलबाग सिंह, श्रीमति शेतना विद्या, देवेन्द्र पुत्र रामभगत
				10	निजी	कृषि	2-16	1416.408	
				11	निजी	कृषि	2-16	1416.408	बन्धु सिंह, रामचन्द, रामदास, जगदेव, रमवीर, प्रकाश, नरेश पुत्रान सुरत सिंह
				20	निजी	कृषि	2-16	1416.408	
				21/1	निजी	कृषि	0-13	328.809	कटार सिंह पुत्रान दलीप सिंह, मनोज, ओमप्रकाश पुत्रान कटार सिंह, दिलबाग सिंह पुत्रान भारत सिंह, रमवीर सिंह पुत्रान सुरत सिंह, हरकेत सिंह पुत्रान रामप्रसाद, राज कुमार पुत्रान कवल सिंह
				21/2	निजी	कृषि	2-11	1289.943	विजय दत्त पुत्रान बनवारी लाल
				311	पंचायत	धानी	0-2	50.586	ग्राम पंचायत
				383	पंचायत	रास्ता	0-3	75.879	
				49 / /					
				5 / :	निजी	कृषि	1-7	682.911	सुन्दर सिंह, जय भगवान पुत्रान आजाद सिंह, नरसी पुत्री माईबन्द, जयचन्द, रमवीर सिंह पुत्रान तुलाराम, विजेन्द्र सिंह पुत्रान जगन सिंह, श्रीमति सावित्री विद्या जगन सिंह
				5/2	निजी	कृषि	0-2	50.586	दिलबाग सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्रान रामभगत, पंकज कुमार पुत्रान दिलबाग सिंह, श्रीमति शेतना विद्या, देवेन्द्र पुत्रान रामभगत
				6	निजी	कृषि	1-7	682.911	सुन्दर सिंह, जय भगवान पुत्रान आजाद सिंह, नरसी पुत्री माईबन्द, जयचन्द, रमवीर सिंह पुत्रान तुलाराम, विजेन्द्र सिंह पुत्रान जगन सिंह, श्रीमति सावित्री विद्या जगन सिंह
				16/1	निजी	कृषि	0-17	429.981	
				16/2	निजी	कृषि	0-12	303.516	कटार सिंह पुत्रान दलीप सिंह, मनोज, ओमप्रकाश पुत्रान कटार सिंह, दिलबाग सिंह पुत्रान भारत सिंह, रमवीर सिंह पुत्रान हरकेत सिंह पुत्रान रामप्रसाद, राजकुमार पुत्र कवल सिंह
				16	निजी	कृषि	1-8	708.204	
				25	निजी	कृषि	0-18	455.274	
				55 / /					
				5	निजी	कृषि	0-2	50.586	भूपसिंह, कपूर सिंह, दयानन्द, सुखवीर सिंह, जयसिंह उर्फ बलजीत सिंह, जयभगवान सिंह, आनन्द सिंह उर्फ विजेन्द्र पुत्रान खेम चन्द
				56 / /					
				1/1	निजी	कृषि	1-8	657.618	
				1/:	निजी	कृषि	2-12	1315.236	रमवीर सिंह, राजवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, जगदेव, सतदेव सिंह, जगदीर सिंह पुत्रान बलवीर सिंह
				8	निजी	कृषि	0-0	0	
				10/1	निजी	कृषि	2-12	1315.236	भूपसिंह, कपूर सिंह, दयानन्द, सुखवीर सिंह, जयसिंह उर्फ बलजीत सिंह, जयभगवान सिंह, आनन्द सिंह उर्फ विजेन्द्र पुत्रान खेम चन्द
				10/2	निजी	कृषि	1-8	708.204	
				11/1	निजी	कृषि	1-8	708.204	नरेश कुमार पुत्रान दयाराम, कुलदीप चादव पुत्रान राजेश कुमार
				11/2	निजी	कृषि	2-8	1214.064	रमवीर सिंह, राजवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, जगदेव, सतदेव सिंह, जगदीर सिंह पुत्रान बलवीर सिंह
				159	पंचायत	रास्ता	0-2	50.586	ग्राम पंचायत
				12	निजी	कृषि	0-6	151.758	रमवीर सिंह, राजवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, जगदेव, सतदेव सिंह, जगदीर सिंह पुत्रान बलवीर सिंह
				19	निजी	कृषि	1-0	505.86	
				20/1	निजी	कृषि	1-12	809.376	
				20/2/1	निजी	कृषि	1-5	632.325	जगदीर सिंह, कटार सिंह पुत्रान दलीप सिंह, मनोज, ओमप्रकाश पुत्रान कटार सिंह, दिलबाग सिंह पुत्रान भारत सिंह
				20/2/2	निजी	कृषि	0-3	75.879	कटार सिंह, जगदीर पुत्रान दलीप, मनोज, ओमप्रकाश पुत्रान कटार सिंह
				21/1	निजी	कृषि	1-9	733.497	
				21/2/1	निजी	कृषि	0-2	50.586	रमवीर सिंह, राजवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, जगदेव, सतदेव सिंह, जगदीर सिंह पुत्रान बलवीर सिंह
				21/2/2	निजी	कृषि	0-12	303.516	कुड़े पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अमिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, भुनेश, मनवी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण पुत्रान रामसिंह बलवीर पुत्रान भगवान सिंह
				22/1	निजी	कृषि	0-2	50.586	रमवीर सिंह, राजवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, जगदेव, सतदेव सिंह, जगदीर सिंह पुत्रान बलवीर सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				22/2	निजी	कृषि	1-11	784.083	कूड़े पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण पुत्रान रामसिंह बलवीर पुत्रान भगवान सिंह
				77	सरकारी	नाली	3-10	1770.51	प्रदेश सचकार
				63//					
				1/1	निजी	कृषि	0-4	101.172	कटार सिंह, जगवीर पुत्रान दलीप, मनोज, ओमप्रकाश पुत्रान कतार सिंह
				1/2	निजी	कृषि	0-2	50.586	कूड़े पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण पुत्रान रामसिंह बलवीर पुत्रान भगवान सिंह
				2	निजी	कृषि	1-18	961.134	
				9/2	निजी	कृषि	0-1	25.293	
				9/3	निजी	कृषि	0-17	429.981	कवल सिंह पुत्रान दलीप सिंह उर्फ नन्हा पुत्रान हरधन, महावीर पुत्र कुलदीप सिंह
				10	निजी	कृषि	1-10	758.79	कूड़े पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण पुत्रान रामसिंह बलवीर पुत्रान भगवान सिंह
				11	निजी	कृषि	1-7	682.911	
				12	निजी	कृषि	2-2	1062.306	
				19	निजी	कृषि	2-14	1365.822	कवल सिंह पुत्रान दलीप सिंह उर्फ नन्हा पुत्रान हरधन, महावीर पुत्र कुलदीप सिंह
				20	निजी	कृषि	0-15	379.395	कूड़े पुत्रान जमना, रामसिंह पुत्रान जमना, पवन पुत्रान रामसिंह, अनिल, सुनील पुत्रान जयसिंह, श्रीमति चन्दकला विद्या, रोना, मीना पुत्री जय सिंह, मुनेश, मनशी पुत्रान कृष्ण, श्रीमति ईशवन्ती पत्नी श्री कृष्ण पुत्रान रामसिंह बलवीर पुत्रान भगवान सिंह
				22	निजी	कृषि	0-17	429.981	
				360	पंचायत	रास्ता	0-12	303.516	ग्राम पंचायत
						गौड का कुल योग	-183-5	93002.361	
			(4) शेरिया ह. नं. सं. 9	3//					
				20	निजी	सिंचित	0-1	25.293	धर्मपाल-दिलबाग-जयपाल पुत्रान व सन्तोष पुत्री रामकला पुत्र नान्हा, श्रीमती केला देवी विद्या व सन्दीप-मन्दीप पुत्रान वेदपाल पुत्र रामकला
				108	पंचायत	रास्ता	0-5	126.465	पंचायत देह
				21/2	निजी	सिंचित	1-10	758.79	विजय पुत्र बलवीर, राजकुमार पुत्र रामकिशन, महेश पुत्र महावीर सिंह, नवीन-सवीन पुत्रान रणवीर सिंह, रामकवार-नरेन्द्र पुत्रान दलीप सिंह पुत्र भगत सिंह
				22	निजी	सिंचित	1-13	834.669	श्रीमती खजानी विद्या व प्रेम सिंह पुत्र व चन्दपति -सावत्री -ओमपती -कलावती पुत्रीयान हरनारायण पुत्र अमर सिंह
				4//					
				1/2	निजी	बंजरभूमि	0-0	0	विजय पुत्र बलवीर, राजकुमार पुत्र रामकिशन, महेश पुत्र महावीर सिंह, नवीन-सवीन पुत्रान रणवीर सिंह, रामकवार-नरेन्द्र पुत्रान दलीप सिंह पुत्र भगत सिंह
				2/1	निजी	बंजरभूमि	1-9	733.497	
				2/2	निजी	सिंचित	2-16	1416.408	श्रीमती खजानी विद्या व प्रेम सिंह पुत्र व चन्दपति -सावत्री -ओमपती -कलावती पुत्रीयान हरनारायण पुत्र अमर सिंह
				8	निजी	सिंचित	0-0	0	
				8/1	निजी	सिंचित	2-17	1441.701	
				9/2	निजी	बंजरभूमि	1-7	682.911	राजेन्द्र-रोहतास-जगवीर पुत्रान व कृष्णा पुत्री पताश्री, श्रीमती शकुन्तला-अपुरी पुत्रीयान व करतार-चमचन्द-चन्दमान पुत्रान हरनाथ, श्रीमती कला विद्या व जयवीर-कुलदीप पुत्रान व राजवन्ती पुत्री जुगलाल, धर्मपाल पुत्र जुगलाल व सरजीत पुत्र सुबे सिंह पुत्र भूपका
				12/1	निजी	सिंचित	1-8	708.204	श्रीमती खजानी विद्या व प्रेम सिंह पुत्र व चन्दपति -सावत्री -ओमपती -कलावती पुत्रीयान हरनारायण पुत्र अमर सिंह
				12/2	निजी	सिंचित	0-8	202.344	
				12/3	निजी	सिंचित	2-1	1037.013	दलपत सिंह -रामकण -रामप्रसाद पुत्रान बखतावर, टेकराम पुत्र रामेश्वर, बिजेन्द्र-प्रदीप पुत्रान रामप्रसाद
				13	निजी	सिंचित	0-8	202.344	
				18/2	निजी	सिंचित	1-6	657.618	श्रीमती ममता विद्या व राजेन्द्र पुत्र रामफल
				19/1	निजी	सिंचित	1-10	758.79	श्रीमती ममता विद्या व राजेन्द्र पुत्र रामफल
				19/2/1	निजी	सिंचित	1-3	581.739	सैलेन्द्र पुत्र जितेन्द्र सिंह पुत्र उमेद
				19/2/2	निजी	सिंचित	0-9	227.637	श्रीमती शीलकौर विद्या व मीनाश्री पुत्री व विकास पुत्र महेंद्र सिंह पुत्र उमेद
				729	पंचायत	रास्ता	0-5	126.465	पंचायत देह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				22/1	निजी	सिंचित	1-7	682.911	श्रीमती शीलकौर विधवा व मीनाक्षी पुत्री व विकास पुत्र मेहेन्द्र सिंह पुत्र उमैद
				22/2	निजी	सिंचित	0-9	227.637	श्रीमती समाकौर-भरपाई-केलावती पुत्रीयान व किदार सिंह पुत्र देशराम, श्रीमती खजानी विधवा व माया पुत्री व राजेश पुत्र रामेश्वर पुत्र देशराम
				23	निजी	सिंचित	2-0	1011.72	
				730	पंचायत	रास्ता	0-4	101.172	पंचायत देह
				23//					
				2/1	निजी	सिंचित	0-2	50.586	जगबीर सिंह पुत्र लाल सिंह पुत्र लहरी
				2/2	निजी	सिंचित	1-10	758.79	जगबीर सिंह पुत्र लाल सिंह पुत्र लहरी
				3	निजी	सिंचित	2-16	1418.408	अतर सिंह-मीम सिंह-ओमप्रकाश पुत्रान व श्रीमती बीरमती पुत्री जलेश्वर, श्रीमती शान्ती देवी-कपवती पुत्रीयान व सतबीर-जगबीर पुत्रान दरियाव सिंह
				8/1	निजी	सिंचित	1-11	784.083	कृष्ण सिंह पुत्र कपूर सिंह
				8/2	निजी	सिंचित	1-5	632.325	नरेंद्र सिंह पुत्र कन्हैया, मेहेन्द्र सिंह- प्रियवृत्त पुत्रान हनवन्त पुत्र कन्हैया
				9/1	निजी	सिंचित	0-18	455.274	श्रीमती मीना विधवा व रीना पुत्री व कुलदीप-सन्दीप पुत्रान धर्मवीर, सुरजमान-रामचन्द-रामकवार-चन्दमान पुत्रान रतीराम, मकगुजा भालकान, श्रीमती समाकौर हकदार भालकान
				9/2	निजी	सिंचित	0-15	379.395	श्रीमती समाकौर-भरपाई-केलावती पुत्रीयान व किदार सिंह पुत्र देशराम, श्रीमती खजानी विधवा व माया पुत्री व राजेश पुत्र रामेश्वर पुत्र देशराम
				12/1	निजी	सिंचित	0-10	252.93	
				12/2	निजी	सिंचित	1-3	581.739	श्रीमती फूला देवी विधवा व जगदीश-बिजेन्द्र-राजेन्द्र-सुरेन्द्र पुत्रान टेकराम पुत्र रिसाल सिंह
				13	निजी	सिंचित	2-16	1416.408	नरेंद्र सिंह पुत्र कन्हैया, मेहेन्द्र सिंह- प्रियवृत्त पुत्रान हनवन्त पुत्र कन्हैया
				18/1	निजी	सिंचित	1-4	607.032	रामस्वरूप पुत्र गुगन पुत्र मुखतयम
				18/2	निजी	सिंचित	1-13	834.669	श्रीमती समाकौर-भरपाई-केलावती पुत्रीयान व किदार सिंह पुत्र देशराम, श्रीमती खजानी विधवा व माया पुत्री व राजेश पुत्र रामेश्वर पुत्र देशराम
				19	निजी	सिंचित	1-12	809.376	श्रीमती फूला देवी विधवा व जगदीश-बिजेन्द्र-राजेन्द्र-सुरेन्द्र पुत्रान टेकराम पुत्र रिसाल सिंह
				22	निजी	सिंचित	1-13	834.669	श्रीमती शान्ती विधवा व राजकुमार पुत्र खुशीराम, अमित उर्फ काला पुत्र प्रकाश
				23	निजी	सिंचित	2-16	1416.408	सुरेश कुमार पुत्र राजपाल, अब्दुल कुमार पुत्र सुरेश कुमार, जसबीर-सन्दीप पुत्रान राजपाल
				24//					
				2	निजी	सिंचित	0-1	25.293	श्रीमती शान्ती विधवा व राजकुमार पुत्र खुशीराम, अमित उर्फ काला पुत्र प्रकाश
				3/1	निजी	सिंचित	1-12	809.376	सुरेश कुमार पुत्र राजपाल, अब्दुल कुमार पुत्र सुरेश कुमार, जसबीर-सन्दीप पुत्रान राजपाल
				3/2	निजी	सिंचित	2-16	1416.408	सुरेश कुमार पुत्र राजपाल, अब्दुल कुमार पुत्र सुरेश कुमार, जसबीर-सन्दीप पुत्रान राजपाल
				8/1	निजी	सिंचित	1-12	809.376	
				8/2	निजी	सिंचित	1-11	784.083	कलीराम पुत्र रिसाल सिंह पुत्र माईया,
				13	निजी	सिंचित	1-2	556.446	रमेश-रामोतार-मुकेश कुमार पुत्रान कलीराम
							65-14	28176.402	गाव का कुल योग
			(5) मदाना कला	13//					
			ह ब स 10	7	निजी	कृषि	0-19	480.57	रामकौर, राजेन्द्र पुत्रान शोशियार पुत्रान रतन, रामचन्द्र, ओमप्रकाश, समशेर सिंह पुत्र सहैराम पुत्र रतन
				14/1	निजी	कृषि	2-6	1163.48	
				14/2	निजी	कृषि	0-11	278.22	राजन्दर, सुबीसिंह, रामवीर सिंह, सतवीर सिंह पुत्रान दीपचन्द पुत्र सुरज, श्रीमति सुमित्रा वि/या, नवीन पुत्र श्रीमति अन्किता, सत्यरा पुत्री राजसिंह
				17	निजी	कृषि	1-13	1340.53	
				18	निजी	कृषि	1-11	784.08	विजेन्द्र पुत्र टेकराम
				23	निजी	कृषि	1-7	682.91	विजेन्द्र पुत्र टेकराम
				24/1	निजी	कृषि	2-11	1315.24	राजन्दर, सुबीसिंह, रामवीर सिंह, सतवीर सिंह पुत्रान दीपचन्द पुत्र सुरज, श्रीमति सुमित्रा विधवा, नवीन पुत्र श्रीमति अन्किता, सत्यरा पुत्री राजसिंह, राममेश्वर, बलजीत, ओमप्रकाश
				106	पंचायत	जमी की नाली	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				364	पंचायत	रास्ता	0-8	202.34	ग्राम पंचायत
				27//				0.00	
				3	निजी	कृषि	0-19	480.57	जगमूल पुत्रान प्रभूदयाल, विनय कुमार, सवीन कुमार पुत्र जगमूल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				4	निजी	कृषि	2-7	1188.77	राजचन्द्र, सुहेसिंह, रामवीर सिंह, सतवीर सिंह पुत्रान् दोषचन्द पुत्र सुर्जन, श्रीमति सुमित्रा विघ्ना, नवीन पुत्र श्रीमति अन्किता, सन्तस पुत्री राजसिंह, राममेहर, बलजीत, ओमप्रकाश
				7	निजी	कृषि	2-10	1264.65	
				8	निजी	कृषि	0-17	429.98	जगफूल पुत्रान् प्रमूदयाल, विनय कुमार, सतीन कुमार
				13	निजी	कृषि	0-17	429.98	पुत्र जगफूल
				14	निजी	कृषि	2-12	1315.24	राममेहर, बलजीत ओम प्रकाश पुत्र देवी सहाय पुत्रान् लेख राम, विजेन्द्र, मुकेश पुत्र राममेहर पुत्रान् देवी सहाय, सतीश, राजेश पुत्रान् बलजीत पुत्र देवी सहाय, सुनील, अनील, पुत्रान् ओमप्रकाश पुत्रान् देवी सहाय, अरुण कुमार, अनिल कुमार पुत्रान् विरेन्द्र पुत्रान् बानी सिंह, विरेन्द्र पुत्र बानीसिंह, लेखराम, श्रीमति राजेश, पुत्र बलदेव पुत्रान् मोहल्लाद, अमैद सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र राजपाल अनूप सि पुत्रान् घृष सिंह, जगफूल सिंह पुत्रान् प्रमूदयाल, सोमवीर सिंह पुत्रान् कुलदीप सिंह, दिलबाग सिंह पुत्रान् पृथ्वी पुत्र खुदा, अन्किता पुत्र ओम प्रकाश पुत्र खुशीराम, राजकुमार पुत्र खुशीराम
				17	निजी	कृषि	2-12	1315.24	धर्मवी, रामवीर पुत्रान् ईश्वर पुत्रान् नयादर, राजवीर, हवासिंह, महेन्द्र प्रकाश पुत्र होशियार
				18	निजी	कृषि	0-17	429.98	श्रीमसिंह पुत्र प्रमू दयाल
				23/2	निजी	कृषि	0-14	354.10	
				23/3	निजी	कृषि	0-4	101.17	उमैद सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र राज फाल पुत्र महतार सिंह
				24	निजी	कृषि	2-14	1365.82	धर्मवी, रामवीर पुत्रान् ईश्वर पुत्रान् नयादर, राजवीर, हवासिंह, महेन्द्र प्रकाश पुत्र होशियार
				187	पंचायत	पानी की नाली	0-2	50.59	ग्राम पंचायत
				29 / /					
				3	निजी	कृषि	1-7	682.91	सतवीर सिंह पुत्र सुलतान सिंह
				4	निजी	कृषि	2-14	1365.82	धर्मवी, रामवीर पुत्रान् ईश्वर पुत्रान् नयादर, राजवीर, हवासिंह, महेन्द्र प्रकाश पुत्र होशियार
				6	निजी	कृषि	0-3	75.88	राजवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, रामवीर पुत्रान् ताराचन्द, प्रमूदयाल
				7/1	निजी	कृषि	2-11	1289.94	
				7/2	निजी	कृषि	1-5	632.33	श्रीमती शकुन्ताला पत्नी धर्मपाल पुत्र फते सिंह
				14	निजी	कृषि	1-9	733.50	राजवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, रामवीर पुत्रान् ताराचन्द, प्रमूसुर्जन
				15	निजी	कृषि	2-10	1264.65	
				16	निजी	कृषि	2-12	1315.24	
				17	निजी	कृषि	1-13	834.67	
				24	निजी	कृषि	1-13	834.67	शम्मी कपूर पुत्र टैकचन्द
				26	निजी	कृषि	2-15	1391.12	राजवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, रामवीर पुत्रान् ताराचन्द, प्रमूसुर्जन
				41 / /					
				4	निजी	कृषि	1-12	809.38	शम्मी कपूर पुत्र टैकचन्द
				5/1	निजी	कृषि	0-14	354.10	राजवीर, धर्मवीर, कर्मवीर, रामवीर पुत्रान् ताराचन्द, प्रमूसुर्जन
				5/2	निजी	कृषि	2-3	1087.60	सतनारायण पुत्रान् जयन्तीराम, भूपेन्द्र पुत्रान्
				6	निजी	कृषि	3-1	1542.87	सतनारायण, श्रीमति राजबाला पत्नी सतनारायण
				7	निजी	कृषि	1-9	733.50	शम्मी कपूर पुत्र टैकचन्द
				14	निजी	कृषि	1-9	733.50	राजकपूर पुत्र टैकचन्द
				15	निजी	कृषि	2-19	1492.29	सतनारायण पुत्रान् जयन्तीराम, भूपेन्द्र पुत्रान्
				16	निजी	कृषि	2-15	1391.12	सतनारायण, श्रीमति राजबाला पत्नी सतनारायण
				17	निजी	कृषि	1-12	809.36	राजकपूर पुत्र टैकचन्द
				24	निजी	कृषि	1-11	784.08	उमैद सिंह पुत्र टैकचन्द
				25	निजी	कृषि	2-16	1416.41	सतनारायण पुत्रान् जयन्तीराम, भूपेन्द्र पुत्रान् सतनारायण, श्रीमति राजबाला पत्नी सतनारायण
				45 / /					
				4	निजी	कृषि	1-10	758.79	उमैद सिंह पुत्र टैकचन्द
				5	निजी	कृषि	2-16	1416.41	सतनारायण पुत्रान् जयन्तीराम, भूपेन्द्र पुत्रान्
				6/1	निजी	कृषि	1-12	809.38	सतनारायण, श्रीमति राजबाला पत्नी सतनारायण
				6/2	निजी	कृषि	0-14	354.10	उमैद सिंह पुत्र टैकचन्द
				159	पंचायत	रास्ता	0-7	177.05	ग्राम पंचायत
				7/1	निजी	कृषि	0-7	177.05	जोगराम पुत्र राम सरूप
				15/1	निजी	कृषि	0-4	101.17	
				15/2	निजी	कृषि	0-18	455.27	रामरथ, राजेन्द्र, धर्मपाल पुत्रान् देवी सहाय पुत्र रामसरूप

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				18/1	निजी	कृषि	0-18	455.27	रामकुमार पुत्र मातु पुत्रान शीशराम, सत्यवान, महावीर पुत्रान मातु गिरवर सिंह, रामरतन पुत्र केदार सिंह पुत्र मातु
				18/2	निजी	कृषि	0-15	379.40	जीत सिंह पुत्रान ताराचन्द, प्रभु, जयकरण पुत्र प्रभु, पुत्र शीश राम, गिरवर सिंह, रामरतन पुत्र केदार सिंह पुत्रान मातु राम, अनिल कुमार जोगेन्द्र सिंह पुत्र राम कुमार पुत्रान मातु सेता राम, महावीर सिंह पुत्रानमातु राम, रामकिशोर, श्रीमति धानो, जीवनी पुत्री बदनू पुत्रान मोहर सिंह, श्रीमति शान्ति देवी विधवा, श्रीमति शीला पुत्री जय भगवानपुत्र दया किशन पुत्र बदलू
				25	निजी	कृषि	0-5	128.47	
				188	पंचायत	पानी की नाली	8-8	4249.22	ग्राम पंचायत
				189	पंचायत	पानी की नाली	0-9	227.64	ग्राम पंचायत
				190	पंचायत	पानी की नाली	0-1	25.29	
				26	निजी	धर्मशास्त्र	3-0	1517.58	रामनारायण पुत्र श्रीमति नतरी पुत्री टेकन पुत्र ज्ञान दास
				48 //					
				188	पंचायत	रास्ता	0-10	252.93	ग्राम पंचायत
				10	निजी	कृषि	0-1	25.29	सतनारायण पुत्रान जयनारायण, भूपेन्द्र पुत्रान सतनारायण, श्रीमति राजबाला पत्नी सतनारायण
				20	निजी	कृषि	1-16	910.55	रामकुमार पुत्र मातु पुत्रान शीशराम, सत्यवान, महावीर पुत्रान मातु गिरवर सिंह, रामरतन पुत्र केदार सिंह पुत्र मातु
				21/1	निजी	कृषि	0-15	379.40	
				21/2	निजी	कृषि	1-9	733.50	महेन्द्र, राजेन्द्र, विरेन्द्र, नन्दलाल, मीमसिंह, राजपाल, राजपाल पुत्रान सरदार सिंह पुत्रान गोंगा, महा सिंह पुत्रान लहरी, राजेश पुत्रान पृथ्वी जोगेन्द्र, सज्जन पुत्रान श्रीमति भानमती, विमला पुत्री पोखर पुत्रान लहरी, श्रीमति गंगादेई विधवा, श्रीमति सुमन, अनिल पुत्री रविन्द्र, जितेन्द्र पुत्रान सज्जन, रविन्द्र, जितेन्द्र पुत्र सज्जन, श्रीमति रामकोर, जोगेन्द्र, सज्जन, भानमती, विमला
				55 //					
				1 मिन	निजी	कृषि	2-8	1214.06	
				10	निजी	कृषि	2-10	1264.65	
				11	निजी	कृषि	2-8	1214.06	टेकराम पुत्र रणजीत
				20	निजी	कृषि	2-2	1062.31	
				21/1	निजी	कृषि	1-15	885.26	रामकवर, राजेन्द्र पुत्रान होशियार पुत्रान रतन, रामधन्वर, ओमप्रकाश, समशेर सिंह पुत्र सहाराम पुत्र रतन
				21/2	निजी	कृषि	2-3	1087.60	टेकराम पुत्र रणजीत
				56 //					
				5	निजी	कृषि	0-17	429.98	जीत सिंह पुत्रान ताराचन्द, प्रभु, जयकरण पुत्र प्रभु, पुत्र शीश राम, गिरवर सिंह, रामरतन पुत्र केदार सिंह पुत्रान मातु राम, अनिल कुमार जोगेन्द्र सिंह पुत्र राम कुमार पुत्रान मातु सेता राम, महावीर सिंह पुत्रानमातु राम, रामकिशोर, श्रीमति धानो, जीवनी पुत्री बदनू पुत्रान मोहर सिंह, श्रीमति शान्ति देवी विधवा, श्रीमति शीला पुत्री जय भगवानपुत्र दया किशन पुत्र बदलू
				6	निजी	कृषि	0-17	429.98	श्रीमति राजवती विधवा, अनिल कुमार पुत्रान बलवानसिंह पुत्रान जय चन्द आका चन्दरू, रामफल, रमेश पुत्रान जयधन्व आका चन्दरू पुत्रान मनकूल
				15	निजी	कृषि	0-17	429.98	
				16	निजी	कृषि	0-9	227.64	
				379	पंचायत	रास्ता	0-1.	25.29	पंचायत
				25	निजी	कृषि	0-0	0.00	रामकवर, राजेन्द्र पुत्रान होशियार पुत्रान रतन, रामधन्वर, ओमप्रकाश, समशेर सिंह पुत्र सहाराम पुत्र रतन
				62 //					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				170	निजी	कालव	1-2	556.45	महेन्द्र आदि पुत्रराज केन्द्र नं० 130 टंकलाम, पुत्रराज केन्द्र नं० 132, सतपाल सिंह, खडीसिंह पुत्रान निन्द, पुत्रान रामजीसाल, श्रीमति चन्द विद्या, संजय पुत्रान, रामवीर सिंह पुत्रान निन्द, सूरजपाल पुत्र सुगती पुत्रान, रामजीसाल, बनसिंह, बर्नवाल रामेश्वर, रामनगत पुत्रान चन्द सिंह पुत्रान रामजीसाल, मांगेराम पुत्रान मेहन चन्द पुत्रान भागमल, श्रीमति हरवीर, सहज राम, सुलतान सिंह पुत्रान रतन दातक, रामकुमार राजेन्द्र पुत्रान होशियार पुत्रान रतन विजेन्द्र सिंह, हंसराज पुत्रान पूरन पुत्र शमनागी, रिछपाल सिंह, पूरन पुत्रान राममेहर, करम सिंह पुत्रान मम्मन, श्रीमति दीपा विद्या, जगदीर सिंह, बलवीर सिंह पुत्रान श्रीमति सावित्री पुत्री जगदीर सिंह, श्रीमति भागवती विद्या, श्रीमति सतकन्दी, निर्मला, सन्तोष, मनकीर, विद्यावती, ज्ञानवती पुत्री ईश्वर सिंह आका सुखवीर, पहलदा सिंह, लाचन्द पुत्रान रामनाथ, खजान सिंह, धतर सिंह पुत्रान श्रीमति भरती, भरपाई पुत्र राम किशन प्रणू आदि
				63 / /					
				1/1	निजी	कृषि	0-4	101.17	रामकंवर, राजेन्द्र पुत्रान होशियार पुत्रान रतन, रामचन्दर, जीमप्रकाश, समशेर सिंह पुत्र सहाराम पुत्र रतन
				1/2	निजी	कृषि	2-5	1138.19	टंकलाम पुत्र रणजीत
				9/1	निजी	कृषि	0-16	404.69	
				9/2	निजी	कृषि	1-7	682.91	धर्मवीर पुत्रान राममेहर, श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति खजानी पुत्री खुदे, श्रीमति महती पुत्री खुदे पुत्रान बहादुर, श्रीमति सुश्यालो पुत्री खुदे, राम कुमार पुत्र करन सिंह पुत्र टंक चन्द
				10	निजी	कृषि	1-9	733.50	रामकंवर, राजेन्द्र पुत्रान होशियार पुत्रान रतन, रामचन्दर, जीमप्रकाश, समशेर सिंह पुत्र सहाराम पुत्र रतन
				11	निजी	कृषि	1-10	758.79	
				12	निजी	कृषि	2-0	1011.72	धर्मवीर पुत्रान राममेहर, श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति खजानी पुत्री खुदे, श्रीमति महती पुत्री खुदे पुत्रान बहादुर, श्रीमति सुश्यालो पुत्री खुदे, राम कुमार पुत्र करन सिंह पुत्र टंक चन्द
				19	निजी	कृषि	2-10	1264.65	धर्मवीर पुत्रान राममेहर, श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति खजानी पुत्री खुदे, श्रीमति महती पुत्री खुदे पुत्रान बहादुर
				20	निजी	कृषि	1-10	758.79	जगजीत सिंह पुत्र सुलतान
				21	निजी	कृषि	1-12	808.38	
				22/1	निजी	कृषि	2-10	1264.65	धर्मवीर पुत्रान राममेहर, श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति खजानी पुत्री खुदे, श्रीमति महती पुत्री खुदे पुत्रान बहादुर, श्रीमति सुश्यालो पुत्री खुदे, राम कुमार पुत्र करन सिंह पुत्र टंक चन्द
				22/2	निजी	कृषि	0-4	101.17	धर्मवीर पुत्रान राममेहर, श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति खजानी पुत्री खुदे, श्रीमति महती पुत्री खुदे पुत्रान बहादुर
				70 / /					
				1	निजी	कृषि	1-7	682.91	धर्मवीर पुत्रान राममेहर, श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति खजानी पुत्री खुदे, श्रीमति महती पुत्री खुदे पुत्रान बहादुर
				2	निजी	कृषि	2-10	1264.65	धर्मवीर पुत्रान राममेहर, श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति खजानी पुत्री खुदे, श्रीमति महती पुत्री खुदे पुत्रान बहादुर, श्रीमति सुश्यालो पुत्री खुदे, राम कुमार पुत्र करन सिंह पुत्र टंक चन्द
				9	निजी	कृषि	2-10	1264.65	धर्मवीर पुत्रान राममेहर, श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति खजानी पुत्री खुदे, श्रीमति महती पुत्री खुदे पुत्रान बहादुर
				10	निजी	कृषि	1-8	708.20	
				11	निजी	कृषि	1-9	733.50	राजपाल पुत्र होशियार, सन्नी पुत्रान सतपाल पुत्र होशियार
				12	निजी	कृषि	2-10	1264.65	श्रीमति सन्तोष विद्या, धरम, सदीप, प्रदीप पुत्रान आनन्द उर्फ मालु आनन्द पुत्र राम सिंह, राज सिंह, बलवान सिंह पुत्रान सुलतान पुत्र मूला, श्रीमती कृष्णा विद्या व विनोद कुमार, अजय कुमार पुत्रान पुरन सिंह
				14	निजी	कृषि	2-10	1264.65	
				20	निजी	कृषि	1-10	758.79	राजपाल पुत्र होशियार, सन्नी पुत्रान सतपाल पुत्र होशियार
				21	निजी	कृषि	1-10	758.79	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				22	निजी	कृषि	2-10	1284.65	श्रीमति सन्तोष विद्या, पवन, सर्वोप, प्रदीप पुत्रान आनन्द उर्फ मोसु आनन्द पुत्र राम सिंह, राज सिंह बलवान सिंह पुत्रान सुलतान पुत्र मूला, श्रीमती कृष्णा विद्या व विनोद कुमार, अजय कुमार पुत्रान पुरन सिंह
			70 //	2/1	निजी	कृषि	1-10	758.79	श्रीमति ईश्वर देवी पुत्री शिरका राम, वतासिंह, अमरसिंह पुत्र खुदे, श्रीमति श्यामवती विद्या, श्रीमति सुदेश, सुनील, पुनम देवी पुत्री मनजीत सिंह पुत्र कामिचन्द पुत्रान अमीर सिंह, श्रीमति निर्मला पत्नी राजसिंह पुत्रान सुलतान, श्रीमति कृष्णा देवी विद्या, विनोद कुमार, अजर कुमार पुत्र पुरन सिंह, बलवान पुत्रान सुलतान, सहेज राम
				2/2 3	निजी निजी	कृषि कृषि	2-8 0-1	1214.06 25.29	श्रीमति सन्तोष विद्या, पवन, सर्वोप, प्रदीप पुत्रान आनन्द उर्फ मोसु आनन्द पुत्र राम सिंह, राज सिंह बलवान सिंह पुत्रान सुलतान पुत्र मूला, श्रीमती कृष्णा विद्या व विनोद कुमार, अजय कुमार पुत्रान पुरन सिंह
				8	निजी	कृषि	0-12	303.52	
				9/1	निजी	कृषि	1-18	910.55	
				9/2	निजी	कृषि	1-10	758.79	श्रीमति ईश्वर देवी पुत्री शिरका राम, वतासिंह, अमरसिंह पुत्र खुदे, श्रीमति श्यामवती विद्या, श्रीमति सुदेश, सुनील, पुनम देवी पुत्री मनजीत सिंह पुत्र कामिचन्द पुत्रान अमीर सिंह, श्रीमति निर्मला पत्नी राजसिंह पुत्रान सुलतान, श्रीमति कृष्णा देवी विद्या, विनोद कुमार, अजर कुमार पुत्र पुरन सिंह, बलवान पुत्रान सुलतान, सहेज राम
				12	निजी	कृषि	1-1	784.08	
				13	निजी	कृषि	2-12	1315.24	श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति सिंह पुत्र श्रीमति शान्ति पुत्री गुगन, श्रीमति सन्तोष विद्या, सन्तोष कुमार, सुमित कुमार पुत्र राजीव सिंह पुत्र श्रीमति शान्ति
				373	पंचायत	रास्ता	0-2	50.59	ग्राम पंचायत
				18	निजी	कृषि	2-6	1183.48	श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति सिंह पुत्र श्रीमति शान्ति पुत्री गुगन, श्रीमति सन्तोष विद्या, सन्तोष कुमार, सुमित कुमार पुत्र राजीव सिंह पुत्र श्रीमति शान्ति
				19	निजी	कृषि	1-9	733.50	अनार सिंह, कृष्ण सिंह पुत्रान चन्द्रमान पुत्रान फरत, ओमप्रकाश, सत्यपाल पुत्र करतार सिंह पुत्रान चन्द्रमान, महा सिंह, हरी चन्द पुत्रान चन्द्रगी पुत्र भरतू
				22	निजी	कृषि	1-9	733.50	
				23/1	निजी	कृषि	1-4	607.03	श्रीमति कृष्णा पुत्री श्रीमति सिंह पुत्र श्रीमति शान्ति पुत्री गुगन, श्रीमति सन्तोष विद्या, सन्तोष कुमार, सुमित कुमार पुत्र राजीव सिंह पुत्र श्रीमति शान्ति
				23/2	निजी	कृषि	0-12	303.52	शेगराज पुत्र सयानाथ
			84 //	2	निजी	कृषि	0-10	252.93	अनार सिंह, कृष्ण सिंह पुत्रान चन्द्रमान पुत्रान फरत, ओमप्रकाश, सत्यपाल पुत्र करतार सिंह पुत्रान चन्द्रमान, महा सिंह, हरी चन्द पुत्रान चन्द्रगी पुत्र भरतू
				3	निजी	कृषि	0-19	480.57	शेगराज पुत्र सयानाथ
				गौर का कुल योग			174-14	88373.74	
2	अजय	(1) धनमपुर	1 //						
		ह.स. 1 एन		6	पंचायत	हजर कृषि	0-12	303.52	ग्राम पंचायत
				गौर का कुल योग			0-12	303.62	
		(2) दुजगा		17 //					
		ह.स. 3 एन		2/1	निजी	सिंचित	0-19	480.57	धर्मवीर-दयानन्द पुत्रान सुन्दरलाल, विद्यानन्द-रामानन्द-विन्द पुत्रान धन सिंह खानकाशत रामनारायण, बिहारी पुत्रान रामसुख गौ मी०
				2/2	निजी	सिंचित	0-5	126.47	मनोहरलाल पुत्र धर्मचन्द, इन्द्रजीत-रणवीर-धर्मवीर पुत्रान जवल देव
				9/1	निजी	असिंचित	0-8	202.34	
				9/2	निजी	सिंचित	0-16	404.69	श्रीगमान-श्रीकृष्ण-रामसिंह-हरेश्वर-अजित-कर्मवीर पुत्रान ओमकेश खानकाशत रामनारायण, बिहारी पुत्रान रामसुख गौ मी०
				9/3/1	निजी	सिंचित	0-9	227.64	श्रीकिशन, धर्मसिंह बलवीर पुत्रान श्यामलाल खानकाशत रामसरन पुत्र गोपाल गौ मी०
				9/3/2	निजी	सिंचित	0-1	25.29	महेन्द्र पुत्र सोहनलाल, रामसरन पुत्र गोपाल गौ मी०
				12/1/1	निजी	सिंचित	0-5	126.47	मदनलाल पुत्र व श्रीमती राजशानी, दुजगा - मोहन देवी पुत्रीयान हरिचन्द पुत्र भगनीदान
				12/1/2	निजी	सिंचित	0-3	75.88	
				12/1/1 /2	निजी	सिंचित	0-6	151.76	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				12/1/1 /1	निजी	सिधित	0-4	101.17	
				12/2	निजी	सिधित	0-14	354.10	दयाचन्द -धर्मवीर पुत्रान कुन्दनलाल, विद्याचन्द -सामानन्द -सिरेन्द पुत्रान धन सिंह, धनपति विद्या धन सिंह
				19/1	निजी	सिधित	0-8	202.34	मदनलाल पुत्र व श्रीमती राजरानी, कृष्णा- भोहर देवी पुत्रीयान हरिचन्द पुत्र मवानीदास
				19/2	निजी	सिधित	1-5	632.33	दयाचन्द -धर्मवीर पुत्रान कुन्दनलाल, विद्याचन्द -सामानन्द -सिरेन्द पुत्रान धन सिंह, धनपति विद्या धन सिंह
				22/2/1	निजी	सिधित	1-3	581.74	शंभूनी विद्या व उर्मिला-सनेहलता पुत्रीयान व मुकेश पुत्र हरी सिंह
				22/2/2	निजी	सिधित	0-8	202.34	रुकमणी बाई पुत्री व रामचन्द, गोपालदास -हीरानन्द -श्रुतिकेश -बसन्तलाल- त्रिलोकचन्द -हसराम पुत्रान जसीयाराम
				18//					
				3/1	निजी	सिधित	0-2	50.59	रुकमणी बाई पुत्री व रामचन्द, गोपालदास -हीरानन्द -श्रुतिकेश -बसन्तलाल- त्रिलोकचन्द -हसराम पुत्रान जसीयाराम
				3/2	निजी	सिधित	1-11	784.08	शंभूनी पत्नी हरि सिंह
				8/1/1	निजी	सिधित	0-16	404.69	
				8/1/2	निजी	सिधित	0-5	126.47	
				8/2	निजी	सिधित	0-14	354.10	
				47	पंचायत	सिधित	2-1	1037.01	ग्राम पंचायत
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0-2	50.59	
				26	निजी	असिधित	0-12	303.52	लालचन्द-मीम सिंह पुत्रान रामकिशन, सुनील पुत्र लालचन्द, जयप्रकाश-विशान सिंह पुत्रान मीम सिंह
				49	पंचायत	सिधित	0-10	252.93	ग्राम पंचायत
				23	निजी	सिधित	1-5	632.33	रामकिशन-रामचन्द पुत्रान भोतीराम, मिश्री देवी विद्या व सुरेन्द्र-सतेन्द्र पुत्रान राजेन्द्र प्रसाद, श्रीकिशन पुत्र कबर सिंह, सुनीता पुत्री राजेन्द्र प्रसाद
				32//					
				3/1	निजी	सिधित	0-18	455.27	जयलाल-नेकीराम पुत्रान जोखीराम, रामकिशन-रामचन्द पुत्रान भोतीराम, श्रीमति कमलेश विद्या व मन्जू, पुनम, मन्मथी पुत्रीयान व राजसिंह पुत्र मनमोहन, धीमतराम, लालसिंह पुत्रान दोदराम
				3/2	निजी	असिधित	0-6	151.76	हरिचन्द पुत्र छवित दास
				8	निजी	सिधित	1-4	607.03	जयलाल-नेकीराम पुत्रान जोखीराम, हरि सिंह-रामचन्द पुत्रान प्रभाती, रामकिशन पुत्र भोतीराम, ओमपति पत्नी राजपाल, श्रीमति कमलेश विद्या व मन्जू, पुनम, मन्मथी पुत्रीयान व राजसिंह पुत्र मनमोहन, धीमतराम, लालसिंह पुत्रान दोदराम
				13	निजी	सिधित	1-4	607.03	बलबीर सिंह पुत्र नेकीराम
				18/1	निजी	असिधित	0-3	75.88	महेन्द्र पुत्र धिरजीलाल
				18/2	निजी	असिधित	0-5	126.47	
				18/3	निजी	सिधित	0-16	404.69	शक्ति सिंह पुत्र बलबीर सिंह
				23	निजी	सिधित	1-5	632.33	महावीर-सतबीर पुत्रान रामस्वरूप, हसराम -उमेश सिंह-विजय पुत्रान व ब्रह्मा, राज पुत्रीयान अर्जन
				38//					
				4/1	निजी	सिधित	1-5	632.33	
				6	निजी	सिधित	0-5	126.47	करण सिंह-श्रीमप्रकाश-विद्यानन्द पुत्रान श्यामराम श्रीभगवान-श्रीकृष्ण पुत्रान कन्हैया
				1178	पंचायत	रास्ता	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				7	निजी	सिधित	1-5	632.33	रामरति पत्नी करण सिंह
				14	निजी	सिधित	1-5	632.33	
				15/1	निजी	सिधित	0-2	50.59	श्रीभगवान-श्रीकृष्ण पुत्रान कन्हैयालाल, करण सिंह-ओमप्रकाश-विद्यानन्द पुत्रान श्यामराम
				15/2/1	निजी	सिधित	0-2	50.59	श्रीभगवान-श्रीकृष्ण पुत्रान कन्हैयालाल, करण सिंह-ओमप्रकाश-विद्यानन्द पुत्रान श्यामराम
				15/2/2	पंचायत	रास्ता	0-1	25.29	ग्राम पंचायत
				15/2/3	निजी	प्लॉट	0-12	303.52	कृष्ण सिंह पुत्र हरतरुप
				1175 मिन	पंचायत	रास्ता	0-1	25.29	ग्राम पंचायत
				1176	पंचायत	रास्ता	0-1	25.29	ग्राम पंचायत
				16/1	निजी	सिधित	0-4	101.17	कृष्ण सिंह पुत्र हरतरुप
				16/2	निजी	सिधित	2-0	1011.72	विलराज सिंह पुत्र सुखवीर सिंह
				17/1	निजी	सिधित	0-14	354.10	कमल सिंह पुत्र दलीप सिंह चामकासत श्रीराम पुत्र जलकण्ठ गी 00
				17/2	निजी	सिधित	0-10	252.93	शंभूचतार पुत्र श्रीराम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				24	निजी	सिंचित	1-7	682.91	सुनील कुमार पुत्र गहावीर सिंह, अचना पत्नी पवन कुमार
				20a	पंचायत	कृषि	2-1	1037.01	ग्राम पंचायत
			53 //						
				4	निजी	सिंचित	1-6	657.62	रीना पत्नी शैलेन्द्र सिंह
				5	निजी	सिंचित	2-7	1188.77	रविन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
				1/25	रास्ता	रास्ता	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				5/1	निजी	सिंचित	1-10	758.79	रविन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह
				6/2	निजी	सिंचित	1-8	708.20	सुरजीत सिंह पुत्र सुलतान सिंह
				7/1	निजी	सिंचित	1-5	632.33	माया देवी पत्नी नरेश कुमार
				7/2	निजी	सिंचित	0-1	25.29	कवर सिंह पुत्र हरदेव
				18	निजी	सिंचित	1-4	607.03	फूलकवार-दिलबाग सिंह पुत्रान गिरधारी, राजेन्द्र सिंह, महेंद्र सिंह पुत्रान गिरधारी
				15/1	निजी	सिंचित	2-5	1391.12	सुरजीत सिंह पुत्र सुलतान सिंह
				15/2	निजी	सिंचित	0-8	202.34	कृष्ण सिंह पुत्र हरसरूप
				16/1	निजी	सिंचित	1-14	859.96	
				16/2	निजी	सिंचित	1-6	657.62	नफे सिंह-आजाद-नरेशपाल-जगत पुत्रान भलखान पुत्र बलवन्त सिंह
				17	निजी	सिंचित	1-0	505.86	मिश्रो देवी विद्या व सुरेन्द्र-सतेन्द्र पुत्रान राजेन्द्र प्रसाद, सुनीता देवी पुत्री राजेन्द्र प्रसाद, रामकिशन, श्रीकृष्ण पुत्रान व सुभावती पुत्री कवर सिंह
				25/1	निजी	सिंचित	1-5	632.33	सतेन्द्र-सुदेश कुमार-राकेश-शोकीन- नेत्रपाल सिंह पुत्रान रामनारायण
				25/2/1	निजी	सिंचित	1-10	758.79	नफे सिंह-आजाद-नरेशपाल-जगत पुत्रान भलखान पुत्र बलवन्त सिंह
				25/2/2	निजी	सिंचित	1-3	581.74	हरसरूप आदि, सुलतान सिंह आदि
			54 //						
				21/1/2	निजी	सिंचित	0-1	25.29	नफे सिंह-आजाद-नरेशपाल-जगत सिंह पुत्रान भलखान
			59 //						
				10	निजी	सिंचित	0-14	354.10	हरसरूप आदि
				10	निजी	सिंचित	1-11	784.08	
				29/1	सरकारी	रास्ता	1-0	505.86	ग्राम पंचायत
				11	निजी	सिंचित	1-14	859.96	करण-विरेन्द्र पुत्रान रामशेर सिंह
				20/1	निजी	सिंचित	1-8	708.20	
				20/1/4	निजी	सिंचित	0-17	429.98	
				20/1/5	निजी	सिंचित	0-8	202.34	
				21/1	निजी	सिंचित	1-4	607.03	
				21/2	निजी	सिंचित	1-7	682.91	
				28	पंचायत	रास्ता	0-19	480.57	ग्राम पंचायत
			60 //						
				6/1	निजी	सिंचित	1-10	758.79	सतेन्द्र-सुदेश कुमार-राकेश-शोकीन- नेत्रपाल सिंह पुत्रान रामनारायण
				5/2	निजी	सिंचित	2-10	1011.72	हरसरूप आदि
				6/1	निजी	सिंचित	1-4	607.03	
				5/2	निजी	सिंचित	1-12	809.38	सतेन्द्र-सुदेश कुमार-राकेश-शोकीन- नेत्रपाल सिंह पुत्रान रामनारायण
				2/0	सरकारी	रास्ता	0-11	278.22	ग्राम पंचायत
				15/1	निजी	सिंचित	0-19	480.57	बलवन्त सिंह-बलबीर-धीम सिंह-सहदेव पुत्रान पूर्ण, मनवती विद्या व सतबीर सिंह - जयवीर सिंह पुत्रान व बाला-सुनीता पुत्रीयान रणधीर सिंह
				15/2	निजी	सिंचित	0-7	177.05	करण-विरेन्द्र पुत्रान रामशेर सिंह
				18	निजी	सिंचित	1-8	708.20	बलवन्त सिंह-बलबीर-धीम सिंह-सहदेव पुत्रान पूर्ण, मनवती विद्या व सतबीर सिंह - जयवीर सिंह पुत्रान व बाला-सुनीता पुत्रीयान रणधीर सिंह
				25/1	निजी	सिंचित	0-10	252.93	
				25/2	निजी	पेट्रोल पम्प	0-19	480.57	दीपक आदहर-पकज आदहर पुत्रान व रोहानी शोभा पत्नी ओम आदहर
			78 //						
				5	निजी	पेट्रोल पम्प	1-8	657.62	
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0-1	25.29	ग्राम पंचायत
				6	निजी	सिंचित	1-4	607.03	हीरो कप्तान वेदन सिंह कैमोरियल ट्रस्ट दुजाना
				15	निजी	सिंचित	0-18	455.27	राजेश-जगमोहन-करण सिंह पुत्रान कबल सिंह
				16/1	निजी	सिंचित	0-8	227.64	गोविन्दराम पुत्र पारेलाल, गोपीराम पुत्र देवी साहय
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0-4	101.17	ग्राम पंचायत
				26	निजी	सिंचित	0-1	25.29	विद्या देवी विद्या व सुखबीर, सुधीर कुमार पुत्रान व सरोजबाला-सुदेश पुत्रीयान सज्जन कुमार, कर्ण सिंह पुत्र व कर्ती पुत्री सतीश
			79 //						
				1/1	निजी	सिंचित	0-16	404.69	हीरो कप्तान बदन सिंह कैमोरियल ट्रस्ट दुजाना
				1/2	निजी	सिंचित	1-12	809.38	हीरो कप्तान वेदन सिंह कैमोरियल ट्रस्ट दुजाना, सर्वेश पुत्र दुलीचन्द
				10/1	निजी	सिंचित	1-4	607.03	सुरत सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				10/2/1	निजी	प्लाट	0-9	227.64	शेर सिंह पुत्र श्रीचन्द
				10/2/2	निजी	प्लाट	0-9	227.64	भारती विद्या हवा सिंह
				10/2/3	निजी	प्लाट	0-12	303.52	शामफल पुत्र सरदार सिंह, हरसुरेन्द्र पुत्र दरथाव सिंह, नरेन्द्र पुत्र कदम सिंह
				11/1	मिन	सिंचित	0-12	303.52	राजेश-जगमोहन-धरम सिंह पुत्रान कमल सिंह
				11/2/1 /1 मिन	निजी	प्लाट	0-4	101.17	शामफल पुत्र सरदार सिंह, हरसुरेन्द्र पुत्र दरथाव सिंह, नरेन्द्र पुत्र कदम सिंह
				11/2/2 /1 मिन	निजी	प्लाट	0-1	25.29	
				11/2/1 /2/1/1 मिन	निजी	प्लाट	0-4	101.17	बशीराल पुत्र रामपत
				11/2/2 /2/1/1 मिन	निजी	प्लाट	0-1	25.29	बशीराल पुत्र रामफल
				11/2/1 /2/1/2 मिन	निजी	प्लाट	0-6	151.76	साल सिंह पुत्र नथु
				11/2/2 /2/1/2 मिन	निजी	प्लाट	0-1	25.29	
				11/2/1 /2/1/3 मिन	निजी	प्लाट	0-4	101.17	सुखबीर सिंह पुत्र जागराम
				11/2/2 /2/1/3 मिन	निजी	प्लाट	0-1	25.29	
				11/2/1 /2/1/4 मिन	निजी	प्लाट	0-5	126.47	नरेश-सुकेश-राजेश पुत्रान ब्रजलाल
				11/2/2 /2/1/4 मिन	निजी	प्लाट	0-1	25.29	
				11/2/1 /2/2 मिन	निजी	प्लाट	0-13	328 B1	रमेश-धनेश पुत्रान प्रताप सिंह
				11/2/2 /2/2 मिन	निजी	प्लाट	0-3	75.88	रमेश-धनेश पुत्रान प्रताप सिंह
				11/2/1 /2/3/1 मिन	निजी	रास्ता	0-4	101.17	धर्म सिंह पुत्र भरत सिंह
				11/2/2 /2/3/1 मिन	निजी	रास्ता	0-1	25.29	
				11/2/1 /2/3/2 मिन	निजी	प्लाट	0-3	75.88	सुरजमान पुत्र बदलुराम
				11/2/2 /2/3/2 मिन	निजी	प्लाट	0-1	25.29	
				20/1/1 /1	निजी	प्लाट	0-3	75.88	
				20/1/1 /2/1	निजी	प्लाट	0-9	227.84	रिसाल-राजेन्द्र-रणबीर पुत्रान रताराम
				20/1/1 /2/1 मिन	निजी	प्लाट	0-4	101.17	कृष्णलाल पुत्र मांगेराम
				20/1/1 /2/3	निजी	प्लाट	0-1	25.29	धर्म सिंह पुत्र भरत सिंह
				20/1/2	निजी	प्लाट	0-13	328 B1	पहलार सिंह पुत्र फते सिंह, हिंदवीर सिंह पुत्र दितारम सिंह, रामकिशन पुत्र श्रीलाल
				20/2/1	निजी	प्लाट	0-15	379.40	परमवीर सिंह-हिन्दवीर सिंह पुत्रान दिनाकर सिंह
				20/2/2	निजी	प्लाट	0-8	202.34	कुष्णदयाल पुत्र रामानन्द
				209	पञ्चयत	रास्ता	0-6	151.76	ग्राम पञ्चयत
				21	निजी	सिंचित	2-2	1062.31	विद्या देवी विद्या व सुखबीर, सुधीर कुमार पुत्रान व सरोजराता-सुदेश पुत्रीयान सज्जन कुमार, कर्ण सिंह पुत्र व जीती पुत्री सतीश

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				22/1	निजी	सिधित	0-19	480.57	कृष्णा देवी कियवा व भागे राम पुत्र देवकराम, शिवधराम पुत्र सुभरभन्द, विद्यावती कियवा व ओमप्रकाश-मनु सुदन-रामलाल पुत्रान व कमलेश पुत्री हरपुर, अनतराम पुत्र भागीराम, केशवलाल, भयसाम पुत्रान देवकराम, केशर देवी कियवा व बृज किशोर
				26	निजी	साधुदायिक केंद्र	1-3	581.74	
				84//					
				1	निजी	असिधित	2-16	1416.41	विद्या देवी कियवा व सुखबीर, सुधीर सिंह पुत्रान व सरोजबाता-सुदेश पुत्रीयान सज्जन कुमार, कर्णसिंह पुत्र व कीर्ती पुत्री सतीश कुमार
				2/1	निजी	सिधित	1-10	758.79	कृष्ण-ओमप्रकाश-वर्षादेर पुत्रान भरत सिंह
				9	निजी	सिधित	1-6	657.62	नरेश कुमार-सुरेश कुमार पुत्रान तारिफ सिंह
				10	निजी	सिधित	2-15	1391.12	विद्या देवी कियवा व सुखबीर, सुधीर सिंह पुत्रान व सरोजबाता-सुदेश पुत्रीयान सज्जन कुमार, कर्णसिंह पुत्र व कीर्ती पुत्री सतीश कुमार
				11	निजी	सिधित	2-15	1391.12	
				12	निजी	सिधित	1-8	708.20	नरेश कुमार-सुरेश कुमार पुत्रान तारिफ सिंह
				18/1	निजी	सिधित	1-2	556.46	
				19/2	निजी	सिधित	0-3	75.88	रोहताश पुत्र जयसिंह, जर्मिला देवी कियवा व ज्योति पुत्री व नवीन कुमार पुत्र नरेश सिंह
				20/1	निजी	सिधित	2-15	1391.12	
				20/2	निजी	सिधित	0-3	75.88	हीराचन्द पुत्र हुकम सिंह, रोहताश पुत्र जय सिंह
				21	निजी	सिधित	2-19	1492.29	रामनारायण पुत्र धनीराम, पतराम पुत्र उदय सिंह, रामजीवन पुत्र जगराम, जयकरम-राजकरण-सत्यकरण सुरेन्द्र पुत्रान धूप सिंह
				22	निजी	सिधित	1-8	708.20	रोहताश पुत्र जयसिंह, जर्मिला देवी कियवा व ज्योति पुत्री व नवीन कुमार पुत्र नरेश सिंह
				107//					
				1	निजी	सिधित	2-16	1416.41	मीर सिंह-बलबीर-सतबीर पुत्रान हरिराम, राजरूप-सुरजमल पुत्रान मीर सिंह, रामकवार-रामेश पुत्रान भयराम, रघवीर, जयनारायण पुत्रान चन्द्रराम, फूलपति कियवा व राजेश पुत्र दयानन्द
				2	निजी	सिधित	1-6	657.62	श्रीमति कृष्णा पत्नी रामफल, शीला कियवा श्रीकिशन
				9/2	निजी	सिधित	1-8	708.20	
				10/1	निजी	सिधित	1-8	708.20	मीर सिंह-बलबीर-सतबीर पुत्रान हरिराम,
				10/2	निजी	सिधित	1-1	531.15	राजरूप-सुरजमल पुत्रान मीर सिंह, रामकवार-रामेश पुत्रान भयराम, रघवीर, जयनारायण पुत्रान चन्द्रराम, फूलपति कियवा व राजेश पुत्र दयानन्द
				11	निजी	सिधित	3-0	1517.58	
				12/1	निजी	सिधित	1-1	531.15	कृष्णा पत्नी रामफल, शीला देवी कियवा व श्रीकृष्ण पुत्र जय सिंह
				12/2	निजी	सिधित	0-7	177.05	हरिचन्द पुत्र हुकम सिंह
				19	निजी	सिधित	1-11	784.08	
				20	निजी	सिधित	2-19	1492.29	मीर सिंह-बलबीर-सतबीर पुत्रान हरिराम,
				21	निजी	सिधित	0-3	75.88	राजरूप-सुरजमल पुत्रान मीर सिंह, रामकवार-रामेश पुत्रान भयराम, रघवीर, जयनारायण पुत्रान चन्द्रराम, फूलपति कियवा व राजेश पुत्र दयानन्द
				22/1	निजी	सिधित	2-12	1315.24	
				22/2	निजी	सिधित	1-10	758.79	हरिचन्द पुत्र हुकम सिंह
				रास्ता	पंचायत	रास्ता	0-2	50.59	ग्राम पंचायत
				1258	पंचायत	रास्ता	0-2	50.59	
				112//					
				2	निजी	सिधित	2-10	1264.65	जगवीर-सतबीर सिंह पुत्रान हरिचन्द
				3	निजी	सिधित	1-18	961.13	हरीचन्द पुत्र हुकमसिंह
				8	निजी	सिधित	2-0	1011.72	रवि-दीपक पुत्रान कृष्णलाल, पकज पुत्र राजकुमार उपरानी पत्नी श्यामसुन्दर खन्नाकारत रितु सिंगला आदि पट्टेदार
				9	निजी	सिधित	2-10	1264.65	रघवीर सिंह-किशनचन्द-कुलबीर-गहनन्द- जयसिंह पुत्रान सुल्तान सिंह, अजीत- बलजीत पुत्रान केशवीर सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				12	निजी	सिंचित	2-11	1289.94	कृष्ण-नरेन्द्र कुमार पुत्रान भोलाराम, जगदीश-सरूप सिंह-दिलबाग-वजीर- सुरेश पुत्रान महेन्द्र सिंह, इकबाल सिंह- सतपाल पुत्रान व राजल पुत्री कलीराम, राज सिंह-देवी लाल पुत्रान बलवीर
				13/1	निजी	सिंचित	1-7	682.91	पवन-अमन पुत्रान अशेराम
				13/2	निजी	सिंचित	0-9	227.64	पवन-अमन पुत्रान अशेराम खानाकारता खजानसिंह पुत्र राम गौ मी०
				18	निजी	सिंचित	1-16	910.55	सुशीला देवी विधवा व इनाल उर्फ महावीर-रामनारायण-भातर भूषण-सुलसीदास- भीमलाल, अशोक पुत्रान शिवराम, सुमन पत्नी सुनील
				19	निजी	सिंचित	2-11	1289.94	कृष्ण-नरेन्द्र कुमार पुत्रान भोलाराम, जगदीश-सरूप सिंह-दिलबाग-वजीर- सुरेश पुत्रान महेन्द्र सिंह,
				22	निजी	सिंचित	2-10	1264.65	इकबाल सिंह- सतपाल पुत्रान व राजल पुत्री कलीराम, राज सिंह-देवी लाल पुत्रान बलवीर
				23	निजी	सिंचित	1-15	885.26	वजीर सिंह-सतबीर-महावीर पुत्रान कलाम सिंह
				136 //					
				2	निजी	सिंचित	2-10	1264.65	कृष्ण-नरेन्द्र कुमार पुत्रान भोलाराम, जगदीश-सरूप सिंह-दिलबाग-वजीर- सुरेश पुत्रान महेन्द्र सिंह, इकबाल सिंह- सतपाल पुत्रान व राजल पुत्री कलीराम, राज सिंह-देवी लाल पुत्रान बलवीर
				3	निजी	सिंचित	1-15	885.26	वजीर सिंह-सतबीर-महावीर पुत्रान कमल सिंह
				8	निजी	सिंचित	1-14	859.96	
				8	निजी	सिंचित	3-13	1593.46	कृष्ण-नरेन्द्र कुमार पुत्रान भोलाराम, जगदीश-सरूप सिंह-दिलबाग-वजीर- सुरेश पुत्रान महेन्द्र सिंह, इकबाल सिंह- सतपाल पुत्रान व राजल पुत्री कलीराम, राज सिंह-देवी लाल पुत्रान बलवीर
				12	निजी	सिंचित	2-8	708.20	महावीरप्रसाद पुत्र रामअवतार
				13	निजी	सिंचित	0-19	480.57	धूप सिंह पुत्र छोटू
				300	पंचायत	रास्ता	0-18	455.27	ग्राम पंचायत
				18/1	निजी	सिंचित	1-18	961.13	माया कौर विधवा व बलबीर-प्रीत सिंह-महासिंह-रमेशचन्द-हवा सिंह-सुभा सिंह पुत्रान मेहर सिंह, रोशनी विधवा व राजेश पुत्र व सुदेश कुमारी पुत्री अजीत सिंह, रोशनी विधवा व सुरेन्द्र-विजेन्द्र पुत्रान व राजबाला पुत्री रावत सिंह, सन्तरा पत्नी जोगेन्द्र सिंह
				18/2	निजी	सिंचित	2-0	1011.72	महावीरप्रसाद, पुत्र रामअवतार
				19/1	निजी	सिंचित	0-12	303.52	
				22/2	निजी	सिंचित	0-0	0.00	ब्रह्मानन्द पुत्र रामअवतार
				23/1	निजी	सिंचित	2-11	1289.94	
				23/2	निजी	सिंचित	1-12	809.38	माया कौर विधवा व बलबीर-प्रीत सिंह-महासिंह-रमेशचन्द-हवा सिंह-सुभा सिंह पुत्रान मेहर सिंह, रोशनी विधवा व राजेश पुत्र व सुदेश कुमारी पुत्री अजीत सिंह, रोशनी विधवा व सुरेन्द्र-विजेन्द्र पुत्रान व राजबाला पुत्री रावत सिंह, सन्तरा पत्नी जोगेन्द्र सिंह
				140 //					
				3	निजी	सिंचित	2-6	1163.48	धोषडी उर्फ गिन्दोडी विधवा व जमना पुत्र भगवाना, बलवन्त सिंह, हजारी, जयसिंह पुत्रान नानकचन्द, रामसिंह, सतवीरसिंह, धर्मवीर सिंह, श्रीभगवान पुत्रान जयसिंह खानाकारत बलवन्त आदि हिस्सेदारान भारकत सुरामान पुत्र रामजान गाबारी गौ मी०
				4/1	निजी	सिंचित	1-12	809.38	माया कौर विधवा व बलबीर-प्रीत सिंह-महासिंह-रमेशचन्द-हवा सिंह-सुभा सिंह पुत्रान मेहर सिंह, रोशनी विधवा व राजेश पुत्र व सुदेश कुमारी पुत्री अजीत सिंह, रोशनी विधवा व सुरेन्द्र-विजेन्द्र पुत्रान व राजबाला पुत्री रावत सिंह, सन्तरा पत्नी जोगेन्द्र सिंह
				7/1	निजी	सिंचित	1-10	758.79	वेदप्रकाश पुत्र छेतू, सन्तोष पुत्री गुरुप्रसाद आदि
				7/2	निजी	सिंचित	0-2	50.59	जयमगकन-अशोक पुत्रान व सुमिका पुत्री मीरा अमरी विधवा व प्रिया-काजल पुत्रीयान व नितिन पुत्र महन, सन्तोष पुत्री गुरुप्रसाद, वेदप्रकाश पुत्र छेतू, धर्मसिंह, प्रेमवीर सिंह उर्फ जगदीश सिंह पुत्रान ईशर सिंह, सतवीर सिंह पुत्र गुरुप्रसाद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				8	निजी	सिंचित	2-13	1340.53	बोधदी उर्फ निन्दोडी विद्यालय व जनना पुत्र बगवान, बलवन्त सिंह, इजारी जयसिंह पुत्रान मानकचन्द, रामसिंह, सतवीरसिंह, बर्मवीर सिंह, श्रीमजगन पुत्रान जयसिंह
				13	निजी	सिंचित	2-14	1365.82	बलवन्त सिंह-इजारी सिंह पुत्रान मानकचन्द
				14	निजी	सिंचित	1-7	682.91	जगनकाव-बनोक पुत्रान व सुमित्रा पुत्री गीत अमुरी विद्यालय व प्रिया-कमल पुत्रीयान व नितिन पुत्र नरन, सन्तोष पुत्री गुरुप्रसाद, वेदप्रकाश पुत्र छेलू, बर्मसिंह, प्रेमवीर सिंह उर्फ जगवीर सिंह पुत्रान इन्दर सिंह, गगन सिंह पुत्र रूत सिंह
				17	निजी	सिंचित	1-0	505.86	नरवीर पत्नी बगवानवास, विवनाचयन पुत्र बलवीर राधम
				18	निजी	सिंचित	2-11	1289.94	बोधदी उर्फ निन्दोडी विद्यालय व जनना पुत्र बगवान, बलवन्त सिंह, इजारी जयसिंह पुत्रान मानकचन्द, रामसिंह, सतवीरसिंह, बर्मवीर सिंह, श्रीमजगन पुत्रान जयसिंह
				1217	पंचायत	रास्ता	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				23/1	निजी	सिंचित	2-0	1011.72	रामकल-रावत पुत्रान रताराम
				1215	पंचायत	रास्ता	0-4	101.17	ग्राम पंचायत
				23/2	निजी	सिंचित	0-15	379.40	जितेन्द्र पुत्र करतार सिंह, नूकरप्यार पुत्र रिताल सिंह
				24	निजी	सिंचित	1-0	505.86	रामचन्द-देवेन्द्र पुत्रान व रमेश कुमारी, कान्ता देवी पुत्रीयान स्ववीर सिंह, सतीश कुमार पुत्रान व अनिता, सीता पुत्रीयान विमला देवी
				181 / /					
				3/1	निजी	सिंचित	0-17	429.98	जितेन्द्र पुत्र करतार सिंह, नूकरप्यार पुत्र रिताल सिंह
				3/2	निजी	सिंचित	2-11	784.08	महेन्द्र सिंह-करण सिंह-रमवीर पुत्रान रामस्वरूप
				1216	पंचायत	रास्ता	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				4	निजी	सिंचित	1-3	581.74	रामचन्द-देवेन्द्र पुत्रान व रमेश कुमारी, कान्ता देवी पुत्रीयान स्ववीर सिंह, सतीश कुमार पुत्रान व अनिता, सीता पुत्रीयान विमला देवी
				1219	पंचायत	रास्ता	0-1	25.29	ग्राम पंचायत
				7	निजी	सिंचित	1-8	708.20	रमेश कुमारी-कान्ता देवी पुत्रीयान रामचन्द, देवेन्द्र पुत्र स्ववीर सिंह, कान्ता देवी पत्नी बर्मन्, सतीश-हरीश पुत्रान व अनिता-सीता पुत्रीयान विमला देवी
				8/1/1	निजी	सिंचित	1-15	885.26	महेन्द्र सिंह-करण सिंह-रमवीर पुत्रान रामस्वरूप
				8/2	निजी	सिंचित	0-13	328.81	गगनपुत्र बगवान
				1220	पंचायत	रास्ता	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				13	निजी	सिंचित	2-5	1138.19	निरंजन सिंह-कदमसिंह-विजयपाल - अनूप सिंह पुत्रान पुनीलाल
				14	निजी	सिंचित	1-12	809.38	रमेश कुमारी-कान्ता देवी पुत्रीयान व रामचन्द, देवेन्द्र पुत्रान स्ववीर सिंह, कान्ता देवी पत्नी बर्मन्, सतीश-हरीश पुत्रान व अनिता-सीता पुत्रीयान विमला देवी
				17/1	निजी	सिंचित	1-12	809.38	रमेश कुमारी-कान्ता देवी पुत्रीयान व रामचन्द, देवेन्द्र पुत्रान स्ववीर सिंह, कान्ता देवी पत्नी बर्मन्, सतीश-हरीश पुत्रान व अनिता-सीता पुत्रीयान विमला देवी
				17/2	निजी	सिंचित	2-3	1087.60	निरंजन सिंह-कदमसिंह-विजयपाल - अनूप सिंह पुत्रान पुनीलाल
				18	निजी	सिंचित	0-5	126.47	पुत्रान पुनीलाल
				24/1	निजी	सिंचित	2-8	1214.06	माया कौर विद्या व करतार सिंह-रणवीर सिंह-कुलदीप पुत्रान लक्ष्मण सिंह, जिले सिंह पुत्र पुनीलाल, प्रभाप सिंह पुत्र लक्की सिंह, महासिंह पुत्र जागेराम
				24/2/1	निजी	सिंचित	0-11	278.22	माया कौर विद्या व करतार सिंह-रणवीर सिंह-कुलदीप पुत्रान लक्ष्मण सिंह, जिले सिंह पुत्र पुनीलाल, प्रभाप सिंह पुत्र लक्की सिंह, महासिंह पुत्र जागेराम
				24/2/2	निजी	सिंचित	1-1	531.15	प्रिया काले प्रोडक्टस प्रा. लि वजीर, सुरेन्द्र पुत्र प्रियावत
				25/2/2	निजी	सिंचित	0-0	0.00	
				184 / /					
				4	निजी	सिंचित	2-8	1214.06	निरंजन सिंह-कदमसिंह-विजयपाल - अनूप सिंह पुत्रान पुनीलाल
				5	निजी	सिंचित	1-12	809.38	सुरेशिंह पुत्र हरिद्वार सिंह, श्रीमती दरमयी विद्या व निर्मला, सरोज सुनील पुत्रीयान व सतीश, राजसिंह पुत्रान करतारसिंह भलेरी पुत्री जीवती
				6	निजी	सिंचित	1-11	784.08	सुरेशिंह पुत्र हरिद्वार सिंह, श्रीमती दरमयी विद्या व निर्मला, सरोज सुनील पुत्रीयान व सतीश, राजसिंह पुत्रान करतारसिंह भलेरी पुत्री जीवती
				7	निजी	सिंचित	2-8	1214.06	निरंजन सिंह-कदमसिंह-विजयपाल - अनूप सिंह पुत्रान पुनीलाल
				14	निजी	सिंचित	2-12	1315.24	सकलदीप विद्यालय व जनना पुत्र बगवान, बलवन्त सिंह, इजारी जयसिंह पुत्रान मानकचन्द, रामसिंह, सतवीरसिंह, बर्मवीर सिंह, श्रीमजगन पुत्रान जयसिंह
				15	निजी	सिंचित	1-10	758.79	मानो विद्यालय व जनना पुत्र बगवान, बलवन्त सिंह, इजारी जयसिंह पुत्रान मानकचन्द, रामसिंह, सतवीरसिंह, बर्मवीर सिंह, श्रीमजगन पुत्रान जयसिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				16	निजी	सिधित	1-9	733 50	भागा विधवा व सन्तोष -विमला -कमला -रामरती पुत्रीयान व रमेश कुमार, ओमसिंह -जसवन्त -प्रकाश -सतपाल पुत्रान इन्द सिंह, धूपसिंह पुत्र होशियार सिंह, बजीर, राजसिंह पुत्रान करतार सिंह
				17/1	निजी	सिधित	0-16	404 69	निरजन सिंह -विजयपाल -अनूप पुत्रान चुन्नीलाल, राजदुलारी विधवा व ज्योति -प्रिती -दीप्ती उर्फ मुर्ति
				17/2	निजी	सिधित	1-18	961 13	-सीमा पुत्रीयान कदम सिंह खानाकाशत इन्डियन ऑयल कॉरपोरेशन मार्केट ए० सी० शर्मा रीक चट्टेदार
				24/1	निजी	सिधित	0-10	252 93	
				24/2	निजी	सिधित	2-2	1062 31	निरजन सिंह-कदमसिंह -विजयपाल - अनूप सिंह पुत्रान चुन्नीलाल
				25	निजी	सिधित	1-10	758 79	भागा विधवा व सन्तोष- विमला- कमला- रामरती पुत्रीयान व रमेश कुमार, ओमसिंह -जसवन्त-प्रकाश-सतपाल पुत्रान इन्द सिंह, फा-सैलेयन सोसायटी, 4/102 विनयसदन परम रीट् जनकपुरी भूपसिंह पुत्र होशियार सिंह, बजीर, रामसिंह पुत्रान करतार सिंह
				176 //					
				283	पचायत	रास्ता	0-3	75 88	ग्राम पचायत
				4	निजी	सिधित	2-9	1239 36	महेन्द्र सिंह-जसवन्त पुत्रान केहरी सिंह, विजेन्द्र-राजबीर-अनूप पुत्रान अमर सिंह, श्रीमति कूलपति विधा व प्रदीप कुमार, जयदीप पुत्रान व सरिता पुत्री चन्द्रमान, सूरजभान, अतरसिंह पुत्रान भूपसिंह
				5	निजी	सिधित	1-10	758 79	पिया काले प्रोडक्टस प्रा लि बाजसिरे, सुरेन्द्र पुत्र प्रियावत खानाकाशत उदेसिंह पुत्र चन्दनी गौ गो
				6/1	निजी	सिधित	0-11	278 22	पिया काले प्रोडक्टस प्रा लि, वजीर, सुरेन्द्र पुत्र प्रियावत
				6/2	निजी	सिधित	1-1	531 15	करतार सिंह-महेन्द्र सिंह-रणबीर पुत्रान रामस्वरूप
				7	निजी	सिधित	2-12	1315 24	कूलपति विधा व प्रदीप-जयदीप पुत्रान व सरिता
				14	निजी	सिधित	1-1	531 15	कुमारी पुत्री चन्द्रमान,सूरजभान- अतर सिंह पुत्रान भूप सिंह, महेन्द्रसिंह, जसवन्त सिंह पुत्रान केहरी सिंह, बिजेन्द्र, राजबीर, अनूप पुत्रान अमरसिंह
				88	पचायत	रास्ता	0-2	50 59	ग्राम पचायत
				15/1	निजी	सिधित	1-16	910 55	करतार सिंह-महेन्द्र सिंह-रणबीर पुत्रान रामस्वरूप
				15/2	निजी	सिधित	1-12	809 38	
				16/1	निजी	सिधित	2-5	1138 19	
				16/2	निजी	सिधित	2-17	1441 70	कूलपति विधा व प्रदीप-जयदीप पुत्रान व सरिता कुमारी पुत्री चन्द्रमान,सूरजभान- अतर सिंह-कूल पुत्रान भूप सिंह
				17/1	निजी	सिधित	0-1	25 29	
							258-9	130739.52	
			(3) सिलानी जालेम	2 //					
			ह ब सं. 262	13	निजी	सिचाई युक्त	0-2	50 586	विधा आर्या समा गुरुकुल ब्रजजर
				18/1	निजी	सिचाई युक्त	0-6	151 758	विधा आर्या समा गुरुकुल ब्रजजर
				18/2	निजी	सिचाई युक्त	1-16	910 548	छोटू राम पुत्र केरी, जनीता पत्नी कुलताज सिंह
				19	निजी	सिचाई युक्त	2-2	1062 306	हवासिंह आदि मालकान
				20	निजी	सिचाई युक्त	0-8	202 344	जीत सिंह पुत्र टेक चन्द, उषा पुत्री शिव लाल, रामुद्र देवी पत्नी रामधूल
				147	सरकारी	सडक	0-7	177 051	होरियाणा सरकार
				22	निजी	सिचाई युक्त	1-12	809 376	धनकौर विधा व होशियार सिंह पुत्र इन्दान सतवती देवी सन्तोष देवी, सुनी देवी, जर्मिला देवी, राम भतीरी पुत्रीयान व सुमेर सिंह, रामेश्वर सिंह पुत्रान कितान सिंह
				23/1	निजी	सिचाई युक्त	0-15	379 395	धर्मवीर पुत्र चन्द रूप
				23/2	निजी	सिचाई युक्त	1-18	961 134	मनोज कुमार पुत्र रंगराम
				10 //					
				2	निजी	सिचाई युक्त	1-3	581 739	जल कर्ण पुत्र इन्दान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				3	निजी	सिचाई युक्त	2.8	1214.064	सुरेश, रमेश, सुनेर, रामशेर पुत्रान रणधीर सिंह रतनी लक्ष्मी पुत्रियाण व राजेन्द्र पुत्र गुणन राजकुमार, नरेन्द्र हरिश पुत्रान कलीराम, कबर सिंह पुत्र टैकी छोरो पुत्र केशो मुद्दुन पुत्र केशो, कवल सिंह पुत्र धूपसिंह
				4	निजी	सिचाई युक्त	0-2	50.586	राजेन्द्र पुत्र गुणन, कवलसिंह पुत्र धूपसिंह, सुरेश, रमेश रामशेर पुत्रान रणधीर सिंह, राजकुमार, नरेन्द्र, हरीशचन्द्र पुत्रान कलीराम, कृष्ण पुत्र छोदू
				7/1	निजी	सिचाई युक्त	0-19	480.567	राजसिंह, धर्मवीर सिंह पुत्रान व श्रीमति शकुन्तला पुत्री जिलेसिंह पुत्र हरीसिंह, श्रीमति ओम विद्या व सुनीता पुत्री, अनीता पुत्री भूपसिंह पुत्र जिलेसिंह व श्रीमति राजवन्ती विद्या सम्मगत पुत्र सुखदेव मालकान कच्चा मेदसिंह आदि
				7/2	निजी	सिचाई युक्त	1-13	834.669	खजान, राज सिंह, धर्मवीर, पुत्रान व शकुन्तला, पुत्री जिले सिंह, राजवन्ती, विद्या सम्मगत, ओमा विद्या अनीता, सुनीता, पुत्रीयान भूप सिंह
				8/1	निजी	सिचाई युक्त	0-9	227.637	जल कर्ण पुत्र इन्द्राज
				8/2	निजी	सिचाई युक्त	0-12	303.516	धनकोर विद्या व होशयार सिंह पुत्र इन्द्राज सलवन्ती देवी सन्तोष देवी, मुन्नी देवी, उर्मिला देवी, राम भतीरी पुत्रीयान व सुनेर सिंह, रामशेर सिंह पुत्रान किताब सिंह
				13	निजी	सिचाई युक्त	0-15	379.395	
				14/1	निजी	सिचाई युक्त	2-9	1239.357	खजान, राज सिंह, धर्मवीर, पुत्रान व शकुन्तला, पुत्री जिले सिंह, राजवन्ती, विद्या सम्मगत, ओमा विद्या अनीता, सुनीता, पुत्रीयान भूप सिंह
				14/2	निजी	सिचाई युक्त	0-1	25.293	श्री शेर सिंह, मुख्यायार सिंह सुने सिंह हरपाल उर्फ प्रेम सिंह पुत्रान सुहे राम साहबा पुत्र सुन्दर रमेश पुत्र जिले सिंह, कृष्णा देवी विद्या व विनोद सदीप पुत्रान रोहताश
				16/1	निजी	सिचाई युक्त	0-3	75.879	साहब पुत्र सुन्दर रमेश पुत्र जिले सिंह कृष्णा देवी विद्या विनोद सदीप पुत्रान रोहताश, सतवीर सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्रान शेर सिंह मुख्यायार सिंह पुत्र तुहिराम जय मगवान पुत्र हर लाल
				16/2	निजी	सिचाई युक्त	0-2	50.586	सतीश कुमार पुत्र राम सरण
				17/1	निजी	सिचाई युक्त	2-2	1062.306	साहब पुत्र सुन्दर रमेश पुत्र जिले सिंह कृष्णा देवी विद्या विनोद सदीप पुत्रान रोहताश, सतवीर सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्रान शेर सिंह मुख्यायार सिंह पुत्र तुहिराम जय मगवान पुत्र हर लाल
				17/2	निजी	सिचाई युक्त	0-2	50.586	सतीश कुमार पुत्र राम सरण
				18	निजी	सिचाई युक्त	0-14	354.102	श्री शेर सिंह, मुख्यायार सिंह सुने सिंह हरपाल उर्फ प्रेम सिंह पुत्रान सुहे राम साहबा पुत्र सुन्दर रमेश पुत्र जिले सिंह, कृष्णा देवी विद्या व विनोद सदीप पुत्रान रोहताश
				24	निजी	सिचाई युक्त	1-4	607.032	साहब पुत्र सुन्दर रमेश पुत्र जिले सिंह कृष्णा देवी विद्या विनोद सदीप पुत्रान रोहताश, सतवीर सिंह, विजेन्द्र सिंह पुत्रान शेर सिंह मुख्यायार सिंह पुत्र तुहिराम जय मगवान पुत्र हर लाल
				25	निजी	सिचाई युक्त	2-5	1138.185	सतीश कुमार पुत्र राम सरण
				17//	पंचायत	पथ	0-3	75.879	हरियाणा सरकार
				4	निजी	सिचाई युक्त	1-13	834.669	श्री शेर सिंह, मुख्यायार सिंह सुने सिंह हरपाल उर्फ प्रेम सिंह पुत्रान सुहे राम साहबा पुत्र सुन्दर रमेश पुत्र जिले सिंह, कृष्णा देवी विद्या व विनोद सदीप पुत्रान रोहताश
				5	निजी	सिचाई युक्त	3-4	1618.752	
				6	निजी	सिचाई युक्त	1-8	708.204	
				15	निजी	सिचाई युक्त	1-0	505.86	सदीप जैन पुत्र वेद प्रकाश जैन, प्रदीप जैन, प्रमोद जैन पुत्रान राजेन्द्र प्रसाद जैन, विजय कुमार जैन पुत्र कुलदेव राय जैन, मंजीत, पवन पुत्रान ओमप्रकाश, मन्वी मनीषा पुत्रीयान अतरसिंह, जयपाल पुत्र ताराचन्द
				16/1	निजी	सिचाई युक्त	0-0	0	
				18//					
				10/2	निजी	सिचाई युक्त	1-6	657.618	दलपत पुत्र श्यालाल
				11/1	निजी	सिचाई युक्त	0-10	252.93	सरदाया मनकूल, दलपत पुत्रान श्यालाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				11/2	निजी	सिंघाई युक्त	2-4	1112.892	दलपत पुत्र श्योलाल
				11/3	निजी	सिंघाई युक्त	0-14	354.102	सरदार मनकूल, दलपत पुत्र श्योलाल
				19/1	निजी	सिंघाई	1-10	758.79	दलपत पुत्र श्योलाल
				20/1/1	निजी	सिंघाई युक्त	0-9	227.637	दलपत, मनकूल सरदार पुत्र श्योलाल
				20/1/2	निजी	सिंघाई	0-17	429.981	दलपत पुत्र श्योलाल
				20/2/1	निजी	सिंघाई	0-4	101.172	सदीप जैन पुत्र वेद प्रकाश जैन, प्रदीप जैन, प्रमोद जैन
				20/2/2	निजी	सिंघाई युक्त	0-10	252.93	जगदीर, फूल कुवर, रमेश राजिन्द पुत्र शंभू, उमेश सिंह, जयपाल पुत्र शंभू, नारायण, नीरज, मंजीत, पवन पुत्र आंगप्रकाश, श्रीमति शकुन्तला विद्या व मन्जू, मनीषा, सुनीता पुत्रीयान व राजेश पुत्र अतरसिंह
				21/2	निजी	सिंघाई युक्त	0-17	429.981	श्रीमति कृष्णा देवी विद्या व मंजीत सिंह, संजीत सिंह पुत्रान व रेखा देवी पुत्री मेद सिंह कृष्ण पुत्र रिसाल सिंह कृष्णा देवी पत्नी राम चन्द शील देवी पत्नी सिन्दर सिंह, राम कुमार प्रताप, जोरा सिंह पुत्रान रणधीर सिंह महेंद्र सिंह देवेन्द्र सिंह पुत्रान राजू
				145	पंचायत	पथ	0-5	126.465	पंचायत
				22/1	निजी	सिंघाई युक्त	2-9	1239.357	दलपत पुत्र श्योलाल
				30//					
				2/1	निजी	सिंघाई युक्त	0-7	177.051	कमल सिंह, सुदे सिंह, जगदेव सिंह, इश्वर सिंह, जीत सिंह, पुत्र देकराम आदि
				2/2	निजी	सिंघाई युक्त	0-8	151.758	
				9	निजी	सिंघाई युक्त	1-12	809.378	बर्मवीर, वेद पाल, राजवीर, ज्ञान प्रकाश राणवीर पुत्रान कमल सिंह आदि
				12	निजी	सिंघाई युक्त	3-7	1694.631	धनवीर विद्या व होशियार सिंह पुत्र इन्द्राज सतवन्ती देवी सन्तोष देवी, मुन्नी देवी, उर्मिला देवी, राम भतेरी पुत्रीयान व सुनेर सिंह, रामशेर सिंह पुत्रान किताब सिंह
				118	निजी	तालाब	2-19	1492.287	समाध बाबा बालक दास सिलानी जन्म
				18	निजी	सिंघाई युक्त	4-12	2326.956	जल कर्म पुत्र इन्द्राज
				19/2	निजी	सिंघाई युक्त	1-0	505.86	धनवीर विद्या व होशियार सिंह पुत्र इन्द्राज सतवन्ती देवी सन्तोष देवी, मुन्नी देवी, उर्मिला देवी, राम भतेरी पुत्रीयान व सुनेर सिंह, रामशेर सिंह पुत्रान किताब सिंह
				22	निजी	सिंघाई युक्त	1-10	758.79	सरदार सिंह, मनकूल, दलपत, पुत्रान शीलाल
				23/1	निजी	सिंघाई युक्त	4-4	2124.612	सरदार सिंह, मनकूल, दलपत, पुत्रान शीलाल
				23/2	निजी	सिंघाई युक्त	0-13	328.809	तेजा राम सिंह पुत्रान फते सिंह गैर मोरुसी
				42//					
				2/1	निजी	सिंघाई युक्त	0-2	50.586	श्री शेर सिंह मुक्यायार सिंह, सुभे सिंह, हतपाल उर्फ प्रेम सिंह पुत्रान सुही राम साहबा पुत्र सन्दीप, रमेश पुत्र जिते सिंह कृष्णा देवी विद्या व विनोद सदीप पुत्रान रोहतास
				2/2	निजी	सिंघाई युक्त	2-13	1340.529	तेजा राम सिंह पुत्रान फते सिंह गैर मोरुसी
				3	निजी	सिंघाई युक्त	3-18	1972.854	तेजा राम सिंह पुत्रान फते सिंह गैर मोरुसी
				8	निजी	सिंघाई युक्त	1-18	961.134	मकनुजा पंचायत छोन्दू पुत्र सीताराम गौ मी
				9	निजी	सिंघाई युक्त	5-0	2529.3	भानसिंह पुत्र डीधराम गौ मी
				11	निजी	बजर भूमि	0-7	177.051	समाध बाबा बालक दास सिलानी जन्म
				12	निजी	बजर भूमि	6-19	3515.727	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				13	निजी	बंजर भूमि	0-2	50.586	
				19	निजी	बंजर भूमि	4-2	2074.028	
				20	निजी	बंजर भूमि	3-0	1517.58	
				21	निजी	बंजर भूमि	8-1	3060.453	
				22	निजी	बंजर भूमि	1-1	531.153	
				56 //					
				1	निजी	बंजर भूमि	5-10	2782.23	
				10/1	निजी	बंजर भूमि	0-7	177.051	
				128	सरकारी	सड़क	2-2	1062.306	हरियाणा सरकार
				10/2	निजी	बंजर भूमि	1-8	733.497	समाध बाबा बालक दास सिलानी जानम
				11	निजी	सिंचाई युक्त	0-5	128.465	जगवीर, फूल कुंवर, रमेश राजिन्द्र पुत्रान शेर, जगदी सिंह, जयपाल पुत्रान ताराचन्द, नीरज, मजीत, पवन पुत्रान ओमप्रकाश, श्रीमति शकुन्तला विद्या व मन्जू मनीषा, सुनीता पुत्रीयान व राजेश पुत्र अतरसिंह
				57 //					
				5/1	निजी	सिंचाई रहित	0-5	128.465	समाध बाबा बालक दास सिलानी जानम
				5/2	निजी	सिंचाई रहित	0-8	151.758	
				6	निजी	सिंचाई रहित	4-3	2099.319	
				14	निजी	सिंचाई युक्त	0-1	25.293	जगवीर, फूल कुंवर, रमेश राजिन्द्र पुत्रान शेर, जगदी सिंह, जयपाल पुत्रान ताराचन्द, नीरज, मजीत, पवन पुत्रान ओमप्रकाश, श्रीमति शकुन्तला विद्या व मन्जू मनीषा, सुनीता पुत्रीयान व राजेश पुत्र अतरसिंह
				15	निजी	सिंचाई युक्त	6-19	3515.727	
				16	निजी	सिंचाई युक्त	5-4	2630.472	कमल सिंह, सुबे सिंह, जगदेव सिंह, इश्वर सिंह, जीत सिंह, पुत्र टैकराम आदि
				17	निजी	सिंचाई युक्त	1-11	784.083	
				24	निजी	सिंचाई युक्त	2-19	1492.287	
				25 मिन	निजी	सिंचाई युक्त	2-17	1441.701	धर्मवीर, वेद पाल, राजबीर, ओम प्रकाश राणवीर पुत्रान कमल सिंह आदि राहिन मागे, मामचन्द पुत्रान लीराम आदि मुर्तहानान
				पथ	पंचायत	पथ	0-3	75.879	पंचायत
				68 //					
				4	निजी	सिंचाई युक्त	3-1	1542.873	धर्मवीर, वेद पाल, राजबीर, ओम प्रकाश राणवीर पुत्रान कमल सिंह आदि राहिन मागे, मामचन्द पुत्रान लीराम आदि मुर्तहानान
				5	निजी	सिंचाई युक्त	2-15	1391.115	
				450	पंचायत	पथ	0-12	303.516	पंचायत
				6	निजी	सिंचाई युक्त	3-14	1871.682	जगवीर, जयपाल, सतपाल, सतवीर, पुत्रान हरि सिंह
				7	निजी	सिंचाई युक्त	2-13	1340.529	
				14	निजी	सिंचाई युक्त	0-19	480.567	मगवान देवी विद्या हरी सिंह
				15	निजी	सिंचाई युक्त	5-16	2933.988	जगवीर, जयवीर, सतपाल, सतवीर, पुत्रान हरि सिंह
				16/1	पंचायत	सिंचाई युक्त	4-13	2352.249	ग्राम पंचायत
				137	पंचायत	पथ	1-0	505.86	ग्राम पंचायत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				25	निजी	सिचाई युक्त	2-17	1441.701	बलजीत सिंह, कृष्ण कुमार, पुत्रान कर्ण सिंह, राजवीर सतवीर, सुरेन्द्र, पुत्रान मनफूल, फूलकोर, सिद्ध, अनीया पुत्री, सुखवीर, धर्मपाल, राजेन्द्र, विजेन्द्र, पुत्रान रंग सिंह, नर सिंह, रमवीर सिंह, फूल सिंह पुत्रान भवराज, जोन प्रकाश, महेंद्र, सुरत सिंह पुत्रान व किताबकी पुत्री जय लाल, सुरेन्द्र, जितेन्द्र पुत्रान सुरजमान
				69 //					
				11	निजी	सिचाई युक्त	0-2	50.586	जयवीर, जयवीर, सतपाल, सतवीर, पुत्र हरि सिंह
				20	निजी	सिचाई युक्त	1-1	531.153	बलजीत सिंह, कृष्ण कुमार, पुत्रान कर्ण सिंह, राजवीर सतवीर, सुरेन्द्र, पुत्रान मनफूल, सुखवीर, धर्मपाल, राजेन्द्र, विजेन्द्र, पुत्रान रंग सिंह, नर सिंह, रमवीर सिंह, फूल सिंह पुत्रान भवराज, जोन प्रकाश, महेंद्र, सुरत सिंह पुत्रान व किताबकी पुत्री जय लाल, सुरेन्द्र, जितेन्द्र पुत्रान सुरजमान
				21	निजी	सिचाई युक्त	5-4	2630.472	बलजीत सिंह, कृष्ण कुमार, पुत्रान कर्ण सिंह, राजवीर सतवीर, सुरेन्द्र, पुत्रान मनफूल, सुखवीर, धर्मपाल, राजेन्द्र, विजेन्द्र, पुत्रान रंग सिंह, नर सिंह, रमवीर सिंह, फूल सिंह पुत्रान भवराज, जोन प्रकाश, महेंद्र, सुरत सिंह पुत्रान व किताबकी पुत्री जय लाल, सुरेन्द्र, जितेन्द्र पुत्रान सुरजमान
				82 //					
				1	निजी	सिचाई युक्त	5-16	2933.988	दयानन्द पुत्र रतन, सुरेश, रमेश, राजेश, महोपाल, सूर्यपाल, धर्मपाल पुत्रान दयानन्द
				2	निजी	सिचाई युक्त	1-9	733.497	केगराज, धन राज, जय राज, प्रदीप कुमार, पुत्रान व किताबकी, मुन्नी, बाला पुत्रीयान अर्जन
				472	पंचायत	पथ	0-15	379.395	पंचायत
				9/1/1	निजी	सिचाई युक्त	3-1	1542.873	दयानन्द पुत्र रतन, सुरेश, रमेश, राजेश, महोपाल, सूर्यपाल, धर्मपाल पुत्रान दयानन्द
				9/1/1/2	निजी	सिचाई युक्त	0-3	75.879	केगराज, धन राज, जय राज, प्रदीप कुमार, पुत्रान व मुन्नीयान पुत्री अर्जन
				9/1/2	पंचायत	पथ	0-11	278.223	ग्राम पंचायत
				9/2	निजी	सिचाई युक्त	1-7	682.911	विजय पाल, सतीश, सन्दीप, पुत्रान कर्ण सिंह
				10/1	निजी	सिचाई युक्त	0-17	429.981	दयानन्द पुत्र रतन, सुरेश, रमेश, राजेश, महोपाल, सूर्यपाल, धर्मपाल पुत्रान दयानन्द
				10/2	निजी	सिचाई युक्त	0-13	328.809	शक्ति विद्या व सतीपाल पुत्र व कमलेश मीना दया पुत्रीयान जोता सिंह मुन्नीदेवी विद्या व महोपाल पुत्र जयपाल
				12	निजी	सिचाई युक्त	5-1	2554.593	विजय पाल सतीश, सदीप पुत्र कर्ण सिंह
				13/1/1	निजी	सिचाई युक्त	1-11	784.083	विजय पाल सतीश, सदीप पुत्र कर्ण सिंह
				13/1/2	निजी	सिचाई युक्त	0-6	151.758	रामेहर पुत्र रूप सिंह
				13/2/1	निजी	सिचाई युक्त	0-3	75.879	रामेहर पुत्र रूप सिंह
				13/2/2	निजी	सिचाई युक्त	0-4	101.172	योगेश कुमार, विकास कुमार, पुत्रान महेंद्र सिंह
				19	निजी	सिचाई युक्त	2-9	1239.357	बिजेन्द्र सिंह, विजय कुमार पुत्रान फूलसिंह
					गाँव का कुल जोड़		193-19	98111.547	
			(4) सिलानी केसव	25 //					
			ह.ब. सं.263	17/14	निजी	सिचाई युक्त	0-1	25.293	श्री भगवान पुत्र सरदा
				18/6	निजी	सिचाई युक्त	4-19	2504.007	श्री भगवान पुत्र सरदा
				23	निजी	सिचाई युक्त	4-6	2175.198	रामनिवास, जयप्रकाश, जोनप्रकाश, सत्यवान पुत्रान आभिर सिंह आका मोरसिंह
				24	निजी	सिचाई युक्त	2-14	1365.822	
				28 //					
				171	पंचायत	पानी का चैनल	0-9	227.637	ग्राम पंचायत
				3/2	निजी	सिचाई युक्त	0-8	202.344	माणे पुत्रान शिम्बा, कृष्ण, सुखदर्शन, छोटेलाल पुत्रान माणे
				4	निजी	सिचाई युक्त	5-19	3009.867	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
	4			5	निजी	सिंचाई युक्त	0-2	50.586	
				414	पंचायत	पथ	0-14	354.102	ग्राम पंचायत
				6	निजी	सिंचाई युक्त	3-4	1618.752	अमित कुमार, रिंकु पुत्रान कर्मवीर, बर्मवीर पुत्रान रामकरन, सन्तराम, रामकिशन पुत्रान सखलाल, श्रीमति विमला देवी पत्नी सुभाष चन्द, सुखलाल पुत्रान शीशाराम, फूलवती विधवा रामकरन
				7/1	निजी	सिंचाई युक्त	2-2	1062.306	भाग पुत्रान सिन्हा, बृज, सुखदत्तन, छोटेलाल पुत्रान भागे
				7/2	निजी	सिंचाई युक्त	1-10	758.79	बर्मवल, महेंद्रसिंह पुत्रान चवंगी रमेश कुमार पुत्रान फूलसिंह, आजाद पुत्रान बेदू राम, शौला विधवा, गीता, बर्बिता पुत्री दीपक, नवीर पुत्रान दुलैराम, बर्मवीर पुत्रान सरुपा, श्रीमति बसन्ती विधवा, हकुन्तला, संताप, रोहनी पुत्रीमान सुभे, कर्मवीर पुत्रान सरुपा, सिंहराम पुत्रान मानचन्द, जलसिंह पुत्रान सुरतसिंह, अतरसिंह पुत्रान जोतराम
				14	निजी	सिंचाई युक्त	0-9	227.637	
				15	निजी	सिंचाई युक्त	4-2	2074.026	अमित कुमार, रिंकु पुत्रान कर्मवीर, बर्मवीर पुत्रान रामकरन, सन्तराम, रामकिशन पुत्रान सखलाल, श्रीमति विमला देवी पत्नी सुभाष चन्द, सुखलाल पुत्रान शीशाराम, फूलवती विधवा रामकरन
				16/1	हरियाणा सरकार	सड़क	1-2	556.446	हरियाणा सरकार
				16/2	निजी	सिंचाई युक्त	1-6	657.618	श्रीमति मायादेवी विधवा, श्रीमति सरोज, बृज पुत्रीया सतयवान, सतपाल, विरेन्द्र पुत्रान हंसियार सिंह
				408	पंचायत	पथ	0-4	101.172	ग्राम पंचायत
				415	पंचायत	पथ	0-1	25.293	ग्राम पंचायत
				24	निजी	सिंचाई युक्त	0-0	0	रमवीर सिंह, राकिशन पुत्रान अर्जुनसिंह, सतीश कुमार, राजेश कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्रान सावेशम
				25/1	हरियाणा सरकार	सड़क	2-10	1264.65	हरियाणा सरकार
				25/2	निजी	सिंचाई युक्त	0-5	126.465	अमित कुमार, रिंकु पुत्रान कर्मवीर, बर्मवीर पुत्रान रामकरन, सन्तराम, रामकिशन पुत्रान सखलाल, श्रीमति विमला देवी पत्नी सुभाष चन्द, सुखलाल पुत्रान शीशाराम, फूलवती विधवा रामकरन
				29//					
				20/2/2	निजी	सिंचाई युक्त	0-1	25.293	अमित कुमार, रिंकु पुत्रान कर्मवीर, बर्मवीर पुत्रान रामकरन, सन्तराम, रामकिशन पुत्रान सखलाल, श्रीमति विमला देवी पत्नी सुभाष चन्द, सुखलाल पुत्रान शीशाराम, फूलवती विधवा रामकरन
				409	पंचायत	पथ	0-1	25.293	ग्राम पंचायत
				21/1	निजी	सिंचाई युक्त	0-2	50.586	अमित कुमार, रिंकु पुत्रान कर्मवीर, बर्मवीर पुत्रान रामकरन, सन्तराम, रामकिशन पुत्रान सखलाल, श्रीमति विमला देवी पत्नी सुभाष चन्द, सुखलाल पुत्रान शीशाराम, फूलवती विधवा रामकरन
				55//					
				5/1	हरियाणा सरकार	सड़क	2-16	1416.406	हरियाणा सरकार
				5/2	निजी	सिंचाई युक्त	0-4	101.172	कालीराम पुत्र छोदू, नारायण सिंह, नरेश कुमार, कुलदीप पुत्रान काली राम
				6/1/1	हरियाणा सरकार	सड़क	0-7	177.051	हरियाणा सरकार
				6/1/2	निजी	सिंचाई युक्त	0-1	25.293	कालीराम पुत्र छोदू, नारायण सिंह, नरेश कुमार, कुलदीप पुत्रान काली राम
				6/3/1	हरियाणा सरकार	सड़क	0-4	101.172	हरियाणा सरकार
				416	पंचायत	पथ	0-0	0	ग्राम पंचायत
				साबी नदी	सरकारी	नदी	2-13	1340.529	हरियाणा सरकार
				15/1	हरियाणा सरकार	सड़क	2-14	1365.822	हरियाणा सरकार
				15/2	निजी	सिंचाई युक्त	0-2	50.586	कालीराम पुत्र छोदू, नारायण सिंह, नरेश कुमार, कुलदीप पुत्रान काली राम
				16/1/1	निजी	सिंचाई युक्त	0-1	25.293	
				407	पंचायत	पथ	0-3	75.879	ग्राम पंचायत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				18/1/2	हरियाणा सरकार	सड़क	1-17	935.841.	हरियाणा सरकार	
				18/2/1	हरियाणा सरकार	सड़क	0-0	0	रामफल, रामकवर, बलवान, जगवीर, रत्नवीर, रामवीर पुत्रान उमराव सिंह पुत्र लख्मीचंद	
				16/2/2	हरियाणा सरकार	सड़क	0-14	354.102	हरियाणा सरकार	
				25/1	हरियाणा सरकार	सड़क	2-18	1466.994	हरियाणा सरकार	
				25/2	निजी	सिंचाई युक्त	0-1	25.293	रामफल, रामकवर, बलवान, जगवीर, रत्नवीर, रामवीर पुत्रान उमराव सिंह, पुत्र लख्मीचंद	
				65//						
					पथ	पंचायत	पथ	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				5/1	हरियाणा सरकार	सड़क	2-16	1416.408	हरियाणा सरकार	
				405	पंचायत	पथ	0-5	126.465	ग्राम पंचायत	
				6/1	हरियाणा सरकार	सड़क	0-15	379.395	ग्राम पंचायत - निहालू पुत्र हजारी गै० गौ०	
				6/2	हरियाणा सरकार	सड़क	2-6	1163.478	हरियाणा सरकार	
				7	पंचायत	बंजर भूमि	0-17	429.981	ग्राम पंचायत	
				15/1	हरियाणा सरकार	सड़क	1-2	556.446	हरियाणा सरकार	
				15/2	निजी	सिंचाई युक्त	2-0	1011.72	ग्राम पंचायत - निहालू पुत्र हजारी गै० गौ०	
				137	पंचायत	विद्यालय	2-2	1062.306	ग्राम पंचायत	
				16	निजी	सिंचाई युक्त	2-12	1315.236	बालराम पुत्रान पुत्र उमद सिंह (इ० नं० 2723 विरासत 2726, 2729 रि० डी० 2733 तकसीम)	
				प्लॉट	निजी	प्लॉट	0-7	177.051	जन्मबन्दी उपलब्ध नहीं है	
				27	पंचायत	कुआँ	0-2	50.586	ग्राम पंचायत	
				113	पंचायत	तालाब	1-17	935.841	ग्राम पंचायत	
				25	पंचायत	बंजर भूमि	2-14	1365.822	ग्राम पंचायत	
				87//						
				4	पंचायत	बंजर भूमि	0-4	101.172	ग्राम पंचायत	
				131	पंचायत	पथ	0-10	252.93	ग्राम पंचायत	
				5/1	पंचायत	सिंचाई युक्त	2-9	1239.357	ग्राम पंचायत	
				5/2	निजी	सिंचाई युक्त	0-3	75.879	ग्राम पंचायत	
				6	निजी	सिंचाई युक्त	2-18	1466.994	अजीत सिंह पुत्र घर्म, श्रीमति विद्यावती पत्नी अजीत सिंह	
				7	निजी	सिंचाई युक्त	2-2	1062.306	उमद सिंह, सतवीर, राजपाल, बंदपाल पुत्रान दलीप पुत्रान बलवन्त	
				14	निजी	सिंचाई युक्त	1-16	910.548	उमद सिंह, सतवीर, राजपाल, बंदपाल पुत्रान दलीप पुत्रान बलवन्त	
				131	पंचायत	पथ	0-5	126.465	ग्राम पंचायत	
				15	पंचायत	सिंचाई युक्त	2-15	1391.115	ग्राम पंचायत- नरथु, अनीर सिंह पुत्रान शिवलाल, माणो पुत्र ईश्वर, रामानन्द, रतीराम पुत्रान साहबु, समप्रकाश पुत्र जयसिंह गै० गौ०	
				16/1	निजी	सिंचाई युक्त	1-7	682.911	ग्राम पंचायत - हजारी पुत्र नेवली गै० गौ०	
				16/2	निजी	सिंचाई युक्त	1-13	834.669	उमद सिंह, सतवीर, राजपाल, बंदपाल पुत्रान दलीप पुत्रान बलवन्त	
				17	निजी	सिंचाई युक्त	1-18	961.134		
				24	निजी	सिंचाई युक्त	1-18	961.134	श्रीमति खजानी विद्या, धर्मकौर पुत्री मुखरा, कवल सिंह पुत्रान बलकू, बिरिन्द, दीपक पुत्रान धर्मवीर, सधिन पुत्रान जगवीर सिंह, श्रीमति कलादेवी विद्या, लखिल पुत्री धर्मवीर	
				25	निजी	सिंचाई युक्त	3-0	1517.58	उमद सिंह, सतवीर, राजपाल, बंदपाल पुत्रान दलीप पुत्रान बलवन्त	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				98 / /					
				4	निजी	सिचाई युक्त	1-3	581.739	श्रीमति सतोग पत्नी धर्मपाल
				5	निजी	सिचाई युक्त	0-13	328.809	उमद सिंह, सतवीर, राजपाल, बंदपाल पुत्रान बलवीर पुत्रान बलवंत
							95-18	48511.974	
			(6) सिलाना	17 / /					
			हदयस्त स. 259	5	निजी	कृषि	1-12	809.376	राजेंद्र सिंह, बलवान पुत्र सूरजन, भागे पुत्रान लीराम, राधेश्याम पुत्रान सुलतान सिंह, धर्मपाल पुत्रान लखीर सिंह, बिरसा पुत्रान राजकुमार, श्रीमति छना पुत्री राजकराम, श्रीमति लेखती विद्या, रमेश सिंह, लखीर सिंह, रामकेशन पुत्र श्रीमति कृष्णा, रामरती पुत्री लखी, रिशालसिंह, जिले सिंह, राजमल सिंह, राजसिंह पुत्र लहरी श्रीमति सावित्री पुत्री लहरी
				6/1	निजी	कृषि	0-6	151.758	
				6/2	निजी	कृषि	1-10	758.79	शिवनारायण पुत्र ताराचन्द पुत्र भगवादास, खजान सिंह, सुबेसिंह पुत्रान शिवनारायण पुत्र तायाचन्द, श्रीमति केशव विद्या, मुकेश पुत्री नवलाल उर्फ लीला जगदीर सिंह, कृष्णा पुत्र पतराम पुत्र तायाचन्द
				6/3	निजी	कृषि	1-0	505.86	छोदू, राम पुत्र तयो राम
				7	निजी	कृषि	2-6	1163.478	मनफूलसिंह, रणसिंह पुत्र लखू राम, भागे पुत्र ईश्वर सिंह, अतरसिंह बलजीत सिंह, अजीतसिंह, समोदसिंह पुत्रान रतौराम, रामचन्द्र, ओमप्रकाश पुत्रान रामानन्द, राम प्रकाश पूजा, जयलाल, राम किशन, राजसिंह, रमेश कुमार पुत्र आभिर सिंह
				14	निजी	कृषि	2-0	1011.72	
				15	निजी	कृषि	2-16	1416.408	छोदू, राम पुत्र तयो राम
				390	पंचायत	पथ	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				16	निजी	कृषि	2-16	1416.408	छोदू, राम पुत्र तयो राम
				17	निजी	कृषि	1-11	784.083	रतनसिंह, करनसिंह, उमदेसिंह पुत्रान नन्दी जन्ती ज्ञानी पुत्रीया हुकमचन्द, श्रीमति कमलेश पुत्री टोडरसिंह, राजपाल विद्या श्रीमति नरेश कुमारी पुत्री रानीर सिंह
				24	निजी	कृषि	1-5	632.325	
				25/1	निजी	कृषि	1-5	632.325	राजनीर, विजेन्द्रसिंह, श्री मगवान पुत्र भाद्रराम
				26	पंचायत	जी एम प्लाट	0-19	480.567	ग्राम पंचायत
				173	सरकारी	सड़क	0-13	328.809	ग्राम पंचायत
				40 / /					
				385	पंचायत	पथ	0-2	50.586	ग्राम पंचायत
				4	निजी	कृषि	1-3	581.739	रमेश पुत्र हजारी, जोगेंद्रसिंह, धरनसिंह, सूरजमल, ओमप्रकाश पुत्रान बनी सिंह, ईश्वर पुत्र रमेश
				26	निजी	कृषि	2-11	1289.943	
				5	निजी	कृषि	0-5	126.465	आजाद, दलीप रनवीर पुत्रान टेकचन्द
				6	निजी	कृषि	2-16	1416.408	आजाद, दलीप रनवीर पुत्रान टेकचन्द
				7	निजी	कृषि	1-12	809.376	रमेश पुत्र हजारी दातक, जोगेंद्रसिंह, धरनसिंह, सूरजमल, ओमप्रकाश पुत्रान बनी सिंह, ईश्वर पुत्र रमेश
				14	निजी	कृषि	1-18	961.134	
				15	निजी	कृषि	2-16	1416.408	आजाद, दलीप रनवीर पुत्रान टेकचन्द
				16	निजी	कृषि	2-15	1391.115	दलीप सिंह, रनवीर सिंह, आजाद पुत्र टेकचन्द, राम भगत पुत्र रामजीलाल
				17	निजी	कृषि	1-18	961.134	जिले सिंह पुत्र रतन सिंह
				24/2	निजी	कृषि	1-16	910.548	धर्मपाल, करतारसिंह पुत्र नन्दू, श्रीमति ज्ञानी पुत्री नन्दू, धर्मपाल, करतार पुत्रान नन्दू, जोगेंद्रसिंह पुत्र सरदार
				25	निजी	कृषि	2-12	1315.236	ओमप्रकाश, रोहताश, रामफल, रनवीर, सतवीर, बलवीर, धर्मवीर पुत्र जगो पुत्र दानी
				45 / /					
				4/2	निजी	कृषि	1-16	910.548	श्रीमति राममूर्ति विद्या, जयनारायण, सतवीर, ओमप्रकाश पुत्रान गोपी राम, विद्या, शकुन्तला पुत्री गोपी राम, श्रीमति शान्ति विद्या, जय नारायण, सतयनारायण, शिखर विनोद, तिलक पुत्र धामी, श्रीमति कृष्णा, सुनीता पुत्रीया धामी, बसन्त पुत्र रामचन्द
				5	निजी	कृषि	2-14	1365.822	ओमप्रकाश, रोहताश, रामफल, रनवीर, सतवीर, बलवीर, धर्मवीर पुत्र जगो पुत्र दानी
				459	निजी	कृषि	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				6	निजी	कृषि	2-7	1188.771	ओमप्रकाश, रोहताश, रामफल, रनवीर, सतवीर, बलवीर, धर्मवीर पुत्र जगो पुत्र दानी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				7	निजी	कृषि	1-13	834.689	रामफल पुत्रान जुगलाल, लक्ष्मण सिंह, राय सिंह, जोगेन्द्रसिंह, आनन्द सिंह, विनोदसिंह, पुत्रान रामफल पुत्र हरदत्त, सरती पुत्री हरदत्त, आजाद सिंह, भूपसिंह, राजेन्द्र पुत्रान मीरा सिंह, सन्तराम पुत्रान मुन्शी श्रीमति सन्ताप विधवा मोनिका पुत्रीया हवा सिंह, सुमित, अमित पुत्रान नरक सिंह, सतवीर सह पुत्र बलवानसिंह
				178	पंचायत	पथ	0-9	227.537	ग्राम पंचायत
				14	निजी	कृषि	1-16	910.548	रामफल पुत्रान जुगलाल, लक्ष्मण सिंह, राय सिंह, जोगेन्द्रसिंह, आनन्द सिंह, विनोदसिंह, पुत्रान रामफल पुत्र हरदत्त, सरती पुत्री हरदत्त, आजाद सिंह, भूपसिंह, राजेन्द्र पुत्रान मीरा सिंह, सन्तराम पुत्रान मुन्शी श्रीमति सन्ताप विधवा मोनिका पुत्रीया हवा सिंह, सुमित, अमित पुत्रान नरक सिंह, सतवीर सह पुत्र बलवानसिंह
				15/1	निजी	कृषि	2-7	1188.771	ओमप्रकाश, रोहतास, रामफल, रनवीर, सतवीर, बलवीर, धर्मवीर पुत्र जगमे पुत्र दानी
				15/2	निजी	कृषि	0-9	227.637	श्रीमति राजबन्दी पतनी जगवीर सिंह, श्रीमति रजनी देवी पुत्री कवर सिंह
				16	निजी	कृषि	2-16	1416.408	
				17	निजी	कृषि	1-14	859.962	रामफल पुत्रान जुगलाल, लक्ष्मण सिंह, राय सिंह, जोगेन्द्रसिंह, आनन्द सिंह, विनोदसिंह, पुत्रान रामफल पुत्र हरदत्त, सरती पुत्री हरदत्त, आजाद सिंह, भूपसिंह, राजेन्द्र पुत्रान मीरा सिंह, सन्तराम पुत्रान मुन्शी श्रीमति सन्ताप विधवा मोनिका पुत्रीया हवा सिंह, सुमित, अमित पुत्रान नरक सिंह, सतवीर सह पुत्र बलवानसिंह
				500	पंचायत	पथ	0-2	50.586	ग्राम पंचायत
				24	निजी	कृषि	1-16	910.548	रामफल, पुत्रान जुगलाल, लक्ष्मण सिंह, राय सिंह, जोगेन्द्रसिंह, आनन्द सिंह, विनोदसिंह, पुत्रान रामफल पुत्र हरदत्त, सरती पुत्री हरदत्त
				25	निजी	कृषि	2-16	1416.408	सतीश कुमार खुर्दाना पुत्र अमरनाथ
				67 //					
				4	निजी	कृषि	1-16	910.548	घारे पुत्रान श्याम, कबजा शुभराम पुत्र सन्दरबल, सतपाल सिंह पुत्र बनार राम
				5	निजी	कृषि	2-13	1340.529	अतर सिंह, जिले सिंह पुत्रान छोद
				6/2	निजी	कृषि	2-7	1188.771	अतर सिंह, जिले सिंह पुत्रान छोद
				7	निजी	कृषि	1-16	910.548	घारे पुत्रान श्याम, कबजा शुभराम पुत्र सन्दरबल, सतपाल सिंह पुत्र बनार राम
				14	निजी	कृषि	0-19	480.567	सतपाल सिंह पुत्र बनार राम
				15	निजी	कृषि	2-0	1011.72	अतर सिंह, जिले सिंह पुत्रान छोद
				16	निजी	कृषि	1-18	961.134	जीतासिंह पुत्र हजारी पुत्र चदरी, सत्यवान, दादरसिंह पुत्रान जिलेसिंह पुत्र प्यारेलास, सतीश कुमार पुत्र मनफूल सिंह पुत्र कुचनलाल, श्रीमति धनपति पार्वती रामकिशोर पुत्र मनफूल सिंह
				145	पंचायत	तालाब	2-10	1264.65	ग्राम पंचायत
				68 //					
				452	पंचायत	पथ	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				5	निजी	कृषि	1-2	556.446	कैसी पुत्रान प्यारेलाल, राय सिंह, जयमंगलान, राम निवास पुत्र कैसी
				6/1	निजी	कृषि	1-14	859.962	
				6/2	निजी	कृषि	0-6	151.758	जिले सिंह पुत्र रतन सिंह
				15	निजी	कृषि	2-4	1112.892	जिले सिंह पुत्र रतन सिंह
				16	निजी	कृषि	2-12	1315.236	जिले सिंह पुत्र रतन सिंह
				177	निजी	कृषि	0-4	101.172	ग्राम पंचायत
				24	निजी	कृषि	2-3	1087.599	शिवनारायण पुत्र ताराचन्द पुत्र गंगादास, खजान सिंह, सुरेशिंह पुत्रान शिवनारायण पुत्र ताराचंद, श्रीमति केशर विधवा, मुकेश पुत्री नंदलाल उर्फ लीला, जगवीर सिंह, कृष्ण पुत्र पतराम पुत्र ताराचन्द
				25	निजी	कृषि	2-8	1214.064	श्रीमति पार्वती विधवा, सुमन पत्नीया कन्हैया, कृष्ण पुत्र कन्हैया, रनवीर पुत्र कन्हैया
				89 //					
				4/1	निजी	कृषि	2-0	1011.72	शिवनारायण पुत्र ताराचन्द पुत्र गंगादास, खजान सिंह, सुरेशिंह पुत्रान शिवनारायण पुत्र ताराचंद, श्रीमति केशर विधवा, मुकेश पुत्री नंदलाल उर्फ लीला, जगवीर सिंह, कृष्ण पुत्र पतराम पुत्र ताराचन्द
				4/2	निजी	कृषि	2-4	1112.892	श्रीमति पार्वती विधवा, सुमन पुत्री कन्हैया, कृष्ण पुत्र कन्हैया, रनवीर पुत्र कन्हैया
				5	निजी	कृषि	0-3	75.879	
				7/1	निजी	कृषि	2-12	1315.236	नरेश कुमार पुत्र बलवान
				7/2	निजी	कृषि	2-1	1037.013	श्रीमति देवती विधवा, श्रीमति कमला, निर्मल, बीना, सुनीता पुत्रीया सूरजमान, सुरेश कुमार, विजयकुमार, हरी ओम पुत्रीया सूरजमान
				14/1	निजी	कृषि	1-18	961.134	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				14/2	निजी	कृषि	2-14	1365.822	श्रीमति रेवती विद्या, श्रीमति कमला, निर्मला, रंजना, सुनीता पुत्री सुरजमान, सुरेशकुमार, विजय कुमार, हरीओम पुत्रान सुरज मान, कब्जा श्रीमति कमलेश, रामचन्द्र, इकदार सामन्त
				17/1	निजी	कृषि	2-14	1365.822	
				17/2	निजी	कृषि	1-4	607.032	श्रीमति रेवती विद्या, श्रीमति कमला, निर्मला, रंजना, सुनीता पुत्री सुरजमान, सुरेश कुमार, विजयकुमार, हरी ओम पुत्रीयान सुरजमान
				24/1	निजी	कृषि	1-10	758.79	
				24/2	निजी	कृषि	2-17	1441.701	
				90//					
				3	निजी	कृषि	1-16	910.548	विजय कुमार, सुरेश कुमार, हरी ओम पुत्रान सुरज मान
				4/1	निजी	कृषि	0-14	480.567	श्रीमति रेवती विद्या, श्रीमति कमला, निर्मला, रंजना, सुनीता पुत्री सुरजमान, सुरेशकुमार, विजय कुमार, हरीओम पुत्रान सुरज मान, कब्जा श्रीमति कमलेश, रामचन्द्र, इकदार सामन्त
				4/2/1	निजी	कृषि	1-5	632.325	श्रीमति सन्तरा विद्या, रनवीर, सतवीर पुत्रान किरदार
				4/2/2	निजी	कृषि	0-13	328.809	चन्द्रराम-दोरिया-धर्मवीर-राजवीर पुत्र - श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी चतर सिंह पुत्रान बुनी लाल ईतकाल 1908-4685-4704
				7	निजी	कृषि	2-18	1416.408	विजय कुमार, सुरेश कुमार, हरी ओम पुत्रान सुरज मान कब्जा हरीशिया पुत्र होर
				5	निजी	कृषि	1-14	659.962	विजय कुमार, सुरेश कुमार, हरी ओम पुत्रान सुरजमान
				13	निजी	कृषि	1-6	708.204	
				14	निजी	कृषि	2-9	1239.357	प्रकाश, खजान, कपूर, महावीर, गजोसिंह पुत्रान पूरन, अतर सिंह, सुरजमान पुत्र रापरिह
				17	निजी	कृषि	2-3	1087.599	
				18	निजी	कृषि	1-2	556.446	विजय कुमार, सुरेश कुमार, हरी ओम पुत्रान सुरजमान
				509	पंचायत	पथ	0-2	50.586	ग्राम पंचायत
				23	निजी	कृषि		480.567	विजय कुमार, सुरेश कुमार, हरी ओम पुत्रान सुरजमान
				24	निजी	कृषि		892.911	श्रीमति पार्वती, कलावती, धर्मसिंह पुत्रान मुलिया जिले सिंह, केशी राम पुत्रान प्यारेलाल
				112//					
				3	निजी	कृषि	1-12	809.376	विजय कुमार, सुरेश कुमार, हरी ओम पुत्रान सुरजमान
				4/1	निजी	कृषि	0-13	328.809	श्रीमति पार्वती, कलावती, धर्मसिंह पुत्रान मुलिया, जिले सिंह, केशी राम पुत्रान प्यारेलाल
				4/2	निजी	कृषि	0-13	328.809	रामचन्द्र, लक्ष्मीनारायण पुत्र हरगोपाल, श्रीमति कलावती, पार्वती पुत्री हरगोपाल, श्रीमति अरावती विद्या, बल्की प्रेमलता, विद्या देवी पुत्रीया लक्ष्मीकान्त, भूषसिंह रामोत्तर, महावीर पुत्रान सागोनारायण, जिले सिंह पुत्र प्यारेलाल
				11	पंचायत	पथ	0-2	50.586	ग्राम पंचायत
				12	निजी	कृषि	0-10	252.93	श्रीमति शान्ति विद्या, कंवर सिंह, तेजसिंह, रमेश, सुखीराम, कृष्ण पुत्रान जगसम, श्रीमति मायादेवी विद्या शुभमा, मनीषा, आरती पुत्रीया व मुकेश पुत्रान मानसिंह, बौदन सिंह पुत्र लोकसम
				13	निजी	कृषि	1-2	556.446	
				14	निजी	कृषि	1-15	885.255	जोतसिंह, राजसिंह, रामकंवर, जगवीर, सुखवीर पुत्रान हजारी
				13/1	निजी	कृषि	1-10	758.79	बलवान पुत्र जुगलाल
				13/2	निजी	कृषि	2-4	1112.692	जागे, बौदन पुत्र लोकसम
				18	निजी	कृषि	2-12	1315.236	श्रीमति शान्ति विद्या, कंवर सिंह, तेजसिंह, रमेश, सुखीराम, कृष्ण पुत्रान जगसम, श्रीमति मायादेवी विद्या शुभमा, मनीषा, आरती पुत्रीया व मुकेश पुत्रान मानसिंह, बौदन सिंह पुत्र लोकसम
				19	निजी	कृषि	1-14	859.962	बलवान पुत्र जुगलाल
				22	निजी	कृषि	1-10	758.79	जिले सिंह पुत्र प्यारेलाल
				23	निजी	कृषि	2-18	1466.994	श्रीमति शान्ति विद्या, कंवर सिंह, तेजसिंह, रमेश, सुखीराम, कृष्ण पुत्रान जगसम, श्रीमति मायादेवी विद्या शुभमा, मनीषा, आरती पुत्रीया व मुकेश पुत्रान मानसिंह, बौदन सिंह पुत्र लोकसम
				113//					
				1	निजी	कृषि	0-18	455.274	केशी पुत्रान प्यारेलाल, राय सिंह, जयभगवान, राम निवास पुत्र केशी
				3	निजी	कृषि	3-3	1593.459	श्रीमति शान्ति विद्या, कंवर सिंह, तेजसिंह, रमेश, सुखीराम, कृष्ण पुत्रान जगसम, श्रीमति मायादेवी विद्या शुभमा, मनीषा, आरती पुत्रीया व मुकेश पुत्रान मानसिंह, बौदन सिंह पुत्र लोकसम
				8	निजी	कृषि	1-14	859.962	
				9/1	निजी	कृषि	1-8	708.204	
				9/2	निजी	कृषि	0-12	303.516	धर्मचन्द्र पुत्रान मुलिया, रामकंवर, जयसिंह, जगवीर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				12/1	निजी	कृषि	0-18	455.274	मुकेश पुत्रान धर्मचन्द
				12/2	निजी	कृषि	1-7	682.911	श्रीमति कान्ति विद्या कवर सिंह, लजेश सिंह, रमेश सुधीराम, कृष्ण पुत्रान जगराम, श्रीमति मायादेवी विद्या सुभभा, मनीषा, आरती पुत्रीया व मुकेश पुत्रान मानसिंह, बोदन सिंह पुत्र लोकराम
				12/3	निजी	कृषि	0-19	480.567	राजेश कुमार पुत्रान रूपसिंह, इण्डियन जॉयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बान्ना ईस्ट मुंबई
				13/1	निजी	कृषि	0-5	126.465	श्रीमति कान्ति विद्या, कवर सिंह, राजेश सिंह, रमेश सुधीराम, कृष्ण पुत्रान जगराम, श्रीमति मायादेवी विद्या सुभभा, मनीषा, आरती पुत्रीया व मुकेश पुत्रान मानसिंह, बोदन सिंह पुत्र लोकराम
				511	पंचायत	पथ	0-3	75.879	ग्राम पंचायत
				465	पंचायत	पथ	0-4	101.172	ग्राम पंचायत
				19/1	निजी	कृषि	1-11	784.083	राजेश कुमार पुत्रान रूपसिंह, इण्डियन जॉयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बान्ना ईस्ट मुंबई
				19/2	निजी	कृषि	0-18	455.274	
				19/3	निजी	कृषि	1-0	505.86	धर्मचन्द पुत्रान मुतेया, रामफल, जयसिंह, जगदीश, मुकेश पुत्रान धर्मचन्द
				21	निजी	कृषि	1-2	556.446	जितेंद्र सिंह पुत्र रामराव सिंह
				22	निजी	कृषि	2-16	1416.408	रमेश कुमार, रघुवीर सिंह, ओमप्रकाश, दयानन्द पुत्रान किशन चन्द
				131//					
				1	निजी	कृषि	0-7	177.051	जितेंद्र सिंह पुत्र रामराव सिंह
				2	निजी	कृषि	1-3	581.739	रमेश कुमार, रघुवीर सिंह, ओमप्रकाश, दयानन्द पुत्रान किशन चन्द
				466	पंचायत	पथ	0-4	101.172	ग्राम पंचायत
				174	पंचायत	सड़क	17-18	9054.894	सामन्तात खेबट नं० 880/700
					गाँव का कुल जोड़		191-14	96973.362	
	(6) रायपुर			2//					
	ह.ब.न. 236			22	निजी	सिंचित	0-3	75.879	ओमप्रकाश-हरिचन्द पुत्रान व मुकेश-परीक्षा पुत्रीयान उमेश सिंह, मन्दीर सिंह पुत्र जगन, आनन्द-अनूप पुत्रान मन्दीर
				13//					
				2/1	निजी	सिंचित	0-5	126.465	
				2/2	निजी	सिंचित	0-8	202.344	रूप सिंह पुत्र चन्दगी
				9/1	निजी	सिंचित	0-14	354.102	रूप सिंह पुत्र चन्दगी
				12/2	निजी	सिंचित	0-13	326.809	राजेंद्र पुत्र राम सिंह
				20	निजी	सिंचित	0-18	455.274	राजेंद्र पुत्र राम सिंह
				21	निजी	सिंचित	1-4	607.032	राजेंद्र पुत्र राम सिंह
				14//					
				1	निजी	सिंचित	0-5	126.465	श्रीलाल पुत्र राम सिंह
				10/1	निजी	सिंचित	0-7	177.051	श्रीलाल पुत्र राम सिंह
				10/2	सरकारी	नहर	0-4	101.172	हरियाणा सरकार लोक निर्माण
				10/3	निजी	सिंचित	0-2	50.506	श्रीलाल पुत्र राम सिंह
				11/1	निजी	सिंचित	0-14	354.102	श्रीलाल पुत्र राम सिंह
				20	निजी	सिंचित	0-12	303.516	रतिसराम पुत्र शिवलाल
				21	निजी	सिंचित	0-11	278.223	रतिसराम पुत्र शिवलाल
				24//					
				6	निजी	सिंचित	0-0	0	धर्मवीर-धर्मचन्द पुत्रान सुखवीर सिंह
				25//					
				1	निजी	सिंचित	0-5	126.465	श्रीमती अपराजिता पारिल पत्नी श्री 00 के 000
					गाँव का कुल जोड़		7-5	3667.485	
	(7) गंजाघाट			18//					
	ह.ब.न. 260			14	निजी	सिंचित	0-5	126.465	सन्तोष विद्या शिव कुमार, रूप सिंह-धर्मचन्द पुत्रान व सुशीला-शशी-मन्दीर पुत्रीयान महेंद्र सिंह हिन्दुस्थान वायान ओमप्रकाश-धर्मवीर पुत्रान बखतावर, बखतावर-छात्री पुत्रान श्याम, सुरेंद्र-आनन्द पुत्रान मंगे
				47	निजी	सिंचित	1-10	758.79	श्रीमन्मन् -जयभगवान-समुद्र-फिल्म भगवान-मंगे -जयपाल पुत्रान नरसुराम
				144	निजी	सिंचित	1-1	531.153	पुष्पी पुत्र जीवन ग्राम सिलानी पर भीकडी
				267	सरकारी	खाद	0-7	177.051	श्रीचन्द पुत्र जगराम
				381	पंचायत	रास्ता	0-2	50.586	ग्राम पंचायत
				35//					
				4	निजी	सिंचित	1-0	505.86	रामगोपाल-श्रीगोपाल-विजयपाल पुत्रान निहाल सिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
				7/1	निजी	सिधित	1-0	505.86	
				14/2/2	निजी	सिधित	0-15	379.395	ओमप्रकाश उर्खे सुरेन्द्र सिंह-बुर्कर सिंह-सतपाल-रिधपाल-पन्दरी यायाव रामगोपाल-श्रीगोपाल-विजयपाल पुत्रान निहाल सिंह श्री महन्त बर्मराज गिरी, शिवा महन्त आत्मानन्द गिरी व सरोज पुत्री महन्त बर्मराज गिरी
				17	निजी	सिधित	0-9	227.637	रामगोपाल-श्रीगोपाल-विजयपाल पुत्रान निहाल सिंह
				23/1	निजी	सिधित	0-0	0	मगवानदास -जदाकितान -ओमप्रकाश पुत्रान पारसुराम कर्मवीर पुत्र रामकवार, संदीप पुत्र मगवानदास जितेन्द्र-सुरेन्द्र पुत्रान रामकितान
				38/1					
				13	निजी	सिधित	0-0	0	रामबैर -राजवीर हिस्सेदारान यायान विजय -सुरेन्द्र-हरिओम पुत्रान सुरजमान
				18	निजी	सिधित	0-10	252.93	
				23	निजी	सिधित	0-8	151.758	
				53/1					
				13/1	निजी	सिधित	0-2	50.586	ओमप्रकाश पुत्र शिवलाल राहनान सुपू पुत्र लोका युक्तिपु पुत्र मगवान पुत्रान
				13/2	निजी	सिधित	0-3	75.879	विजय -सुरेन्द्र-हरिओम पुत्रान सुरजमान
				18	निजी	सिधित	0-14	354.102	विजय-सुरेन्द्र-हरिओम पुत्रान सुरजमान
				23	निजी	सिधित	0-16	404.688	ओमप्रकाश पुत्र शिवलाल
				54/1					
				3	निजी	सिधित	0-5	125.465	मया देवी विद्या व कमलेश पुत्री व राजेश-बर्मपाल पुत्रान पीर सिंह, कर्ण सिंह-छत्र सिंह पुत्रान जयलाल
				8	निजी	सिधित	0-2	50.506	
				12/2	निजी	सिधित	0-6	151.758	सुरेन्द्र सिंह हिरसेदार याया बर्मपाल पुत्र हसतम
				19	निजी	सिधित	0-3	75.879	जयनारायण-सुरेन्द्र सिंह पुत्रान जयलाल
				गण्ड का कुल जोड़			9-16	4967.428	
				(म) खरब-ग					
				ह.ब.न. 237	6/1				
				1	निजी	सिधित	1-3	581.74	श्रीमती मल्की देवी विद्या व दयाराम -महा सिंह -नवल सिंह -कृष्ण -सतपाल पुत्रान व मया देवी -दयावती -श्यामवती -रमेश देवी पुत्रीयान जोहरी, प्रभाती पुत्र गोती हुजूमण्ड पुत्र हरसराय
				2	निजी	बजर भूमि	1-10	758.79	
				9/1	निजी	सिधित	0-17	429.96	
				9/3	निजी	सिधित	1-2	556.45	
				10/1	निजी	बजर भूमि	0-15	379.40	
				10/3	निजी	बजर भूमि	0-3	75.08	
				11	निजी	बजर भूमि	1-2	556.45	
				12/1	निजी	बजर भूमि	2-18	1466.99	
				19	निजी	सिधित	2-16	1416.41	
				20	निजी	सिधित	1-0	505.86	
				21	निजी	सिधित	1-0	505.86	उमेश सिंह-इन्द्राज-ईश्वर-जगत सिंह-प्रताप पुत्रान हीरू पुत्र मोला
				22	निजी	सिधित	2-2	1062.31	
				26	निजी	दामशाला	0-16	404.69	जहाशीका खेजट नं 2 -राम प्रताप खेजट नं 9 -गुणन खेजट नं 14 -रामानन्द बंगाम -श्रीमती रम्या देवी विद्या -राम निवास -सतपाल -सतीप -विनोद पुत्रान रामानन्द -श्रीमती चमपा देवी विद्या -सुनील -स-नी पुत्रान श्रीमती रिकेश पुत्री राजेन्द्र -मामराज -जोहरी -प्रभाती पुत्रान मोती -हुस्न पुत्र हरसराय अदि
				7/1					
				15	निजी	सिधित	1-16	910.55	उमेश सिंह-इन्द्राज-ईश्वर-जगत सिंह- प्रताप पुत्रान हीरू पुत्र मोला
				16	निजी	सिधित	2-0	1011.72	गणेशी -बिहारी -वप सिंह पुत्रान मुलनीया पुत्र खुबी
				25	निजी	सिधित	2-0	1011.72	
				8/1					
				1/1	निजी	सिधित	1-4	607.03	उमेश सिंह-इन्द्राज-ईश्वर-जगत सिंह- प्रताप पुत्रान हीरू पुत्र मोला
				1/2	निजी	सिधित	2-18	1466.99	
				2	निजी	सिधित	0-2	50.59	
				10/1	निजी	सिधित	3-0	1517.58	
				10/2	निजी	सिधित	1-10	758.79	
				11	निजी	सिधित	3-0	1517.58	
				20	निजी	सिधित	3-0	1517.58	गणेशी -शिहारी -वप सिंह पुत्रान भुजनीया पुत्र खुबी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				21	निजी	सिंचित	2-18	1466.99	
				14//					
				1	निजी	सिंचित	2-4	1112.89	
				10	निजी	सिंचित	1-14	859.96	हरि किशन पुत्र मामन, हेमराज पुत्र पृथी अमर सिंह पुत्र मोहरीया, सन्तोष पुत्र दयाकिशन
				11	निजी	सिंचित	0-14	354.10	
				20	निजी	सिंचित	0-0	0.00	मणेशी -बिहारी -घन सिंह पुत्रान भुलनीया पुत्र खुबी
				15//					
				5	निजी	सिंचित	2-0	1011.72	मणेशी -बिहारी -घन सिंह पुत्रान भुलनीया पुत्र खुबी सन्तोष पुत्र दयाकिशन
				6/1	निजी	सिंचित	1-4	607.03	हरि किशन पुत्र मामन, हेमराज पुत्र पृथी, अमर सिंह पुत्र मोहरीया, सन्तोष पुत्र दयाकिशन
				6/2	निजी	सिंचित	2-1	1037.01	
				15/1	निजी	सिंचित	2-8	1214.06	
				15/2	निजी	सिंचित	2-2	1062.31	
				16/1	निजी	सिंचित	2-12	1315.24	मणेशी -बिहारी -घन सिंह पुत्रान भुलनीया पुत्र खुबी
				16/2	निजी	सिंचित	2-7	1188.77	
				24	निजी	सिंचित	2-4	1112.89	
				25	निजी	सिंचित	2-12	1315.24	
				16//					
				4/1	निजी	सिंचित	1-6	657.62	
				4/2	निजी	सिंचित	1-0	505.86	
				5	निजी	सिंचित	2-13	1340.53	
				6	निजी	सिंचित	2-17	1441.70	रतन -दयाकिशन-रामकिशन पुत्रान लायका -होशियार सिंह पुत्र लखी -श्रीमती विडिया विद्या व श्रीमती सावत्री पुत्री पुरन
				7	निजी	सिंचित	2-6	1163.48	रतन -दयाकिशन-रामकिशन पुत्रान लायका -होशियार सिंह पुत्र लखी -श्रीमती विडिया विद्या व श्रीमती सावत्री पुत्री पुरन
				14/1	निजी	सिंचित	2-4	1112.89	रतन -दयाकिशन-रामकिशन पुत्रान लायका -होशियार सिंह पुत्र लखी -श्रीमती विडिया विद्या व श्रीमती सावत्री पुत्री पुरन
				14/2	निजी	सिंचित	2-8	1214.06	रतन -दयाकिशन-रामकिशन पुत्रान लायका -होशियार सिंह पुत्र लखी -श्रीमती विडिया विद्या व श्रीमती सावत्री पुत्री पुरन
				15	निजी	सिंचित	0-14	354.10	रतन -दयाकिशन-रामकिशन पुत्रान लायका -होशियार सिंह पुत्र लखी -श्रीमती विडिया विद्या व श्रीमती सावत्री पुत्री पुरन
				17	निजी	सिंचित	3-4	1618.75	राम सिंह पुत्र धर्म सिंह, शीशराम पुत्र रामचन्द्र, दुलीधन्य पुत्र बोहदुमल
				18	निजी	सिंचित	2-1	1037.01	बलवान पुत्र सुमेर सिंह
				23	निजी	सिंचित	2-1	1037.01	बलवान पुत्र सुमेर सिंह
				24/1	निजी	सिंचित	1-3	581.74	राम सिंह पुत्र धर्म सिंह, शीशराम पुत्र रामचन्द्र, दुलीधन्य पुत्र बोहदुमल
				24/2	निजी	सिंचित	2-1	1037.01	राम सिंह पुत्र धर्म सिंह -शीश राम पुत्र राम चन्द्र
				23//					
				3	निजी	सिंचित	2-2	1062.31	बलवान पुत्र सुमेर सिंह
				4	निजी	सिंचित	3-4	1618.75	राम सिंह पुत्र धर्म सिंह, शीशराम पुत्र रामचन्द्र
				7	निजी	सिंचित	3-3	1593.46	विमन पुत्र उदमी, फूलपति विद्या अनन्तराम पुत्र ईशराम, मंगल-भरता पुत्रान कालिया, शीशराम पुत्र रामचन्द्र, जगराम-बदलू पुत्रान घमनलाल
				8	निजी	सिंचित	2-2	1062.31	राजबीर पुत्र मूलक सिंह, विमन पुत्र उदमी, भरता पुत्र कालिया, बलवान पुत्र सुमेर सिंह, प्रयाल सिंह-महेन्द्र पुत्रान फते सिंह, त्चबीर पुत्र लरत, राजपाल-महाबीर-सुरेन्द्र पुत्रान प्रयाल
				12	पंचायत	सिंचित	2-2	1062.31	ग्राम पंचायत- द्वारका प्रसाद पुत्र चन्धमान, बिशनदेई, विशम्भरी पुत्रीयान रामलधमन, शिववरण, रविदत्त पुत्रान
				13	पंचायत	सिंचित	3-1	1542.87	विमन पुत्र उदमी, फूलपति विद्या अनन्तराम पुत्र ईशराम, मंगल-भरता पुत्रान कालिया, शीशराम पुत्र रामचन्द्र, जगराम-बदलू पुत्रान घमनलाल
				14	निजी	सिंचित	0-0	0.00	विमन पुत्र उदमी, फूलपति विद्या अनन्तराम पुत्र ईशराम, मंगल-भरता पुत्रान कालिया, शीशराम पुत्र रामचन्द्र, जगराम-बदलू पुत्रान घमनलाल
				18	पंचायत	सिंचित	3-5	1644.05	ग्राम पंचायत- द्वारका प्रसाद पुत्र चन्धमान, बिशनदेई, विशम्भरी पुत्रीयान रामलधमन, शिववरण, रविदत्त पुत्रान
				19	पंचायत	सिंचित	2-0	1011.72	जाला प्रसाद गौ गौ कारतकार जमीधन्य पुत्र बदलू, चरण पुत्र रामकरण, गोम्हन पुत्र झानी गौगौ
				22/1	पंचायत	सिंचित	0-9	227.64	
				22/2	पंचायत	सिंचित	2-2	556.45	
				22/3	निजी	धर्मशाला	0-11	278.22	धर्मशाला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				23/1	पंचायत	असिचित	3-6	1669.34	ग्राम पंचायत— द्वारका प्रसाद पुत्र चन्द्रमान, बिसनदेई, बिसनभरी पुत्रीयान रामलछमन, शिवचरण, रविदत्त पुत्रान ज्वाला प्रसाद गौ मी० काशतकार अमीचन्द पुत्र बदलू, चरण पुत्र रामकरण, गोस्वाम पुत्र ज्ञानी गौमी०
				24//					
				2/1	पंचायत	सिचित	1-5	632.33	ग्राम पंचायत— द्वारका प्रसाद पुत्र चन्द्रमान, बिसनदेई, बिसनभरी पुत्रीयान रामलछमन, शिवचरण, रविदत्त पुत्रान ज्वाला प्रसाद गौ मी० काशतकार अमीचन्द पुत्र बदलू, चरण पुत्र रामकरण, गोस्वाम पुत्र ज्ञानी गौमी०
				2/2/2	निजी	घर	2-10	1264.65	श्रीमी कान्तबाई विधवा व कृष्ण पुत्री व कर्ण सिंह—खडक सिंह—साहब सिंह—शंकर सिंह—श्यामलाल—रणधीर पुत्रान गोस्वाम, श्रीमती पारवती—छोटो पुत्रीयान व अमीचन्द—छतर सिंह पुत्रान बल्लू, चरण सिंह—फूल सिंह पुत्रान रामस्वरूप
				3/2	निजी	सिचित	0-4	101.17	
				9	निजी	सिचित	1-8	708.20	
				39	पंचायत	रास्ता	0-11	278.22	ग्राम पंचायत
				गाँव का कुल जोड़			122-17	62144.90	
			(9) ददनपुर ह. व. न० 238	15//					
				16	पंचायत	बजर भूमि	0-0	0 00	ग्राम पंचायत
				25	पंचायत	बजर भूमि	1-0	505.86	ग्राम पंचायत—रतिया पुत्र नानहड गौ मी०
				16//					
				9	निजी	कृषि	1-16	910.55	राम किशन, सुभाषचन्द, श्री भगवान पुत्रान प्यारे लाल
				11	सरकारी	मैदान	0-7	177.05	सरकारी स्कूल ददनपुर
				119	सरकारी	स्कूल	3-0	1517.58	सरकारी स्कूल ददनपुर
				12	निजी	कृषि	3-6	1669.34	राम किशन, सुभाषचन्द, श्री भगवान पुत्रान प्यारे लाल
				19/2	निजी	कृषि	0-15	379.40	दयाराम, महावीर, जयसिंह पुत्रान श्रीमति विमला पुत्री घानसिंह, कृष्ण पुत्रान सरदार, भूपसिंह पुत्र अमीताल, अतरसिंह पुत्र दीपचन्द, प्रमोद कुमार पुत्र नवलसिंह, रामफल पुत्र निहाल सिंह
				20/1	निजी	कृषि	2-13	1340.53	
				20/2/1	निजी	कृषि	1-7	682.91	दिकान सिंह, साहब सिंह, शमशेर सिंह पुत्रान धर्म सिंह
				20/2/2	निजी	प्लॉट	0-2	50.59	धर्मपाल पुत्र बदलू
				20/2/3	निजी	प्लॉट	0-2	50.59	ताराचन्द पुत्र बपलू
				20/2/4	निजी	प्लॉट	0-3	75.88	सन्तराम पुत्र मंगलदास
				21/1	पंचायत	बजर भूमि	0-14	354.10	ग्राम पंचायत
				21/2/1	निजी	कृषि	3-0	1517.58	दयाराम, महावीर, जयसिंह पुत्रान श्रीमति विमला पुत्री घानसिंह, कृष्ण पुत्रान सरदार, भूपसिंह पुत्र अमीताल, अतरसिंह पुत्र दीपचन्द, प्रमोद कुमार पुत्र नवलसिंह, रामफल पुत्र निहाल सिंह
				21/2/2	निजी	कृषि	0-8	202.34	श्रीमती सुमित्रा देवी विधवा, सतयनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सतयनारायण पुत्र हरचन्द
				19//					
				1/1	निजी	कृषि	0-4	101.17	श्रीमति मेमवती विधवा श्यामलाल
				1/2	निजी	कृषि	2-19	1492.29	श्रीमती सुमित्रा देवी विधवा, सतयनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सतयनारायण पुत्र हरचन्द
				10/2/1	निजी	कृषि	0-0	0 00	श्री कृष्ण पुत्र मनफूलसिंह
				10/2/2	निजी	कृषि	1-4	607.03	श्रीमती सुमित्रा देवी विधवा, सतयनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सतयनारायण पुत्र हरचन्द
				20//					
				5	पंचायत	कृषि	2-1	1037.01	ग्राम पंचायत रतिया पुत्र नानहड गौ मी०
				6/1	निजी	कृषि	2-2	1062.31	श्रीमती सुमित्रा देवी विधवा, सतयनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सतयनारायण पुत्र हरचन्द
				6/2	पंचायत	कृषि	2-3	1067.60	ग्राम पंचायत—रतिया पुत्र नानहड गौ मी०
				14/1	पंचायत	बजर भूमि	0-10	252.93	ग्राम पंचायत, रोहतास, कुन्दन पुत्रान प्रवी महेन्द पुत्र बजे सिंह सिकसन पत्र अर्जन, हट्टी पुत्र अर्जन गौ मी०

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				14/3	पंचायत	कृषि	0-17	429.98	ग्राम पंचायत, रोहतास, कुन्दन पुत्रान पुष्पी महेंद्र पुत्र ब्रजे सिंह सिक्कन पुत्र अर्जन, हटटी पुत्र अर्जन गै० मी०
				15/1	पंचायत	कृषि	0-10	252.93	ग्राम पंचायत, फुल सिंह पुत्र धमन गै० मी०
				15/3	पंचायत	कृषि	1-12	809.38	ग्राम पंचायत, जाने पुत्र धमन गै० मी०
				16	निजी	कृषि	2-16	1416.41	श्रीमति सुमित्रा देवी विद्या, सन्तानारायण पुत्र हरचन्द्र, श्रीमति दर्शन पतनी सन्तानारायण, राजेश, मुकेश पुत्र रामधन
				17/2	पंचायत	कृषि	2-14	1365.82	ग्राम पंचायत, रतिया, देवदत्त, बलबीर पुत्र लागहड गै० मी०
				23	निजी	कृषि	1-8	708.20	रामअवतार, कुणालाल, श्रीमगवान, रत्नवीरसिंह पुत्र दशराम, श्रीमति रामरती विद्या, श्रीमती कस्तूरी देवी पुत्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र सयोनारायण, श्रीमति सुनीता विद्या, रत्न पुत्री, पवन पुत्र सतबीर, राममहेश, राजेन्द्र पुत्रान बलदर, बलबीर, सरूप सिंह, सुभाष, गोपाल सिंह पुत्रान देव दत्त, अतर सिंह, जवाहर सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान हुकम सिंह
				24	निजी	कृषि	3-15	1896.98	
				25	निजी	कृषि	1-6	657.62	
				27	निजी	कुआ	0-1	25.29	
				32/1					
				6	निजी	कृषि	0-5	126.47	रणधीर, राममहेश, हन्सराम, कुष्ण कुमार पुत्रान सरदार, श्रीमति कमलेश विद्या, श्रीमति मनिता, ललिता पुत्रीयान अजीत, चन्द्रशश पुत्रान अजीत, भूपसिंह, कंचलसिंह, मदनसिंह, रोहतास पुत्र होशियार
				464 शिन	पंचायत	रास्ता	0-14	354.10	ग्राम पंचायत
				13	निजी	कृषि	0-0	0.00	धनपाल सिंह पुत्र रतिया
				14	निजी	कृषि	2-3	1087.60	धनपाल सिंह पुत्र रतिया
				26	निजी	कुआ	0-13	328.81	अतर सिंह, रमेश, जसवीर, विजयपाल, महेंद्र सिंह, पुत्रान दीपचन्द्र, रामबीर, राजवीर, राजपाल पुत्रान हुकमचन्द्र, रणधीर, राममहेश, हन्सराम, कुष्ण कुमार पुत्रान सरदार, कमलेश विद्या, मनिता, ललिता पुत्रीया अजीत, चन्द्रशश पुत्रान अजीत भूपसिंह, कंचल सिंह, मदन सिंह, रोहतास पुत्रान होशियार सिंह, श्रीमति सुमित्रा देवी विद्या, सन्तानारायण पुत्रान हरचन्द्र दर्शन पतनी हरचन्द्र श्रीमति पन्नेश्वरी, श्रीमति कुष्णा, कलावती विद्या हरीप्रकाश, आनन्द पुत्रान साधू राम, रामचन्द्र पुत्रान धम्पा, सरस्वती पुत्रीया खामलाल, देवप्रकाश पुत्रान रामानन्द, सुधन पुत्रान दशराम, इन्दराम पुत्रान केहरी, श्रीमति अघनी देवी विद्या, परसराम पुत्रान घडराम, अंगूरी देवी, सन्तान देवी पुत्रीया देवकीचन्द्र, दशराम, हरीसिंह आदि 50 खे० न० 208 धनपाल आदि 50 खे० न० 204
				15	निजी	कृषि	6-0	3035.15	रणधीर, राममहेश, हन्सराम, कुष्ण कुमार पुत्रान सरदार, श्रीमति कमलेश विद्या, श्रीमति मनिता, ललिता पुत्रीयान अजीत, चन्द्रशश पुत्रान अजीत भूपसिंह, कंचल सिंह, मदन सिंह, रोहतास पुत्रान होशियार सिंह, श्रीमति सुमित्रा देवी विद्या, सन्तानारायण पुत्रान हरचन्द्र दर्शन पतनी हरचन्द्र श्रीमति पन्नेश्वरी, श्रीमति कुष्णा, कलावती विद्या हरीप्रकाश, आनन्द पुत्रान साधू राम, रामचन्द्र पुत्रान धम्पा, सरस्वती पुत्रीया खामलाल, देवप्रकाश पुत्रान रामानन्द, सुधन पुत्रान दशराम, इन्दराम पुत्रान केहरी, श्रीमति अघनी देवी विद्या, परसराम पुत्रान घडराम, अंगूरी देवी, सन्तान देवी पुत्रीया देवकीचन्द्र, दशराम, हरीसिंह आदि 50 खे० न० 208 धनपाल आदि 50 खे० न० 204
				16/2	निजी	कृषि	1-4	607.03	
				17	पंचायत	कृषि	3-5	1644.05	ग्राम पंचायत, रामसरूप पुत्र दाताराम, धनपाल पुत्र रतिया दोहलीधरान
				18/1	निजी	कृषि	1-13	834.67	धनपाल सिंह पुत्र रतिया
				139	पंचायत	सड़क	2-18	1466.99	ग्राम पंचायत
				18/2	निजी	कृषि	2-9	1239.36	
				19/1	निजी	कृषि	1-0	505.86	अतर सिंह, रमेश, जसवीर, विजय पाल, महेंद्र सिंह, पुत्रान दीपचन्द्र, राजवीर, रामबीर, राजपाल पुत्रान हुकम चन्द्र
				21	पंचायत	कृषि	0-4	101.17	ग्राम पंचायत -कोहरी, जुगली पुत्रान सरूप, बलबीर, रामचन्द्र पुत्र शोरा, छत्तर, अमीलाल, फुल पुत्रान सोहन गै० मी०
				22/1	पंचायत	कृषि	0-14	354.10	ग्राम पंचायत, भरती विद्या व टेरू चन्द्र, रतन सिंह, दलीप सिंह पुत्रान मजन गै० मी०
				22/2	निजी	कृषि	4-0	2023.44	अतर सिंह, रमेश, जसवीर, विजय पाल, महेंद्र सिंह, पुत्रान दीपचन्द्र, राजवीर, रामबीर, राजपाल पुत्रान हुकम चन्द्र
				83	आबादी	आबादी	7-5	3667.49	आबादी
				23	निजी	कृषि	2-16	1416.41	अतर सिंह, रमेश, जसवीर, विजय पाल, महेंद्र सिंह, पुत्रान दीपचन्द्र, राजवीर, रामबीर, राजपाल पुत्रान हुकम चन्द्र
				133	पंचायत	रास्ता	0-8	202.34	पंचायत
				437	निजी	कृषि	0-10	252.93	इन्दराम पुत्र केहरी
				33/1					
				2	निजी	कृषि	1-13	834.67	रामअवतार, कुणालाल, श्रीमगवान, रत्नवीरसिंह पुत्र दशराम, श्रीमति रामरती विद्या, श्रीमती कस्तूरी देवी पुत्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र सयोनारायण, श्रीमति सुनीता विद्या, रत्न पुत्री, पवन पुत्र सतबीर, राममहेश, राजेन्द्र
				3	निजी	कृषि	8-9	4274.52	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				8	निजी	कृषि	1-15	885.26	पुत्रान बलदेव, बलदेव, संतोष सिंह, सुभाष, गोपाल सिंह पुत्रान देव दत्त, अतर सिंह, जवाहर सिंह, सुरेन्द्र सिंह
				9	निजी	कृषि	6-15	3465.14	पुत्रान हुकम सिंह
				10/1	निजी	कृषि	2-7	1188.77	रामे सिंह पुत्र सहजराज, बलवान, चार, निमोन्दर पुत्रान रामेसिंह, श्रीमति रामरती विधा, प्रमती पुत्री धर्मसिंह राम निवास, सजीव, ओम प्रकाश पुत्रान धर्मसिंह
				10/2	निजी	कृषि	1-11	784.08	बलजीत, रामबीर पुत्रान जागेराम, श्रीमति भतेरी माता, कुलदीप पुत्रान जागेराम, श्रीमति दयावती विधा व जोगेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश, कमलेश पुत्री जगदीश, श्री मगवान, राजेन्द्र सिंह, सुनील दत्त पुत्रान जमेद सिंह
				11	निजी	कृषि	3-5	1644.05	रामसिंह पुत्रान सहजराज, बलवान सिंह, निमोन्द पुत्रान प्यार पुत्रान रामे सिंह, श्रीमति रामरती विधा, परमावती पुत्री धर्मसिंह, रामनिवास, सजीव, ओमप्रकाश पुत्रान धर्मसिंह, अजीत कोर पत्नी नरेन्द्र सिंह, कमलेश पत्नी रामेश्वर, श्रीमति मौसम पत्नी राजू, गीता पत्नी राजीव, बबीता पत्नी नाथ सिंह
				106	पंचायत	गैर कृषि	1-12	809.38	ग्राम पंचायत
				12	निजी	कृषि	0-5	126.47	बलजीत, रामबीर पुत्रान जागेराम, श्रीमति भतेरी माता, कुलदीप पुत्रान जागेराम, श्रीमति दयावती विधा व जोगेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश, कमलेश पुत्री जगदीश, श्री मगवान, राजेन्द्र सिंह, सुनील दत्त पुत्रान जमेद सिंह
				42/1					
				5	निजी	कृषि	2-10	1264.65	सुभाष चन्द - बलबीर सिंह पुत्रान शैव - कवल सिंह - गजे सिंह - राज सिंह - लक्ष्मी चन्द - मनसू - राम पुत्रान - श्रीमती भाता पुत्री छत्र सिंह - दयालन्द - सुभा सिंह - उदय सिंह - सुरज मान पुत्रान अमीलाल, श्रीमति रामा, लक्ष्मी नाहनी पुत्री अमीलाल
				127	पंचायत	तालाब	5-15	2908.70	ग्राम पंचायत
				6 फिन	निजी	कृषि	1-7	682.91	सुभाष चन्द - बलबीर सिंह पुत्रान शैव - कवल सिंह - गजे सिंह - राज सिंह - लक्ष्मी चन्द - मनसू - राम पुत्रान - श्रीमती भाता पुत्री छत्र सिंह - दयालन्द - सुभा सिंह - उदय सिंह - सुरज मान पुत्रान अमीलाल, श्रीमति रामा, लक्ष्मी नाहनी पुत्री अमीलाल
				6 फिन	निजी	कृषि	1-12	809.38	सुभाष चन्द - बलबीर सिंह पुत्रान शैव - कवल सिंह - गजे सिंह - राज सिंह - लक्ष्मी चन्द - मनसू - राम पुत्रान - श्रीमती भाता पुत्री छत्र सिंह - दयालन्द - सुभा सिंह - उदय सिंह - सुरज मान पुत्रान अमीलाल, श्रीमति रामा, लक्ष्मी नाहनी पुत्री अमीलाल
				123	पंचायत	गैर कृषि	9-8	4755.08	ग्राम पंचायत
				7	निजी	कृषि	0-12	303.52	सुभाष चन्द - बलबीर सिंह पुत्रान शैव - कवल सिंह - गजे सिंह - राज सिंह - लक्ष्मी चन्द - मनसू - राम पुत्रान - श्रीमती भाता पुत्री छत्र सिंह - दयालन्द - सुभा सिंह - उदय सिंह - सुरज मान पुत्रान अमीलाल, श्रीमति रामा, लक्ष्मी नाहनी पुत्री अमीलाल
				14	निजी	कृषि	3-16	1922.27	सुभाष चन्द - बलबीर सिंह पुत्रान शैव - कवल सिंह - गजे सिंह - राज सिंह - लक्ष्मी चन्द - मनसू - राम पुत्रान - श्रीमती भाता पुत्री छत्र सिंह - दयालन्द - सुभा सिंह - उदय सिंह - सुरज मान पुत्रान अमीलाल, श्रीमति रामा, लक्ष्मी नाहनी पुत्री अमीलाल
				17	निजी	कृषि	6-3	3111.04	सुभाष चन्द - बलबीर सिंह पुत्रान शैव - कवल सिंह - गजे सिंह - राज सिंह - लक्ष्मी चन्द - मनसू - राम पुत्रान - श्रीमती भाता पुत्री छत्र सिंह - दयालन्द - सुभा सिंह - उदय सिंह - सुरज मान पुत्रान अमीलाल, श्रीमति रामा, लक्ष्मी नाहनी पुत्री अमीलाल
				24/1	निजी	कृषि	3-16	1922.27	सुभाष चन्द - बलबीर सिंह पुत्रान शैव - कवल सिंह - गजे सिंह - राज सिंह - लक्ष्मी चन्द - मनसू - राम पुत्रान - श्रीमती भाता पुत्री छत्र सिंह - दयालन्द - सुभा सिंह - उदय सिंह - सुरज मान पुत्रान अमीलाल, श्रीमति रामा, लक्ष्मी नाहनी पुत्री अमीलाल
				143 फिन	पंचायत	सड़क	1-3	581.74	ग्राम पंचायत
				24/2/1	निजी	कृषि	1-10	758.79	करतार सिंह मुक्तायार सिंह, इन्दर सिंह, महेंद्र सिंह, श्याम, मगवान दास पुत्रान मगन सिंह, जुगलाल पुत्र छेजू
				24/2/2	निजी	कृषि	0-13	328.81	खजान सिंह, श्री किशन, सत्यनारायण पुत्रान मनफूल
				52/1					
				4/1	निजी	कृषि	1-11	784.08	महासिंह पुत्र जुगलाल
				4/2	निजी	कृषि	2-3	1087.60	करतार सिंह मुक्तायार सिंह, इन्दर सिंह, महेंद्र सिंह, श्याम, मगवान दास पुत्रान मगन सिंह, जुगलाल पुत्र छेजू
				4/3	निजी	कृषि	2-11	1289.94	खजान सिंह, श्री किशन, सत्यनारायण पुत्रान मनफूल
				4/4	निजी	कृषि	0-12	303.52	जयदेव, रामकिशन पुत्रान अमर राम
				6	निजी	कृषि	0-6	151.76	बलजीत, रामबीर पुत्रान जागेराम, श्रीमति भतेरी माता, कुलदीप पुत्रान जागेराम, श्रीमति दयावती विधा व जोगेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश, कमलेश पुत्री जगदीश, श्री मगवान, राजेन्द्र सिंह, सुनील दत्त पुत्रान जमेद सिंह
				7	निजी	कृषि	6-15	3414.56	जयदेव, रामकिशन पुत्रान अमर राम
				14/1	निजी	कृषि	0-19	480.57	करतार सिंह मुक्तायार सिंह, इन्दर सिंह, महेंद्र सिंह, श्याम, मगवान दास पुत्रान मगन सिंह, जुगलाल पुत्र छेजू
				14/2	निजी	कृषि	4-0	2023.44	खजान सिंह, श्री किशन, सत्यनारायण पुत्रान मनफूल
				15	निजी	कृषि	2-2	1062.31	समशेर सिंह, ओमप्रकाश, सत्यवान रामचंद्र कुपार पुत्रान रामभोहर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				16/1	निजी	कृषि	1-13	834.87	शिवर सिंह, लम सिंह पुत्र रामकृष्ण, हरवीर, जयवीर पुत्र रामगोविंद
				16/2	निजी	कृषि	2-15	1361.12	बलजीत, रामवीर पुत्र जगदीश, श्रीमति चंदेरी कपूर, सुन्दरीपुत्र पुत्र जगदीश, श्रीमति दयालकी कृष्ण, श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश, कमलेश पुत्री जगदीश, श्री भगवन्, राजेन्द्र सिंह, सुनील दत्त पुत्र राम उमेश सिंह
				17	निजी	कृषि	2-4	1112.89	रामवीर सिंह, ओमप्रकाश, सत्यकान, बर्नन कुंवर पुत्र राममोहर
				153	पंचायत	रास्ता	0-13	328.81	ग्राम पंचायत
				24	निजी	कृषि	0-3	75.88	राम सिंह पुत्र लखजय, धनजय, पारो, निरेश्वर पुत्र रामेश सिंह, श्रीमति रामरती कृष्ण, प्रमिल पुत्री बर्ननसिंह, राम निवास, सजीव, जोन प्रकाश पुत्र बर्ननसिंह
				25	निजी	कृषि	7-1	3566.31	साहेबपुत्र पुत्र राम सिंह
				83//					
				21	निजी	कृषि	0-4	101.17	बहादुर सिंह पुत्र राम सिंह
				62//					
				1	निजी	कृषि	2-12	1315.24	करवार सिंह पुत्रवार सिंह, इन्दर सिंह, लक्ष्मण सिंह, रवान, भगवन् दास पुत्र राम नानन सिंह, जुगलपुत्र पुत्र राम
				10/1	निजी	कृषि	5-1	2554.59	
				10/2	निजी	रास्ता	0-4	101.17	मानन पुत्र जुगलाल, खजान सिंह, श्री किरण, सतनारायण पुत्र ननकुल, जयदेव, रामकिशन पुत्र जयदेव, छोदे पुत्र जुगलाल, महासिंह पुत्र जुगलाल
				11/1	निजी	कृषि	0-16	404.89	खजान सिंह, श्री किरण, सतनारायण पुत्र ननकुल
				11/2	निजी	रास्ता	0-2	50.59	मानन पुत्र जुगलाल, खजान सिंह, श्री किरण, सतनारायण पुत्र ननकुल, जयदेव, रामकिशन पुत्र जयदेव, छोदे पुत्र जुगलाल, महासिंह पुत्र जुगलाल
				11/3	निजी	कृषि	4-16	2428.13	महासिंह पुत्र जुगल
				26	निजी	कुआ	1-1	531.15	मानन पुत्र जुगलाल, खजान सिंह, श्री किरण, सतनारायण पुत्र ननकुल, जयदेव, रामकिशन पुत्र जयदेव, छोदे पुत्र जुगलाल, महासिंह पुत्र जुगलाल
				12	निजी	कृषि	0-9	227.64	महासिंह पुत्र जुगल
				19	निजी	कृषि	2-18	1466.99	खजान सिंह, श्री किरण, सतनारायण पुत्र ननकुल
				20	निजी	कृषि	4-2	2074.03	जयदेव, रामकिशन पुत्र जय राम
				21	निजी	कृषि	1-18	961.13	छोदे पुत्र जुगलाल
				22	निजी	कृषि	3-18	1972.85	खजान सिंह, श्री किरण, सतनारायण पुत्र ननकुल
				63//					
				5	निजी	कृषि	4-12	2326.96	छोदे पुत्र जुगलाल
				6	निजी	कृषि	1-15	885.26	छोदे पुत्र जुगलाल
				15/1	निजी	कृषि	0-0	0.00	खजान सिंह, श्री किरण, सतनारायण पुत्र ननकुल
				71//					
				1/2	निजी	कृषि	0-12	303.52	महासिंह पुत्र जुगलाल
				2/1	निजी	कृषि	2-13	1340.53	महासिंह पुत्र जुगलाल
				2/2/1	निजी	रास्ता	0-0	0.00	श्रीमति सदाशैर कृष्ण, मृत्तमन्द, सुमिता देवी कृष्ण, व सत्यनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति परमेश्वरी पुत्री फूलचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सत्यनारायण, सतवीर सिंह, निरन्जन सिंह, रोनक सिंह पुत्र राम मंगे राम, श्रीमति जोगबती पत्नी सतवीर, श्रीमति चन्नी पत्नी निरन्जन, श्रीमति कमलेश पत्नी रोनक सिंह
				2/2/2/1	निजी	कृषि	0-1	25.29	श्रीमती सुमित्रा देवी कृष्ण, सत्यनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सत्यनारायण पुत्र हरचन्द
				2/2/2/2	निजी	कृषि	0-18	455.27	श्रीमती सुमित्रा देवी कृष्ण, सत्यनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सत्यनारायण, सतपाल पुत्र राम हरद्वारी लाल, सुत्तरी
				481	पंचायत	रास्ता	0-4	101.17	ग्राम पंचायत
				9/1	निजी	कृषि	1-3	581.74	श्रीमती सुमित्रा देवी कृष्ण, सत्यनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सत्यनारायण पुत्र हरचन्द
				9/2	निजी	कृषि	1-5	632.33	श्रीमती सुमित्रा देवी कृष्ण, सत्यनारायण पुत्र हरचन्द, श्रीमति दर्शना पत्नी सत्यनारायण पुत्र हरचन्द

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				1/2	निजी	बंजर भूमि	3-1	1542.87	महावीर, जय पाल, तेज सिंह, नरेश सिंह, जसवीर पुत्रान हरद्वारी
				10	निजी	बंजर भूमि	2-16	1416.41	
				276	पंचायत	रास्ता	0-5	126.47	ग्राम पंचायत
				11	निजी	कृषि	3-0	1517.58	सन्तल विद्या देवेन्द्र, जमिल पुत्रान व पिंकी मुखी
				20	निजी	कृषि	2-9	1239.36	रामकुमार, रतन, राज कुमार, सतवीर पुत्रान मुलिया
				21/1	निजी	प्लाट	0-3	75.88	रिसाल सिंह पुत्र गुजान
				21/2	पंचायत	रास्ता	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				21/3	निजी	प्लाट	0-0	0.00	महेन्द्र पुत्र हेर सिंह
				21/9	पंचायत	रास्ता	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				21/16	निजी	प्लाट	0-2	50.59	उमेश पुत्र रिछपाल
				21/17	निजी	प्लाट	0-3	75.88	प्रहलाद पुत्र रिछपाल
				21/18	निजी	प्लाट	0-3	75.88	प्रभु पुत्र मुन्गी
				21/19	निजी	प्लाट	0-2	50.59	हरी ओम पुत्र मुन्गी राम
				21/26	पंचायत	रास्ता	0-3	75.88	ग्राम पंचायत
				21/27	पंचायत	कृषि	0-10	252.93	ग्राम पंचायत जगन पुत्र मंगली गै० गौ०
				36//					
				1	पंचायत	बैंक	1-19	986.43	ग्राम पंचायत
				10	पंचायत	बैंक	2-19	1492.29	ग्राम पंचायत
				11	हरियाणा सरकार	स्कूल	3-3	1593.46	हरियाणा सरकार स्कूल
				20	पंचायत	कृषि	3-1	1542.87	ग्राम पंचायत नेकी पुत्र शादी गै० गौ०
				277	पंचायत	रास्ता	0-5	126.47	ग्राम पंचायत
				21/1	निजी	कृषि	1-5	632.33	आदी लाल, सतवीर, सुरेश, रमवीर, जगवीर पुत्रान राजे राम
				21/2	निजी	कृषि	0-9	227.64	दया राम, किरान पुत्रान लाल चन्द भगवानी विद्या व यशवन्ती अनीता पुत्रीयान कर्णसिंह, महावीर, सतवीर, मुकेश पुत्रान धर्म सिंह, राम फल, राम कंवर, पुत्र राम सिंह, ओम प्रकाश पुत्र भागे, समुन्दर, महादेव पुत्रान राम निवास, गोविन्दी पत्नी राजेन्द्र, महादेई पत्नी शिव कुमार
				21/3	निजी	कृषि	2-16	1416.41	राम करन, ओम प्रकाश पुत्रान लाली नारायण, सतीश कुमार, पुत्र हुकम चन्द, हरद्वारी, शिव कुमार, हरी ओम, आनन्द पुत्रान व दुर्गा पुत्री सुभाषन्द
				37//					
				5/1	निजी	कृषि	0-15	379.40	जय किरान, महावीर, राजेन्द्र, जुगल किरान, जयपाल, पुष्पायार, धर्मवीर पुत्रान ग्यानी
				5/2	पंचायत	बैंक	1-5	632.33	ग्राम पंचायत
				27	निजी	कृषि	1-14	859.96	किन्तोडी पुत्र पूरण पुत्र मोहन
				6/1	निजी	कृषि	0-17	429.98	राम नारायण, ओम प्रकाश पुत्रान रिछपाल, राज हरी, प्रदीप पुत्रान ईश्वर, ईन्दरज पुत्रान शिव लाल, राम सुभाष पुत्र हरी सिंह
				90	पंचायत	रास्ता	0-4	101.17	ग्राम पंचायत
				15/2	निजी	कृषि	1-6	657.62	आदी लाल, सतवीर, सुरेश, रमवीर, जगवीर पुत्र राजे राम
				16	निजी	कृषि	1-4	607.03	
				25/1	निजी	कृषि	0-2	50.59	
				48//					
				1/1	निजी	कृषि	1-9	733.50	दया राम, किरान पुत्रान लाल चन्द भगवानी विद्या व यशवन्ती अनीता पुत्रीयान कर्णसिंह, महावीर, सतवीर, मुकेश पुत्रान धर्म सिंह, राम फल, राम कंवर, पुत्र राम सिंह, ओम प्रकाश पुत्र भागे, समुन्दर, महादेव पुत्रान राम निवास, गोविन्दी पत्नी राजेन्द्र, महादेई पत्नी शिव कुमार
				1/2	निजी	बंजर भूमि	2-13	1340.53	जोदू पुत्र महा राम
				2	निजी	बंजर भूमि	0-8	202.34	जोदू पुत्र महा राम
				9	निजी	कृषि	3-4	1618.75	जगदीश पुत्र भगवान, किरान चन्द पुत्र सुरेश, सतवीर देवी विद्या बाबू लाल, राकेश, श्याम लाल, काम राज, अशोक, राजेश पुत्र आशा देवी पुत्रीया राम चन्द, धर्मवीर, राजवीर, सुरेश पुत्रान रामेश्वर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				10	निजी	कृषि	1-6	657.62	दया राम, किसान पुरान लाल चन्द मगनानी विधवा व यशवन्ती अनीता पुत्रीयान कर्णसिंह, महावीर, सतवीर, मुकेश पुरान धर्म सिंह, राम फल, राम कवर, पुत्र राम सिंह, ओम प्रकाश पुत्र मांगे, समुन्दर, महादेव पुरान राम निवास, गोविन्दी पत्नी सः नेन्द्र, महादेई पत्नी शिव कुमार
				11/1	निजी	कृषि	0-18	455.27	
				11/2	निजी	कृषि	0-13	328.81	सुखदे, मन्ना, रामेश्वर पुरान मांगे
				12	निजी	कृषि	3-4	1618.75	जगदीश पुत्र भगवान, किसान चन्द पुत्र सुरजे, सन्तोषी देवी विधवा बाबू लाल, राकेश, श्याम लाल, काम राज, अशोक, राजेश पुत्र आशा देवी पुत्री राम चन्द, धर्मवीर, राजवीर, सुरेश पुरान रामेश्वर
				19	निजी	कृषि	3-1	1542.87	
				20	निजी	कृषि	1-10	758.79	सुखदे, मन्ना, रामेश्वर पुरान मांगे
				21/1	निजी	कृषि	0-3	75.88	सुखदे, मन्ना, रामेश्वर पुरान मांगे
				21/2	निजी	कृषि	1-4	607.03	राम कुमार पुत्र राजे राम
				22	निजी	बंजर भूमि	3-1	1542.87	राम धारी, सुनील दत्त पुरान तनयाचन्द, सुमन, ज्योति पुरान रामजीलाल
				50//					
				1	निजी	प्रेट्टोल पम्प	0-0	0.00	बतवीर सिंह, मुखल्लर सिंह, लखी राम पुरान जगदी राम, विजेन्द्र, इन्दजीत पुरान अशोक, सतवीर सिंह, राम निवास पुत्र महः सिंह, अनिल, अमित पुरानः होरधर सिंह
				2/1	निजी	प्रेट्टोल पम्प	1-12	809.38	
				2/2	निजी	बंजर भूमि	2-16	1416.41	दया राम, किसान पुरान लाल चन्द मगनानी विधवा व यशवन्ती अनीता पुत्रीयान कर्णसिंह, महावीर, सतवीर, मुकेश पुरान धर्म सिंह, राम फल, राम कवर, पुत्र राम सिंह, ओम प्रकाश पुत्र मांगे, समुन्दर, महादेव पुरान राम निवास, गोविन्दी पत्नी सः नेन्द्र, महादेई पत्नी शिव कुमार
				278	पंचायत	कृषि	0-5	126.47	ग्राम पंचायत
				8	निजी	बंजर भूमि	0-16	404.69	रामेश श्याम, जय भगवान, सुरेश कुमार, हरी किसान पुरान देव
				9/1	निजी	बंजर भूमि	2-9	1239.36	रामेश श्याम, जय भगवान, सुरेश कुमार, हरी किसान पुरान देव
				9/2	पंचायत		2-2	1062.31	ग्राम पंचायत जयराज चला आकर दोहलादार
				13	निजी	बंजर भूमि	0-11	278.22	रामेश श्याम, जय भगवान, सुरेश कुमार, हरी किसान पुरान देव
				गाँव का कुल जोड़			101-17	61521.84	

[फा. सं. भारतपत्र/बीओटी/11013/2/2009/एचआरवाई]

सुमेर सिंह गुलिया, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2010

S.O. 2224(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3146 (E), dated the 8th December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 71 on the stretch of land from km. 371.200 to km. 411.550 (Rohtak-Bawal Section) in District Jhajjar in the State of Haryana;

And whereas the substance of the said notification has been published in the "Dainik Bhaskar" dated the 5th February, 2010 and in the "Hindustan Times" dated the 15th February, 2010; under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 371.200 to Km 411.550 (Design Chainage) (Rohtak-Bawal section) on the National Highway No. 71 in Jhajjar District in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the villages & hadbast number	Survey Number		Type of land	Nature of land	Area		Name of land owners/Interested persons	
				Rectangle Number	Killa Number			(In kanal-maria)	(In square-metre)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
1	Jhajjar	1. Beri	(1) Dighal 2,5,11	114//							
					13/1	Private	Irrigated	3-0	1517.58	Randher Singh S/o Dewana, Pato Widow, Rajpal, Pradeep S/o Balber, Kapora S/o Kanhya, Ran Singh S/o Duli Chand, Manphool S/o Shiv Lal, Kartari D/o Shiv Lal, Nafe Singh S/o Ran Singh, Chander S/o Misri, Mahender Singh S/o Suve Singh, Jagjet Singh S/o Mahtab Singh, Rajinder Singh S/o Darya, Omvati D/o Mehtab Singh, Samunder Singh S/o Ved Singh, Dalep Singh, Raghuvir Singh S/o Abhey Ram, Ramnivas, Rameshwar S/o Tichmi, Sher Singh, Pawan Singh S/o Gordhan Das	
					13/2	Private	Irrigated	0-8	202.344		
					14	Private	Irrigated	1-16	910.548		
					17	Private	Irrigated	1-8	708.204		
					18	Private	Irrigated	3-2	1568.186		
					1453	Panchayat	Path	0-2	50.586		Jumla Muskan Maalkan
					23	Private	Irrigated	1-2	556.446		Praveen Kumar S/o Sukhber
					24/1	Private	Irrigated	2-2	1062.308		
					24/2	Private	Irrigated	1-8	708.204		Suraj Bhan S/o Rama
				124//							
					465	Panchayat	Path	0-11	278.223	Village Panchayat	
					4	Private	Irrigated	2-13	1340.529	Randher Singh S/o Dewana, Pato Widow, Rajpal, Pradeep S/o Balber, Kapora S/o Kanhya, Ran Singh S/o Duli Chand, Manphool S/o Shiv Lal, Kartari D/o Shiv Lal, Nafe Singh S/o Ran Singh, Chander S/o Misri, Mahender Singh S/o Suve Singh, Jagjet Singh S/o Mahtab Singh, Rajinder Singh S/o Darya, Omvati D/o Mehtab Singh, Samunder Singh S/o Ved Singh, Dalep Singh, Raghuvir Singh S/o Abhey Ram, Ramnivas, Rameshwar S/o Tichmi, Sher Singh, Pawan Singh S/o Gordhan Das	
					5	Private	Irrigated	1-10	758.79	Suraj Bhan S/o Rama	
					6	Private	Irrigated	0-12	303.516		
					7	Private	Irrigated	1-12	809.376	Randher Singh S/o Dewana, Pato Widow, Rajpal, Pradeep S/o Balber, Kapora S/o Kanhya, Ran Singh S/o Duli Chand, Manphool S/o Shiv Lal, Kartari D/o Shiv Lal, Nafe Singh S/o Ran Singh, Chander S/o Misri, Mahender Singh S/o Suve Singh, Jagjet Singh S/o Mahtab Singh, Rajinder Singh S/o Darya, Omvati D/o Mehtab Singh, Samunder Singh S/o Ved Singh, Dalep Singh, Raghuvir Singh S/o Abhey Ram, Ramnivas, Rameshwar S/o Tichmi, Sher Singh, Pawan Singh S/o Gordhan Das	
					478	Panchayat	Path	0-2	50.586	Village Panchayat	
					456	Govt	Canal	1-5	632.325	Provincial Government	
					458/1	Govt	Canal	0-10	252.93		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					14	Private	Irrigated	3-7	1694.631	Ram Saroop, Ved Pal, Jagdish, Naresh Kumar, Ajet Singh S/o Subh Ram
					15	Private	Irrigated	1-10	758.79	Charan Singh S/o Khajani D/o Saram, Bharpai D/o Prithi Singh, Surajbhan, Wajir Singh Sons Saram
					16/1	Private	Irrigated	1-16	961.134	Shanti Widow, Krishna, Narender S/o Prem, Vinod Bala, Poonam, Shela D/o Bhagwana, Sant narayan, Ram Phal, Satpal, Rameshwar, Krishan, Jai Parkash, Bhagwatmal S/o Chiranje Lal, Lakshmi Widow, Rishpal, Manoj, Proshatam S/o Mahender
					16/2	Private	Irrigated	2-14	1365.822	Ramroop, Ved Pal, Jagdish, Naresh Kumar, Ajet Singh S/o Sees Ram, Dharmo, Bhramo, Khazane D/o Ram Saroop, Ram Kumar S/o Chande D/o Sunder Lal S/o Udmi
					17/1	Private	Irrigated	0-7	177.051	
					25	Private	Irrigated	2-14	1365.822	
					1482	Private	Path	0-3	75.679	Jumla Muskan Maalkan
				125//						
					1494	Private	Path	0-2	50.586	
					20	Private	Irrigated	0-0	0	Shanti Widow, Krishna, Narender S/o Prem, Vinod Bala, Poonam, Shela D/o Bhagwana, Sant narayan S/o Ram Phal, Satpal, Rameshwar, Krishan, Jai Parkash, Bhagwat Dayal S/o Chiranje Lal, Lakshmi Widow, Rishpal, Manoj, Proshatam S/o Mahender, Rajender Singh, Jai Bhagwan Sons Raghuvir Singh, Rajender, Jai Bhagwan S/o Raghbeer Singh
					21	Private	Irrigated	1-4	607.032	
				163//						
					1493	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Maalkan
					1	Private	Irrigated	1-5	632.325	Jagat Singh S/o Chandge Ram, Om Adhar, Vidhya Raj, Dilawar Singh S/o Jagat Singh, Sarja Walda, Chandrawati Widow Mahaver Singh
					1485	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Maalkan
					10/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Dheer Singh S/o Sada Ram, Pawan Kumar S/o Dev Raj
					10/2	Private	Irrigated	1-8	708.204	Rajiv Kumar S/o Attar Singh I No. 220
					1481	Private	Path	0-6	151.758	Jumla Muskan Maalkan
					1486	Private	Path	0-3	75.679	
					11	Private	Irrigated	2-15	1391.115	Chamei, Champa D/o Laxmi Narayan S/o Hari Singh, Dhanno Widow, Risal Singh, Munni Widow, Sat Narayan, Om Dutt, Ashwani Kumar, Krishan, Balram S/o Sunita D/o Bheem Singh
					12	Private	Irrigated	1-13	834.669	Rajiv Kumar S/o Attar Singh I No. 220
					19	Private	Irrigated	1-17	935.841	Narayan Singh S/o Chandgi
					20	Private	Irrigated	3-6	1669.338	Bala D/o Rajender Singh, Om Parkash, Rajvir, Chand Sons S/o Manphool
					21/1	Private	Irrigated	1-15	885.255	
					21/2	Private	Irrigated	1-7	682.911	
					22/1	Private	Irrigated	1-1	531.153	Narayan Singh S/o Chandgi
					22/2	Private	Irrigated	0-14	354.102	Preet Kaur Widow, Naveen S/o Dayachand, Navita, Kavita D/o Dayachand, Mer Singh S/o Mauje, Ram Karan S/o Maadu
				154//						
					5/1	Private	Irrigated	1-9	733.497	Bhupender Singh, Bahal Singh, Bhawar Singh S/o Badlu, Santosh, Roshni, Geeta D/o Mahender, Kulwant, Surender S/o Bheem Singh, Raj Singh, Roop Singh S/o Bhagwan Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					5/2	Private	Irrigated	1-9	733.497	Saroop etc Khewat No. 389 Richpal, lakshman S/o Ramji Lal Mortgage
					6	Private	Irrigated	1-12	809.376	Rajiv Kumar S/o Attar Singh I No. 220
					15	Private	Irrigated	0-0	0	Chamek, Champa D/o Laxmi Narayan S/o Hari Singh, Dhanno Widow, Risi Singh, Uday Ram, Sat Narayan, Om Dutt, Ashwani Kumar, Krishan, Balram S/o Sunita D/o Bhoom Singh
				169/						
					1	Private	Irrigated	0-12	303.516	Bela D/o Rajender Singh, Om Parkash,
					2/1	Private	Irrigated	2-6	1239.357	Ramvir, Chand S/o Manphool
					2/2	Private	Irrigated	1-9	733.497	Ram Karan S/o Madu, Mer Singh S/o Mauje, Pret Kaur Widow, Kavita D/o Dayanand
					1487	Private	Path	0-3	75.879	Jumla Muskan Maalkan
					1480	Private	Path	0-5	126.465	
					428 Min	Private	Pond	1-3	581.739	Vijay Singh, Ishwar Singh, Surender Singh S/o Ram Kala
					428/1	Private	Plot	0-8	202.344	Jagdish Prasad S/o Nihal Chand, Rajesh Kumar, Pawan Kumar S/o Ishwar Singh
					27	Private	Plot	0-1	25.293	Natyatha Widow, Umed Singh, Sudhi Widow, Azad, Dalip Singh etc. Rajender S/o Baldeva, Attru S/o Mangli etc.
					9	Private	Irrigated	2-17	1441.701	Devi Dutt, Mahaver, Sri Niwas, Jai Bhagwan S/o Jai Gopal, Dhanpati Widow, Anil, Sunil, Dimple D/o Ramesh Chand, Sandeep S/o Sri Dutt
					12	Private	Irrigated	3-0	75.879	
					13/1	Private	Irrigated	0-14	354.102	Jagdish Prasad S/o Nihal Chand, Rajesh Kumar, Pawan Kumar S/o Ishwar Singh
					13/2	Private	Irrigated	0-19	480.567	Sara Widow, Sundar Lal, Suresh Kumar, Bhagat Ram S/o Jai Narayan, Narender, Ashok Kumar S/o Chander Bhan
					18	Private	Irrigated	1-16	910.548	
					19	Private	Irrigated	3-0	1517.58	Devi Dutt, Mahaver, Sri Niwas, Jai Bhagwan S/o Jai Gopal, Dhanpati Widow, Anil, Sunil, Dimple D/o Ramesh Chand, Sandeep S/o Sri Dutt
					1474	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Malkan
					22/1	Private	Irrigated	0-1	25.293	Devi Dutt, Mahaver, Sri Niwas, Jai Bhagwan S/o Jai Gopal, Dhanpati Widow, Anil, Sunil, Dimple D/o Ramesh Chand, Sandeep S/o Sri Dutt
					22/2	Private	Irrigated	0-6	151.758	Rakesh S/o Jagpal Singh, Mukesh S/o Pret Singh, Narender S/o Bharm Singh, Shri Krishan, Ramphal Sons Moji Mortgage
					23/1/1	Private	Irrigated	0-5	126.465	Devi Dutt, Mahaver, Sri Niwas, Jai Bhagwan S/o Jai Gopal, Dhanpati Widow, Anil, Sunil, Dimple D/o Ramesh Chand, Sandeep S/o Sri Dutt
					23/1/2	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Rakesh S/o Jagpal Singh, Mukesh S/o Pret Singh, Narender S/o Bharm Singh, Shri Krishan, Ramphal Sons Moji Mortgage
					23/2	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Sara Widow, Sundar Lal, Suresh Kumar, Bhagat Ram S/o Jai Narayan, Narender, Ashok Kumar S/o Chander Bhan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					24/1	Private	Irrigated	0-10	252.93	Saara Devi Widow, Jai Narayan, Sundar Lal, Suresh Kumar S/o Jai Narayan, Narender, Ashok Kumar S/o Chander Bhan, Saraswati Widow, Rakhi D/o Praveen Kumar S/o Bhagat Ram
					24/2	Private	Irrigated	0-1	25.293	Sara Widow, Sundar Lal, Suresh Kumar, Bhagat Ram S/o Jai Narayan, Narender, Ashok Kumar S/o Chander Bhan
				197//						
					2	Private	Irrigated	0-1	25.293	Rakesh S/o Jagpal Singh, Mukesh S/o Pret Singh, Narender S/o Bharm Singh, Shri Krishan, Ramphal Sons Moji Mortgage
					3	Private	Irrigated	4-2	2074.026	Rakesh S/o Jagpal Singh, Mukesh S/o Pret Singh, Narender S/o Bharm Singh, Devidutt, Mahavir, Shri Niwas Sons jai Gopal, Ramesh, Sandeep Sons Shri Dutt Mortgage
					4	Private	Irrigated	2-11	1289.943	Sara Widow, Sundar Lal, Suresh Kumar, Bhagat Ram S/o Jai Narayan, Narender, Ashok Kumar S/o Chander Bhan
					480	Panchayat	Path	0-7	177.051	Village Panchayat
					7	Private	Irrigated	2-7	1188.771	Sara Widow, Sundar Lal, Suresh Kumar, Bhagat Ram S/o Jai Narayan, Narender, Ashok Kumar S/o Chander Bhan
					8	Private	Irrigated	3-17	1947.561	Rakesh S/o Jagpal Singh, Mukesh S/o Pret Singh, Narender S/o Bharm Singh, Devidutt, Mahavir, Shri Niwas Sons jai Gopal, Ramesh, Sandeep Sons Shri Dutt Mortgage
					1488	Private	Path	0-4	101.172	Jumla Muskan Maalkan
					13	Private	Irrigated	4-4	2124.612	Ramdhan S/o Choto
					14	Private	Irrigated	2-1	1037.013	Raj Singh S/o Nand Kishore, Santosh, Krishna, D/o Nand Kishore, Jagmohan, Dalu Ram S/o Krishan Pal, Chand Singh S/o Gulab Singh, Seroj Widow, Vidhya, Mena D/o Badri S/o Chand Ram, Phoolpati W/o Rai Singh
					16/1	Private	Irrigated	1-1	531.153	Balwan Singh, Hawa Singh, Bhadur, Jeet S/o Ram Swaroop
					16/2	Private	Irrigated	1-1	531.153	Daya D/o Inderraj
					17	Private	Irrigated	3-18	1972.854	Devi Dutt, Mahaver, Sri Niwas, Jai Bhagwan S/o Jai Gopal, Dhanpati Widow, Anil, Sunil, Dimple D/o Ramesh Chand, Sandeep S/o Sri Dutt
					18	Private	Irrigated	0-7	177.051	
					23	Private	Irrigated	0-0	0	Khazani Devi Widow, Panmeshwari, Ganga Dei, Nirmala Devi, Sumita Devi, Anita Devi S/o Panna Lal, Wazir Singh, Vijender Singh, Mahesh Kumar, Panna Lal S/o Laxmi Narayan
					24/1	Private	Irrigated	2-8	1214.064	Devi Dutt, Mahaver, Sri Niwas, Jai Bhagwan S/o Jai Gopal, Dhanpati Widow, Anil, Sunil, Dimple D/o Ramesh Chand, Sandeep S/o Sri Dutt
					24/2	Private	Irrigated	0-16	404.688	Khazani Devi Widow, Panmeshwari, Ganga Devi, Nirmala Devi, Sumita Devi, Anita Devi S/o Panna Lal, Wazir Singh, Vijender Singh, Mahesh Kumar S/o Laxmi Narayan
					25	Private	Irrigated	1-11	784.083	Badar Singh aka Badri S/o Roop Chand, Fateh Singh S/o Kehri
				212//						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					4	Private	Irrigated	3-4	1618.752	Khazani Devi Widow, Panmeshwari, Ganga Devi, Nirmala Devi, Sumita Devi, Anita Devi, S/o Panna Lal, Wazir Singh, Vjender Singh, Mahesh Kumar S/o Laxmi Narayan
					5	Private	Irrigated	1-9	733.497	Badar Singh aka Badri S/o Roop Chand, Fateh Singh S/o Kehri
					1489	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Maikan
					6/1	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Ved Kaur W/o Kartar Singh, Somver S/o Kartar Singh, Prem D/o Ram Chand
					6/2	Private	Irrigated	2-10	1264.65	Sri Krishan, Ram Phal S/o Mauji
					7	Private	Irrigated	0-7	177.051	
					15	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Sri Krishan, Ram Phal S/o Mauji, Vjender, Sundar Lal S/o Sri Krishan
					16/1	Panchayat	Irrigated	2-2	1062.306	Village Panchayat
					16/2	Private	Irrigated	0-12	303.516	Hari Ram, Ishwar Dutt, Sunil Dutt S/o Santosh Devi S/o Om Dutt, Santo Devi Widow, Ramesh Dutt, Som Dutt S/o Vidhya Dutt, Saroj Rani, Kavita, Bandana D/o Vidhya Dutt, Chama Devi Widow, Vishnu Dutt, Bhagwan Dutt S/o Devi Dutt.
					25	Private	Irrigated	1-13	834.669	
					481	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
				213//						
					11	Private	Irrigated	0-15	379.395	Ved Kaur W/o Kartar Singh, Somver S/o Kartar Singh, Prem D/o Ram Chand
					1493	Private	Path	0-3	75.879	Jumla Muskan Maikan
					20	Private	Irrigated	1-10	758.79	Ved Kaur W/o Kartar Singh, Somver S/o Kartar Singh, Prem D/o Ram Chand
					21/1	Private	Irrigated	0-18	455.274	Hari Ram, Ishwar Dutt, Sunil Dutt S/o Santosh Devi S/o Om Dutt, Santo Devi Widow, Ramesh Dutt, Som Dutt S/o Vidhya Dutt, Saroj Rani, Kavita, Bandana D/o Vidhya Dutt, Chama Devi Widow, Vishnu Dutt, Bhagwan Dutt S/o Devi Dutt.
					21/2	Private	Irrigated	1-11	784.083	Ved Kaur W/o Kartar Singh, Somver S/o Kartar Singh, Prem D/o Ram Chand
				234//						
					1/1	Private	Irrigated	2-11	1289.943	Dewana aka Dewan Singh S/o Shyoram
					1/2	Private	Irrigated	1-10	758.79	Ram Kishan, Ram Phal, Mukhtyar, Balber S/o Jeetram, Chandermukhi, Baladevi D/o Jeetram, Dhanpati Widow, Suresh, Surender, Anil S/o Jile Singh, Bhanwati Widow, Suman D/o Mukesh, Dinesh S/o Rajender.
					2	Private	Irrigated	0-1	25.293	
					1493/1	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Maikan
					1621	Private	Path	0-4	101.172	
					9/2	Private	Irrigated	1-8	708.204	Jai Karan S/o Ram Phal
					10/1	Private	Irrigated	0-9	227.637	Dewan Singh S/o Syoram
					10/2	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Ram Gopal S/o Sukhram, Bhola S/o Gabdu
					11	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Sahab Singh, Ram Phal, Bhag Singh, Anoop Singh S/o Dalip S/o Sukhram, Sukhbir Singh, Bablu, Nareesh S/o Nafe Singh S/o Dalip Singh
					12	Private	Irrigated	1-7	682.911	Jai Karan S/o Ram Phal
					1365	Govt.	Plot	0-19	480.567	Provincial Government
					19/2	Private	Irrigated	1-10	758.79	Raghubir Singh S/o Mir Singh S/o Ganga Ram, Vjender, Rajiv S/o Smt. Swety, Kavita, Munesh D/o Smt. Ramrati D/o Mer Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					20	Private	Irrigated	1-4	607.032	Rajber S/o Rampal
					21/2	Private	Irrigated	0-2	50.586	Naurang, Jaipal, Bijender S/o Amar Singh S/o Bharat Singh, Ashish S/o Dalel S/o Amar Singh
					1622	Private	Path	0-4	101.172	Mustarka Maalkan
					22	Private	Irrigated	3-7	1694.631	Naurang, Jaipal, Bijender S/o Amar Singh S/o Bharat Singh, Ashish S/o Dalel S/o Amar Singh
				235//						
					5	Private	Irrigated	0-1	25.293	Dewaan Singh S/o Syoram
				249//						
					2	Private	Irrigated	4-2	2074.026	Bhagwana S/o Syoram
					9/1	Private	Irrigated	1-0	505.86	Mustarka Maalkan
					9/2	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Smt. Bharto D/o Barkha, Risai Singh, Chand Ram, Shyoram S/o Shera S/o Mukhram
					9/3	Private	Irrigated	0-12	303.516	Hardhan S/o Syoram
					10	Private	Irrigated	0-4	101.172	Ram Singh S/o Ganga Ram S/o Nahna, Dhampal S/o Lal Chand S/o Ganga Ram
					11	Private	Irrigated	0-19	480.567	Hardhan S/o Syoram
					11/7	Private	Manure Pit	0-0	0	Jumla Muskan Malkan, Makbuj Ramchandra S/o Dataram Mortgage
					11/8	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Makbuj Jumla Muskan Malkan, Makbuj Ramchandra S/o Dataram Mortgage, Parbhu S/o Bihari Mortgage
					11/9	Private	Path	0-1	25.293	Mustarka Maalkan
					12/1	Private	Irrigated	1-18	961.134	Hardhan S/o Syoram
					12/2	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Rati Ram S/o Kurda S/o Gulab Ram
					12/3	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					12/4	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Jai Parkash S/o Jai Lal, Ram Chander S/o Mool Chand
					12/5	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Dhanraj S/o Kapur Singh, Kuideep, Dinesh Sons Lalchand, Hetram S/o and Smt Seema D/o Balganand
					12/6	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Rajbir, Ramesh, Sanjay S/o Bhane Singh S/o Daryav Singh, Smt. Bakhtawri, Dhan Kaur, Panmeshwari, PremKaur D/o Daryav Singh S/o Netram, Ramkumar S/o Darya Singh, Savitri Devi W/o Umad Singh
					12/7	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Mange Ram S/o Dalip S/o Net Ram
					Path	Panchayat	Path	0-19	480.567	Village Panchayat
					627	Private	Plot	1-1	531.153	Bhagwana S/o Syoram
					628	Private	Plot	2-0	1011.72	
					629	Private	Plot	1-5	632.325	Mehtab, Dilbagh, Kawar Singh, Satvir S/o Smt Roshni, Sumitra D/o Vasanti
					630	Private	Plot	1-7	682.911	Prabhu or Smt Laxmi etc kawat No. 751
					631	Private	Plot	1-5	632.325	Rampal, Ramdhan S/o Rijak Ram
					632	Panchayat	Path	0-9	227.637	Village Panchayat
					633	Private	Plot	1-19	986.427	Smt. Prem Kaur Widow or Jai Bhagwan, Sri Bhagwan, Himmat S/o, or Smt. Laxmi, Pramila, Jagriti D/o Rati Ram
					634	Private	Plot	1-9	733.497	Ram Chander S/o Mool Chand, Jai Parkash S/o Jai Lal
					641	Private	Plot	2-10	758.79	Ram Kishan, Ram Raj, Ram Chander S/o Bhartu
					642	Panchayat	Path	0-7	177.051	Mustarka Malkan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					19/1	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Mustarka Malkan :- Ratan S/o Chandu Mortgage
					19/2	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Mustarka Malkan :- Bhan S/o Shri Chand Mortgage
					19/3	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Mustarka Malkan :- Shivaji S/o Anand Mortgage
					19/4	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Mustarka Malkan :- Path S/o Sanwalia Mortgage
					20/10	Private	Manure Pit	0-0	0	Mustarka Malkan :- Mehar Singh s/o Jai Karam Mortgage
					20/11	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Mustarka Malkan :- Senkar S/o Mamchand Mortgage
					20/12	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Mustarka Malkan :- Mehar S/o Bhan Mortgage
					20/13	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Mustarka Malkan :- Rishal s/o Chandram Mortgage
					20/14	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Khyali S/o Bhayram Mortgage
					20/15	Private	Manure Pit	0-0	0	Jumla Muskan Malkan :- Shyochand S/o Devakram Mortgage
					20/25	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Malkan :-
					20/35	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ghasi S/o Hira Mortgage
					20/36	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Nihal S/o Mamchand Mortgage
					20/37	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Phul S/o Ramjilal Mortgage
					20/38	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Bhane S/o Manger Ram Mortgage
					20/39	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Mukhtyar S/o Subhash Chand Mortgage
					20/40	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ranjeet s/o Bharat Mortgage
					20/50	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Malkan :-
					20/60	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ramchand s/o Nandu Mortgage
					20/61	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan :- Ghisa ram s/o Meer Singh Mortgage
					20/62	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Parbhu S/o Palad Mortgage
					20/63	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ransingh S/o Palad Mortgage
					20/64	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Same S/o Partap Mortgage
					20/65	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Partap S/o Sundu Mortgage
					20/66	Private	Manure Pit	0-0	0	Jumla Muskan Malkan :- Norang S/o Mannu Mortgage
					20/75	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Malkan :-
					20/84	Private	Manure Pit	0-0	0	Jumla Muskan Malkan :- Chotu S/o Shyo Ram Mortgage
					20/85	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Hajar S/o Bansi Mortgage
					20/86	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Dia S/o Bansi Mortgage
					20/87	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Surji D/o Shri Chand Mortgage
					20/88	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ramkishan S/o Shri Chand Mortgage
					20/89	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Tara S/o Shrichand Mortgage
					20/90	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ramshankar S/o Shrichand Mortgage
					20/91	Private	Manure Pit	0-0	0	Jumla Muskan Malkan :- Phakira S/o Shrichand Mortgage
					20/100	Private	Path	0-2	50.586	Jumla Muskan Malkan :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					20/109	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ranvir S/o Budhram Mortgage
					20/110	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Mehar Singh S/o Budhram Mortgage
					20/111	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ramchand s/o Dhan Singh Mortgage
					20/112	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ramkuwar S/o Bhanu Mortgage
					20/113	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Surta s/o Ramji Lal Mortgage
					20/114	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Parbhu S/o Ramjilal Mortgage
					20/115	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Atre S/o Parbhu Mortgage
					20/116	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ratan S/o Mangal Mortgage
					20/125	Private	Path	0-4	101.172	Jumla Muskan Malkan
					21/10	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Nefe Singh S/o Arjan Mortgage
					21/11	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Shana S/o Ramjilal Mortgage
					21/12	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Jile Singh s/o Ramjilal Mortgage
					21/13	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Bakwant S/o Partap Mortgage
					21/14	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Gadan S/o Chandgi Mortgage
					21/15	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Roop S/o Jogi Ram Mortgage
					21/16	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Ransroop s/o Jeet Mortgage
					21/17	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Fero S/o Haral Mortgage
					21/18	Private	Manure Pit	0-0	0	Jumla Muskan Malkan :- Ramchand S/o Rahama Mortgage
					21/26	Private	Path	0-4	101.172	Jumla Muskan Malkan :-
					21/35	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Amichand S/o Bhola Mortgage
					21/36	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Amichand S/o Ramsroop Mortgage
					21/37	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Dhooan S/o Samay Singh Mortgage
					21/38	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Manti s/o Samay Singh Mortgage
					21/39	Private	Path	0-10	252.93	Jumla Muskan Malkan :-
					21/53	Private	Path	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan
					21/54	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Bhartu s/o Gaje Singh Mortgage
					21/55	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Omal S/o Mange Mortgage
					21/56	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Rishal S/o Mange Mortgage
					21/57	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Jumla Muskan Malkan :- Netram S/o Rajee Mortgage
					21/58	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Dharmender, Suresh Chand, Raj Singh S/o Hari Singh, Prem D/o Chand
					21/59	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					21/60	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Jagdish Prasad S/o Nihal Chand Kabza MaalakKabza, Ramkala, Devi Singh, Nanak, Smt Krishana, Dharmender, Smt. Ved Kaur etc
					21/61	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ramdhan S/o Choto
					21/62	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Rajender Singh S/o Ram Prasad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					21/63	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Sara Widow, Sundar Lal, Suresh Kumar, Bhagat Ram S/o Jai Narayan, Narender, Ashok Kumar S/o Chander Bhan
					21/64	Private	Path	0-8	202.344	Jumla Muskan Malkan
					21/65	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Sara Widow, Chandro, Anguri, Narayan Devi D/o Chanderbhan, Sundarlal, Suresh Kumar, Bhagat Ram S/o Jai Narayan,
					21/66	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Khazani Devi Widow, Panmeshwari, Ganga Devi, Nirmala Devi, Sumita Devi, Anita Devi S/o Panna Lal, Wazir Singh, Vijender Singh, Mahesh Kumar S/o Laxmi Narayan
					21/67	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					21/68	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ram Kishan S/o Balak Ram
					21/69	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Duli Chand, Dheram Pal aka Dheram Chand, Puran S/o Kishan, Dei, Kasturi, Bhateri,
					21/70	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Anguri S/o Jaage Ram
					21/71	Private	Manure Pit	0-1	25.293	
					21/72	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Sri Krishan, Ram Phal S/o Mauji, Vijender, Sundar Lal S/o Sri Krishan
					22/1	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Kadiya Widow, Phooli, Bharpai, Kesar D/o RamKishan, Ramraj, Ram Chander S/o Bhartu
					22/2	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Vijay Singh, Ishwar Singh, Surender Singh S/o Ram Kala
					22/3	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Napma Widow, Shakuntala, Kamla D/o Ranber, Dharamber S/o Med Singh
					22/4	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Mehtab Singh, Pradeep Kumar S/o Rajender Singh, Ranber Singh, Ranber Singh S/o Bhagwan Singh, Sukhma Widow, Narender Singh, Ashwani Kumar S/o Mahaver Singh, Bhoop Singh S/o Ajit Singh
					22/5	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Panmeshwari Widow, Kashmini Devi, Krishna Dev D/o Suresh Chand, Dinesh Chand, Rampat, Anand Kumar S/o Bhayram
					22/6	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Bheem Singh S/o Chajju
					22/7	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Rajender Singh S/o Baldeva
					22/8	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Panmeshwari Widow, Kashmini Devi, Krishna Dev D/o Suresh Chand, Dinesh Chand, Rampat, Anand Kumar S/o Bhayram
					22/9	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Mehtab Singh, Pradeep Kumar S/o Rajender Singh, Ranber Singh, Raghubir Singh S/o Bhagwan Singh, Sukhma Widow, Narender Singh, Ashwani Kumar S/o Mahaver Singh, Bhoop Singh S/o Arjan Singh
					22/10	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					22/11	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					22/12	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					22/13	Private	Path	0-7	177.051	Jumla Muskan Malkan
					22/14	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Dharmender, Suresh Kumar, Raj Singh S/o Hari Singh, Om Parkash S/o Hari Singh
					22/15	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ved Kaur W/o Kartar Singh, Somver S/o Kartar Singh, Prem D/o Ram Chand
					22/16	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					22/17	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Pratap Singh, Dalel Singh, Sumer Singh S/o Man Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					22/18	Private	Manure Pit	0-0	0	
					22/20	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					22/21	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Vijay Singh, Ishwar Singh, Surender Singh S/o Ram Kala
					22/22	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Shamsher Singh S/o Rukma, Krishna D/o Rukma, Sukhdei D/o Mai Lal, Umed Singh S/o Mai Lal, Mahender Singh, Vajinder Singh, Joginder Singh, Surender Singh S/o Umed Singh, Ram Kaur D/o Bholu
					22/23	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					22/24	Private	Path	0-6	151.758	Jumla Muskan Malkan
					22/25	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Hans Kaur Widow Mange
					22/26	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Hawa Singh, Amar Singh, Ram Chander, Dharamver S/o Balak
					22/27	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					22/28	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Devi Singh, Surat Singh S/o Ram Saroop
					22/29	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Parasram, Hekram, Dshram S/o Ram Saroop
					22/30	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ram Kala, Ram Phal, Jeet Ram S/o Puran
					22/31	Private	Manure Pit	0-0	0	
				260//						
					1/5	Private	Path	0-1	25.293	Smt. Bhatari Widow, Smt Jalo, Raj Bala, Santosh, Kamlesh D/o Ghasi, Hansraj, Prathi Singh, Chand Singh, Jai Singh, Aflatoon S/o Ghasi, Azad, Narender S/o Dule Chand, Sanjay, Baljeet S/o Balwan, Duli Chand S/o Amilal
					1/6	Private	Manure Pit	0-1	25.293	
					1/7	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Raj Singh S/o Yan Singh
					1/8	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/9	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Balغانand S/o Chaju Ram, Chaju S/o Dhan Singh
					1/10	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Diwan Singh S/o Shyoram
					1/11	Private	Path	0-6	151.758	Mustarka Maalkan
					1/31	Private	Path	0-1	25.293	
					1/32	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Banwari, Kapoor Singh, Chotu Ram, Ranbir, Jagber S/o Chatr Singh, Ram Singh, Balber Singh S/o Dalip Singh, Smt. Bharpai Widow, Surat Singh.
					1/33	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/34	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/35	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Fate Singh, Hoshyar Singh S/o Chandgi
					1/36	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/37	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Azad Singh S/o Diwan Singh
					1/38	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Hukum Chand, Kawal Singh S/o Bhagwana, Rajbir, Baljeet S/o Rati Ram, Smt. Vimla, Jagwanti D/o Rati Ram
					1/39	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/40	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/41	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt. Nahnri Widow, Brahma, Sajna, Choti D/o Uday Singh, Chanderbhan, Wazir Singh, Jile Singh S/o Uday Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					1/42	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Mustarka Malkan
					1/43	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt. Uday Kaur Widow, Smt Chander, Ram Pyan, Risalo D/o Balbir Singh, Mukhtar Singh, Dilbhag, Mahender, Jale, Samundar, Suresh S/o Dariyav Singh
					1/44	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/45	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/46	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Raj singh, Gulab Singh, Sumender Singh, Darshan Singh, Ramesh Kumar S/o Ram Phal S/o Chuni Lal
					1/47	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt. Kitabo, Kashmiri, Shila D/o Mohar Singh S/o Gokal
					1/48	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ramdhhan, Kartar S/o Des Ram
					1/49	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/50	Private	Path	0-9	227.637	Mustarka Malkan
					1/51	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt. Bharpai Widow, Mange Ram, Ram Dhan, Bhoop Singh S/o Prithi, Smt. Shanti Devi D/o Prithi
					1/52	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/53	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					1/54	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Rai Singh S/o Shri Ram Kewat No. 1407
					1/55	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Rai Singh S/o Shri Ram Kewat No. 1408
					1/56	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Rai Singh S/o Shri Ram Kewat No. 1409
					1/57	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ram Chander, Dharamber S/o Mer Singh
					1/58	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ram Chander, Dharamber S/o Mer Singh
					1/59	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					2/1	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Bhagwana S/o Syoram
					2/2	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Hardhan S/o Syoram
					2/3	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Sardara, Kartar Singh, Jile Singh S/o Kehri, Smt. Kitabo, Bugli, Choto, Dharmo D/o Kehro, Smt Sarti Widow Kehro.
					2/4	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ram Kishan, Ram Chander, Ram Raj S/o Bhartu
					2/5	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Hukum Chand, Kalam Singh S/o Bhagwana, Rajbir, Baljeet S/o Rati Ram, Smt. Vimla, Jagwanti D/o Rati Ram
					2/6	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					2/7	Private	Manure Pit	0-0	0	Hukum Chand, Balbir S/o Risal Singh.
					2/11	Private	Path	0-2	50.586	Mustarka Malkan
					2/12	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Sawal S/o Kaniya
					2/13	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Raghubir Singh S/o Bhagtawar
					2/13	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					2/14	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt. Nahati Widow, Umed Singh, Om Prakash, Satpal S/o Chandgi Ram, Smt. Krishana Devi, Roshni Devi D/o Chandgi Ram, Ratan Singh S/o Hamam
					2/15	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					2/16	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					2/17	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Bhoop Singh, Hukum Singh S/o Bowat
					2/18	Private	Manure Pit	0-2	50.586	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					2/19	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Daya Kaur D/o, or Raja, Ranveer S/o Mool Chand, Shamsher, Satyavaan S/o Rampatt or Smt. Prem Widow, Daya Kishan, Sahab Singh, Surender Singh S/o Ram Roop S/o Lok Ram
					2/20	Private	Manure Pit	0-3	75.879	Ran Singh, Chhatr S/o Jotu, Smt. Daya Kaur D/o Ranbir, Raja S/o Mool Chand, Smt. Prem Widow, Daya Kishan S/o Mool Chand, Sahab Singh, Surender Singh S/o Ram Saroop, Satyawan, Shamsher S/o Rampat S/o
					2/21	Private	Path	0-9	227.637	Mustarka Malkan
					2/22	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Bhaqwana, Hukum Chand, Sultan S/o Kanhiya
					2/23	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					2/24	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Bhagwana S/o Hukumi
					2/25	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Subhash, Naresh Sons Hardwari S/o Hariram, Suresh Kumar, Hawa Singh s/o Hardwari
					2/26	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Kehri, Balber S/o Tek Ram, Kartar Singh S/o Naval Singh
					2/27	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt. Ratni D/o Kanwal Singh, Roop Singh, Pratap Dalel, Prakash, Krishan, S/o Kanwal Singh
					2/28	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					2/29	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Mustarka Malkan
					2/30	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					2/32	Private	Manure Pit	0-0	0	Record not Available
					2/33	Private	Manure Pit	0-0	0	Mustarka Malkan
					2/34	Private	Manure Pit	0-0	0	Dalan Singh S/o Dodram
					2/35	Private	Manure Pit	0-0	0	Smt. Ratni D/o Kanwal Singh, Roop Singh, Pratap Dalel, Prakash, Krishan, S/o Kanwal Singh
					2/36	Private	Manure Pit	0-0	0	Mustarka Malkan
					2/37	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Smt. Chando Widow, Hanchand, Kartar Singh S/o Naval Singh, Smt. Santosh, Jyoti D/o Risal Singh
					2/38	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Lakshmi Naryan, Jagdish Chander etc Kewat no.1348
					2/39	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Hukum Singh S/o Ramjilal
					2/40	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Smt. Risalo W/o Chotu Ram
					9/1	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Rajsingh S/o Than Singh
					9/2	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					9/3	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ramkishan, Foole, Ameer Singh Sons Neki
					9/4	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					9/5	Private	Path	0-3	75.879	Mustarka Malkan
					9/6	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Shees Ram S/o Ram Bhagat
					9/7	Private	Manure Pit	0-1	25.293	Shyo Nath S/o Udmi S/o Jharya, Nafe Singh, Lal Chand S/o Udmi, raj Singh, sant Ram, Inder singh S/o Mange Ram S/o Lal Chand
					9/8	Private	Manure Pit	0-1	25.293	
					9/23	Private	Manure Pit	0-4	101.172	Mustarka Malkan
					10/4	Private	Path	0-2	50.586	
					10/5	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Chand Ram, Kanwal Singh, Surat Singh S/o Mansa Ram

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					10/6	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Jagbir, Rajbir, Chotu Ram, Sardaarp S/o Ransingh
					10/7	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					10/8	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Bihari Lal, Randhir Singh, Kamwar S/o Subhash Ramchand
					10/9	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					10/10	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					10/11	Private	Path	0-3	75.879	Mustarka Malkan
					10/12	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Surajbhan, Chanderbhan Sons Subhash Chand
					10/13	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					10/14	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Jile Singh S/o and Hgude Keshar D/o Ramsroop, Raj, Jaisingh Sons and Bala, Shila, Meena D/o Smt. Panmashwan, Smt. Sarswati Widow and Omparkash, Kuldeep, Satish Sons and Smt. Saroj, usha D/o Batwant, Sitaram S/o Sisram S/o Shyoram
					10/15	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					10/16	Private	Path	0-8	202.344	Mustarka Malkan
					Total Area of Village			198-10	100413.21	
		(2)Dhandl an, 7	28//							
					25	Private	Irrigated	0-0	0	Ram Chander S/o Banwari, Surender Kumar, Naresh Kumar, Anil Kumar S/o Ram Chander
			29//							
					9	Private	Irrigated	0-15	379.395	Rohtas Adopted S/o Jai Karan S/o Kundan Smt. Phoola Widow, Satnarayan, Kuldeep, Satyawar S/o Chatru, Smt. Savitri Widow, Smt. Bhatari D/o, Jaibhagwan, Pawan S/o Meer Singh, Ranpat S/o Kundan
					10	Private	Irrigated	2-19	1492.287	
					11/1	Private	Irrigated	4-10	2276.37	Smt. Phoola Widow, Sukhbir, Jagbir, Suresh, Rajesh, Vijay S/o Smt. Santra, Saroj D/o Jai Chand, Bheem Singh S/o Moola, Smt. Kitabo Widow, Smt. Kaushalya, Babita D/o and Rajbir, Anar Singh S/o Roop Chand, Smt. Harkaur Widow, Smt. Kalawati, Dayawanti, Santosh, Sushila, Jashanti, Bhatari D/o Sri Bhagwan, Ashok S/o Ram Gopal
					11/2	Private	Irrigated	1-4	607.032	
					12	Private	Irrigated	0-16	404.688	
					19	Private	Irrigated	0-2	50.586	
					20	Private	Irrigated	6-12	3338.676	
					21	Private	Irrigated	7-1	3566.313	
			32//							
					1	Private	Irrigated	4-13	2352.249	Rohtas, Joginder S/o Maha Singh, Santosh Widow, Harbeer S/o Sarita D/o Dharamveer Singh, Dheeraj, Neeraj S/o Bijender S/o Dalip, Devender Singh, Surender Singh, Narendar Singh S/o Hoshiyar Singh, Chitar Singh, Attar Singh S/o Sultan Singh S/o Bheema, Rakesh Kumar, Mukesh Kumar S/o Misral S/o Sultan Singh
					10	Private	Irrigated	5-9	2756.937	
					11	Private	Irrigated	4-12	2326.955	
					20/1	Private	Irrigated	0-0	0	Smt. Shanti Widow, Rajpati, Nirmala, Sunita D/o Nar Singh, Sajjan Singh, Rohtas S/o Han Ram S/o Bheema
					20/2	Private	Irrigated	3-15	1896.975	Rati Ram, Laxhi Ram, Phool Singh, Karan Singh S/o Sohan, Gordhan S/o Hamam S/o Smt. Mankaur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					750	Panchayat	Path	1-4	191.172	Village Panchayat
				33//	71	Private	Irrigated		4391.115	Karla Singh S/o Bansi
					202	Govt.	Road	1-16	910.548	Provisional Government
					5 Min	Private	Irrigated	0-8	202.344	Rohtas, Joginder S/o Maha Singh, Santosh Singh, Dheeraj, Naranj S/o Bansi, S/o Lalaj, Devender Singh, Surender Singh, Nandender Singh S/o Hoshiyar Singh, Chitar Singh, S/o Singh S/o Sultan Singh S/o Bhawan, S/o Kumar, Mukesh Kumar S/o Bansi, S/o Singh
					8 Min	Private	Irrigated	1-4	607.032	
					149	Panchayat	Water Channel	0-3	75.879	Village Panchayat
					15 Min	Private	Irrigated	2-7	1062.306	Rohtas, Joginder S/o Maha Singh, Santosh Singh, Dheeraj, Naranj S/o Bansi, S/o Lalaj, Devender Singh, Surender Singh, Nandender Singh S/o Hoshiyar Singh, Chitar Singh, S/o Singh S/o Sultan Singh S/o Bhawan, S/o Kumar, Mukesh Kumar S/o Bansi, S/o Singh
					30/1	Private	Irrigated	3-0	1517.58	Chandermoni etc. Baga, Baidi Dhanraj, Bakhtawar Singh, Raj Singh, Madan Singh, Mangi Ram, Om Prakash etc.
					75	Private	Irrigated	3-0	1922.208	Raj Ram, Lakha Ram, Phool Singh, S/o Singh S/o Sohan, Gordan S/o Manoj S/o Smt Mankaur
					75	Private	Irrigated	4-14	2377.542	Lakshmi Chand S/o Mange S/o Shankar
					75	Private	Irrigated	3-12	2473.711	Naresh, Surender Satyawar S/o Lakshmi Chand,
					3/2	Private	Path	0-7	177.051	Lakshmi Chand S/o Mange S/o Shankar, Naresh, Surender, Satyawar S/o Lakshmi Chand, Sanjay, Krishna S/o Tek Chand Tek Chand S/o Mange
					150	Panchayat	Water Channel	0-8	202.344	Village Panchayat
					75	Private	Irrigated	5-14	2883.402	Smt. Chandro Widow S/o Om Prakash, Dharamveer, Karamveer S/o, Smt. Mayawati, Pooaram, Santra D/o Dalip Smt. Rajesh Widow, Ashish S/o, Smt. Bharti D/o Ramnath, Hanu Om S/o Jeet Ram, Suresh Kumar S/o Bansi Singh
					75	Private	Irrigated	1-2	2074.026	
				49//	1	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Karla Singh S/o Badli
					10	Private	Irrigated	1-5	632.325	Sanjay, Krishan S/o Tek Chand, Tek Chand S/o Mange
					71	Private	Irrigated	0-13	328.809	Niranjan Singh, Jai Prakash S/o Ratan Smt. Sarjeevan S/o Sardara, Baljeet, Mukesh Satnarayan S/o Subhash Chand, Jagan, Karwar, Ranbeer, Suresh S/o Ram Chand
					3/1	Private	Irrigated	0-10	252.93	
					20/2	Private	Irrigated	0-11	278.223	Chandram S/o Jai Narayan
					704	Panchayat	Path	0-16	404.688	Village Panchayat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					21/1	Private	Irrigated	2-9	1239 357	Shamlal Thota, Dharamdass, Smt. Sarja Widow, Pritu S/o Shaadi, Chandram S/o Jai Narayan
				53/						
					1	Private	Irrigated	5-16	2933 988	Abhishek, Surajmal S/o Vijender, Vinod, Kapil, Rajesh S/o Pratap, Dheere, Tek Ram S/o Ram Bhagat, Beera D/o, Satveer S/o Kanwal Singh, Smt. Patasa Devi Widow, Satyawan, Naseeb S/o Raj Singh, Smt. Santosh Widow, Ajay S/o Sinu D/o Pradeep S/o Raj Singh, Bhani S/o Ragbir Singh, Abhishek, Surajmal S/o Vijender, Vinod, Rajesh, Kapil S/o Pratap, Rehan, Dharambeer S/o Dheera
					9/1	Private	Irrigated	1-2	556 446	
					9/2	Private	Irrigated	0-9	227.637	Dheere, Tek Ram S/o Ram Bhagat, Beera D/o, Satveer S/o Kanwal Singh, Smt. Patasa Devi Widow, Satyawan, Naseeb S/o Raj Singh, Smt. Santosh Widow, Ajay S/o Sinu D/o Pradeep S/o Raj Singh, Bhani S/o Ragbir Singh, Abhishek, Surajmal S/o Vijender, Vinod, Rajesh, Kapil S/o Pratap
					10	Private	Irrigated	6-12	3338 676	
					11/1	Private	Irrigated	0-19	480 567	Rati Ram, Lakhi Ram, Karan Singh S/o Sohan
					11/2	Private	Irrigated	1 16	910.548	Dheere, Tek Ram S/o Ram Bhagat, Beera D/o, Satveer S/o Kanwal Singh, Smt. Patasa Devi Widow, Satyawan, Naseeb S/o Raj Singh, Smt. Santosh Widow, Ajay S/o Sinu D/o Pradeep S/o Raj Singh, Bhani S/o Ragbir Singh, Abhishek, Surajmal S/o Vijender, Vinod, Rajesh, Kapil S/o Pratap
					12/1	Private	Irrigated	3-0	1517.58	
					12/2	Private	Irrigated	1-5	632.325	Jaswant Singh S/o Hari Singh, Rampal S/o Bhartu, Jagdev, Omsahaye S/o Hari Singh, Dariyav S/o, Smt. Singaaro, Satvanti D/o Akheram, Mehar Singh, Tejveer Singh S/o Dharampal, Smt. Kshana Widow, Pawani Kumar, Deepak Kumar S/o Smt. Manju Devi, Anju Devi D/o Ranbir S/o Jile Singh
					13	Private	Irrigated	0-0	0	
					18/1	Private	Irrigated	0-0	0	
					18/2	Private	Irrigated	2-4	1112 892	Suresh Kumar, Naresh Kumar, Manveer S/o Jai Karan
					19	Private	Irrigated	5-19	3009 867	
					20/1	Panchayat	Non Irrigated	0-0	0	Village Panchayat
					20/2	Private	Irrigated	0-0	0	Rati Ram, Lakhi Ram, Karan Singh S/o Sohan
					22	Private	Irrigated	1-16	910 548	Suresh Kumar, Naresh Kumar, Manveer S/o Jai Karan
					23	Private	Irrigated	6-10	3288.09	
					24/1	Private	Irrigated	0-1	25 293	
				54//						
					150	Panchayat	Water Channel	1-4	607 032	Village Panchayat
					5	Private	Irrigated	1-12	509.376	Smt. Jeevni, Sumitra, Rajesh D/o, Ramesh Kumar, Devender Singh, Bhooender Singh S/o Dharam Chand, Narender S/o Krishan S/o Harphool

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					6	Private	Irrigated	0-1	25.293	Rati Ram, Lakhi Ram, Karan Singh S/o Sohan
				71//						
					3	Private	Irrigated	5-1	2554.593	Ramesh, Suresh, Naresh S/o Ram Phal, Shamsher S/o Daya Chand, Mannu S/o Ram Kanwar, Ram Phal, Daya Chand, Ram Kanwar S/o Man Singh, Smt. Sunil D/o Harender, Ajay S/o Phoolpati D/o Man Singh
					4/1	Private	Irrigated	2-18	1466.994	
					4/2	Private	Irrigated	0-2	50.586	Jai Prakash, Rohtas, Jai Singh, Mahabeer Singh, Ranbeer Singh S/o Prem Raj, Prem Raj S/o Nahana S/o Hans Raj, Smt. Barfi Widow, Basanti Krishan D/o, Chotu, Satbeer, Jai Bhagwan, Ram Phal S/o Khem Chand, Smt. Sheela Widow, Smt. Jyoti D/o, Bhoopender, Jitender S/o Krishan
					6	Private	Irrigated	0-4	101.172	Ramesh, Suresh, Naresh S/o Ram Phal, Shamsher S/o Daya Chand, Mannu S/o Ram Kanwar, Ram Phal, Daya Chand, Ram Kanwar S/o Man Singh, Smt. Sunil D/o Harender, Ajay S/o Phoolpati D/o Man Singh
					7	Private	Irrigated	6-11	3313.383	
					8	Private	Irrigated	0-18	455.274	
					753	Panchayat	Path	0-9	227.637	Village Panchayat
					14	Private	Irrigated	4-2	2074.026	Om Prakash, Ravinder Kumar S/o Hukum Singh
					15	Private	Irrigated	3-16	1922.268	
					16	Private	Irrigated	6-15	3414.555	Mahender Singh, Om Prakash S/o Ratan Singh
					17	Private	Irrigated	0-8	202.344	
					25	Private	Irrigated	2-2	1062.306	
				72//						
					154	Panchayat	Non Irrigated	0-12	303.516	Village Panchayat
					20	Private	Irrigated	0-14	354.102	Om Prakash, Ravinder Kumar S/o Hukum Singh S/o Chandgi
					21	Private	Irrigated	0-5	126.465	
					Total Area of Village			166-14	84326.862	
		(3) Lakria, 6		10//						
					20 Min	Private	Irrigated	0-2	50.586	Shanti D/o, Jora Singh, Ishwar Singh, Kanwal Singh S/o Rama, Suresh Kumar S/o, Parwati D/o Rama, Smt. Prem, Azad Kaur, Savitri Devi D/o, Kitab Singh, Jasbeer, virender S/o Sube Singh, Raghbeer Singh, Ram Chander D/o Mange Ram.
					21/2/1	Private	Irrigated	2-0	1011.72	
					21/2/2	Private	Irrigated	2-11	1289.943	Raghbeer, Ram Chander S/o Mange Ram
					21/2/3	Private	Path	0-0	0	Raghbeer Singh, Ram Chand S/o Mange Ram, Sadhu Ram S/o Made Singh, Smt. Shanti, Ishwar Singh, Jorawar Singh, Kanwar Singh S/o Rama, Suresh Kumar S/o Smt. Parwati D/o Rama, Smt. Shanti Widow, Maman, Hariprem, Mahipal, Raj Singh, Sanjay Kumar S/o, m Panmeshwari D/o Karan Singh, Smt. Prem, Azad Kaur, Savitri Devi D/o, Kitab Singh, Jasbeer, Birender S/o Sube Singh
					Path	Panchayat	Path	0-9	227.637	Village Panchayat
				11//						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					25	Private	Irrigated	0-16	404.688	Ragbbeer, Ram Chander S/o Mange Ram
				12//						
					5	Private	Irrigated	0-1	25.293	Bhane S/o Neta, Jasbeer Singh S/o Sube Singh, Smt. Devki Widow, Sandeep S/o Sube Singh, Maha Singh, Khazan S/o Bhana, Smt. Priya S/o Jai Singh
				13//						
					1/1	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Ragbbeer, Ram Chander S/o Mange Ram
					1/2	Private	Irrigated	2-10	1264.65	Bhane S/o Neta, Jasbeer Singh S/o Sube Singh, Smt. Devki Widow, Sandeep S/o Sube Singh, Maha Singh, Khazan S/o Bhana, Smt. Priya S/o Jai Singh
					1/3	Private	Irrigated	1-2	556.446	Bhane S/o Neta, Jasbeer Singh S/o Sube Singh, Smt. Devki Widow, Sandeep S/o Sube Singh, Maha Singh, Khazan S/o Bhana, Smt. Priya S/o Jai Singh
					8/2	Private	Irrigated	0-0	0	Kude S/o Jamna, Ram Singh S/o Jamna, Pawan S/o Ram Singh, Anil, Sunil S/o Jai Singh, Smt. Chandrakal Widow, Rona, Meena D/o Jai Singh, Bhunesh, Manish S/o Krishan, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan.
					9	Private	Irrigated	5-12	2832.816	Kude S/o Jamna, Ram Singh S/o Jamna, Pawan S/o Ram Singh, Anil, Sunil S/o Jai Singh, Smt. Chandrakal Widow, Rona, Meena D/o Jai Singh, Bhunesh, Manish S/o Krishan, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan.
					10	Private	Irrigated	2-5	1138.185	Bhane S/o Neta, Jasbeer Singh S/o Sube Singh, Smt. Devki Widow, Sandeep S/o Sube Singh, Maha Singh, Khazan S/o Bhana, Smt. Priya S/o Jai Singh
					12	Private	Irrigated	5-17	2959.281	Kude S/o Jamna, Ram Singh S/o Jamna, Pawan S/o Ram Singh, Anil, Sunil S/o Jai Singh, Smt. Chandrakal Widow, Rona, Meena D/o Jai Singh, Bhunesh, Manish S/o Krishan, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan.
					13/1	Private	Irrigated	1-18	961.134	Kude S/o Jamna, Ram Singh S/o Jamna, Pawan S/o Ram Singh, Anil, Sunil S/o Jai Singh, Smt. Chandrakal Widow, Rona, Meena D/o Jai Singh, Bhunesh, Manish S/o Krishan, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan.
					18/1	Private	Irrigated	0-4	101.172	Dayanand, Subhash etc. M/s Pawan Food Products Dighal
					18/2	Private	Irrigated	3-8	1719.924	Kude S/o Jamna, Ram Singh S/o Jamna, Pawan S/o Ram Singh, Anil, Sunil S/o Jai Singh, Smt. Chandrakal Widow, Rona, Meena D/o Jai Singh, Bhunesh, Manish S/o Krishan, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan.
					19	Private	Irrigated	2-1	1037.013	Kude S/o Jamna, Smt. Savita W/o Ajit Singh, Poonam W/o Narender Singh, Smt. Chanderkala Widow, Anil, Sunil S/o, Reena, Meena D/o Jai Singh, Ram Singh S/o Jamna, Bhunesh, Manish S/o Krishan S/o Ram Singh, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan S/o Ram Singh
					22	Private	Irrigated	0-0	0	Balveer S/o Bhagwan Singh
					23/1	Private	Irrigated	3-4	1618.752	Bharpai Widow, Darshana, Bimala D/o, Ramavtar S/o Ram Kala
					23/2	Private	Irrigated	0-18	455.274	Village Panchayat
					24	Private	Irrigated	0-9	227.637	Village Panchayat
					332	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
						Path	Panchayat	Path	0-2	50.586
				20//						
					3	Private	Irrigated	1-19	986.427	Katar Singh, Jagbeer S/o Dalip, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh.
					4	Private	Irrigated	2-8	1214.064	Surat Singh S/o Asha, Ram Kishan, Seh Dev, Kaptan Singh Sons Surat Singh
					7	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Surat Singh S/o Asha, Ram Kishan, Seh Dev, Kaptan Singh Sons Surat Singh
					8	Private	Irrigated	1-9	733.497	Katar Singh, Jagbeer S/o Dalip, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh.
					13/1	Private	Irrigated	1-4	607.032	Katar Singh, Jagbeer S/o Dalip, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					13/2	Private	Canal	0-2	50.586	Bhoop Singh, Kapoor Singh, Daya Nand, Sukhbeer Singh, Jai Bhagwan Singh, Jai Singh aka Bijender Singh S/o Khem Chand, Katar Singh, Jagbeer Singh, Manoj Kumar, Om Prakash S/o Katar Singh.
					14/1	Private	Irrigated	2-8	1214.064	Jagbeer Singh S/o Lok Ram, Balwant Singh S/o Shyaji
					14/2	Govt	Canal	0-5	126.465	Haryana Government
					303-	Govt	Canal	0-5	126.465	
					17/1/1	Govt	Canal	0-5	126.465	
					17/1/2	Private	Irrigated	2-11	1289.943	Jagbeer Singh S/o Lok Ram, Balwant Singh S/o Shyaji
					17/2	Panchayat	Water Channel	0-4	101.172	Village Panchayat
					18/1	Govt.	Canal	0-2	50.586	Haryana Government
					18/2	Private	Irrigated	1-6	657.618	Jumla Malkaan, Deegar Hakdaran Hadbast, Rakba Khewat
					70	Panchayat	Consolidated Land	0-15	379.395	Village Panchayat
					24/1	Panchayat	Water Channel	0-4	101.172	Haryana Government
					24/2	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Jagbeer Singh S/o Lok Ram, Balwant Singh S/o Shyaji
					86	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					73	Panchayat	Pond	1-18	961.134	
					89	Panchayat	Plot	1-6	657.618	Karan Singh, Jile Singh, Satvir Singh Sons, Desram, Rajvir, somvir Sons Kewal Singh, Nefe Singh, Ramphal, Raj Kumar Sons, Saroop Singh
				25//						
					4/1	Panchayat	Water Channel	0-4	101.172	Haryana Government
					4/2	Private	Irrigated	2-9	1239.357	Azad Singh, Rajveer Singh S/o Jai Lal
					189	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Karan Singh, Jile Singh, Satvir Singh Sons, Desram, Rajvir, somvir Sons Kewal Singh, Nefe Singh, Ramphal, Raj Kumar Sons, Saroop Singh
					190	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					191	Private	Plot	0-2	50.586	
					192	Private	Plot	0-2	50.586	
					193	Private	Plot	0-2	50.586	
										Smt Samjho Devi Devi Widow, Satbeer S/o, Rajbanti, Jalbanti, Bhatari, Kamlesh, Prem D/o Ja', Jaibeer, Naval S/o Daryav Singh. Smt Bhanmati Widow, Suman, Manju, Rekha D/o, Deepak S/o Raj Singh Malkan Kabza Smt Nihali Widow Amar Singh S/o Naki
					194	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ranbeer Singh, Rajbeer Singh, Dharambeer Singh, Jagdev Singh, Satyov Singh, Jagbeer Singh S/o Balbeer Singh.
					195	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Tek Ram, Sunder Lal S/o Ram Saroop
					196	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Bhaana, Jai Narayan, Prakash, Rajender S/o Baldeva, Smt. Phoolvati Widow, Jagdish Chand, Sanjeev, Jaggal S/o, Poonam Devi D/o Suraj Bhan
					197	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Om Prakash, Raghbeer S/o Shibu.
					198	Private	Plot	0-2	50.586	Ranbeer, Rajbeer Singh, Dharambeer, Jagdev, Satyov, Jagbeer S/o Balbeer
					199	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Suraj Bhan, Diulbagh Singh, Suresh, Ramesh S/o Pyare Lal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					200	Private	Plot	0-2	50 586	Hukum Chand, Tara Chand, Ram Phal, Jagdish, Ram Saroop S/o Hamarayan
					201	Private	Plot	0-2	50 586	Jaage Ram, Risal Singh, Munshi Ram,
					202	Private	Plot	0-2	50 586	Mukhtyar Singh, Hawa Singh S/o Ram Singh
					6/1	Private	Irrigated	0-0	0	Smt. Shanti Widow, Santra, Rajbala D/o Udmil S/o Deepu, Jai Singh, Dharam Singh, Ran Singh S/o Udmil, Attar Singh, Ramesh, Suraj Bhan S/o Randheer
					6/2	Panchayat	Water Channel	0-0	0	Village Panchayat
					7/1	Private	Irrigated	1-15	885 255	Smt Shanti Widow, Santra, Rajbala D/o Udmil S/o Deepu, Jai Singh, Dharam Singh, Ran Singh S/o Udmil, Attar Singh, Ramesh, Suraj Bhan S/o Randheer
					7/2	Panchayat	Water Channel	0-5	126 465	Village Panchayat
					146	Private	Garden	0-7	177.051	Om Prakash, Ragheer S/o Shibu.
					147/1	Private	Plot	0-5	126 465	Suraj Bhan, Dilbagh Singh, Suresh, Ramesh S/o Pyare Lal
					147/2	Private	Plot	0-4	101.172	88/123 Ki Malkiyat Wale Maalik
					148	Private	Garden	0-7	177.051	Ranbeer Singh, Rajbeer Singh, Dharambeer Singh, Jagdev Singh, Satyov Singh, Jagbeer Singh S/o Balbeer Singh.
					149	Private	Plot	0-6	151.758	Tek Ram, Sunder Lal S/o Ram Saroop
					150	Private	Garden	0-6	151.758	Karan Singh, Jile Singh, Satvir Singh Sons, Desram, Rajvir, somvir Sons Kewal Singh, Nefe Singh, Ramphal, Raj Kumar Sons Saroop Singh
					151	Private	Plot	0-12	303.516	Smt. Rumalo Devi Widow, Rajwanti, Jalwanti, Bhatari, Kamlesh, Prem D/o Jai Lal, Satbeer S/o Jai Lal, Jaivir, Naval Singh S/o Dariyav Singh, Bhanwati Widow, Suman, Manju, Rekha D/o, Deepak S/o Raj Singh.
					152	Private	Garden	0-7	177 051	Bhaana, Jai Narayan, Prakash, Rajender S/o Baldeva, Smt Phoolvati Widow, Jagdish Chand, Sanjeev, Jagpal S/o, Poonam Devi D/o Suraj Bhan
					153	Private	Garden	0-6	151.758	Jaage Ram, Risal Singh, Munshi Ram, Mukhtyar Singh, Hawa Singh S/o Ram Singh
					155	Private	Garden	0-5	126 465	Subhash S/o Nahani, Premo D/o, Balwan Singh, Krishan S/o Inder, Roshani Devi Widow, Chand Singh, Seeta Ram S/, Reena D/o Kamal Singh, Maha Singh S/o Smt. Nahani
					156	Private	Garden	0-6	151.758	Seelak Ram, Anand Singh S/o, Smt. Omwati W/o Duli Chand S/o Jugga
					338	Panchayat	Path	0-3	75 879	Village Panchayat
					159	Private	Garden	0-5	126 465	Rajpal Singh, Dharampal Singh S/o Surat Singh, Smt. Vedo Widow, Deepak S/o Jai Lal, Smt. Murti Widow, Ram Kishan, Rakesh S/o Jite S/o Miter Singh, Jeete S/o Miter Singh
					160	Private	Garden	0-6	151.758	Prathi S/o Kurdiya S/o Ramji Lal
					163	Private	Garden	0-4	101.172	Smt. Kitabo Widow, Ramrati, Rajesh, Santosh D/o, Ishwar Singh, Dharamveer, Vijender, Raj Kumar, Mukesh S/o Basti Ram, Richa Ram S/o Harde Ram.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					164	Private	Garden	0-13	328.809	Suresh Kumar, Rajesh Kumar S/o Hosniyar Singh, Kartar Singh, Raj Kapoor S/o Sri Narayan, Dilbagh, Devender S/o, Smt. Tara, Nirmala D/o Ram Bhagat, Smt. Khazani W/o Suraj Bhan, Om Prakash S/o Butiya.
					166	Private	Garden	0-6	151.758	Dalpat Singh, Malik Ram S/o Beh Ram, Om Prakash, Suresh, Mukesh S/o Dalpat Singh, Devender, Bijender, Praveen Kumar S/o Malik Ram
					167	Private	Garden	0-7	177.051	Raghbeer Singh, Ram Kishan S/o Mansha, Jeet, Jagjeet S/o, Jeeto D/o Sardari, Kanwar Singh S/o Mansha, Smt. Pyan Widow, Anita, Sunita D/o, Surender S/o Kanwar Singh, Bharpai Widow, Darshana, Bimala D/o, Ramavtar S/o Ram Kala, Azad Singh, Dayanand S/o Rameshwar, Smt. Khazani Widow, Balbeer Singh, Ranbeer Singh, Satbeer Singh, Mahaveer Singh, Om Prakash, Shakti Singh S/o, Kamala D/o Hukum Chand, Mahaveer S/o Hukum Chand, Dayanand, Subhash etc. M/s Pawan Food Products Dighal
					168	Private	Garden	1-2	556.446	Jaage Ram, Risal Singh, Munshi Ram, Mukhtyar Singh, Hawa Singh S/o Ram Singh
					169	Private	Plot	0-16	404.688	Tek Ram, Sunder Lal S/o Ram Saroop
					170	Private	Garden	1-3	581.739	Bhaana, Jai Narayan, Prakash, Rajender S/o Baldeva, Smt. Phoolvati Widow, Jagdish Chand, Sanjeev, Jagpal S/o, Poonam Devi D/o Suraj Bhan
					171	Private	Plot	0-13	328.809	Umed Singh, Rambeer S/o Rati Ram
					172/1	Private	Plot	0-7	177.051	Azad Singh, Rajveer Singh S/o Jai Lal
					172/2	Private	Plot	0-7	177.051	Smt. Shanti Widow, Santra, Rajbala D/o Udmi S/o Deepu, Jai Singh, Dharam Singh, Ran Singh S/o Udmi, Attar Singh, Ramesh, Suraj Bhan S/o Randheer
					173	Private	Garden	0-9	227.637	Surat Singh S/o Asha, Ram Kishan, Seh Dev, Captaan Singh S/o Surat Singh
					174	Private	Garden	0-8	202.344	Rajpal Singh, Dharampal Singh S/o Surat Singh, Smt. Vedo Widow, Deepak S/o Jai Lal, Smt. Murti Widow, Ram Kishan, Rakesh S/o Jite S/o Miter Singh, Jeete S/o Miter Singh
					15/1	Panchayat	Water Channel	0-4	101.172	Village Panchayat
					15/2	Private	Irrigated	0-3	75.879	Prathi S/o Kurdiya S/o Ramji Lal
					16/1	Private	Irrigated	0-16	404.688	
					16/2	Panchayat	Water Channel	0-4	101.172	Haryana Government
					24/2	Private	Irrigated	1-7	682.911	Record not Available
					25/1	Panchayat	Water Channel	0-5	126.465	Prathi S/o Kurdiya
					25/2	Govt.	Irrigated	1-2	556.446	Haryana Govt.
					97	Private	Plot	0-8	202.344	Smt. Dharmo Widow, Ram Kanwar, Jai Kishan, Ram Kishan, Jagdish S/o, Smt. Shanti, Murti, Vimala D/o Duli Chand
					98	Private	Plot	0-3	75.879	Sukhlal S/o Kurdiya
				33//						
					85	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					5/1	Panchayat	Water Channel	0-4	101.172	
					5/2	Private	Irrigated	0-1	25.293	Prathi S/o Kurdiya S/o Ramji Lal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					334	Panchayat	Path	0-10	252.93	Village Panchayat
					6/1	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Om Prakash S/o Shibhu, Dharampal Singh S/o Surat Singh, Ranbeer S/o Hukum Chand, Deepak S/o Jai Lal, Bijender S/o Munshi Ram, Dharambeer Singh S/o Basti Ram, Rajender Singh S/o Rache Ram, Rajpal Singh S/o Surat Singh
					6/2	Panchayat	Water Channel	0-5	126.465	Village Panchayat
					7	Panchayat	Irrigated	0-8	202.344	
					7/1	Panchayat	Plot	0-0	0	
					7/2	Panchayat	Plot	0-1	25.293	
					7/3	Panchayat	Plot	0-1	25.293	
					Path	Panchayat	Path	0-2	50.586	
					7/4	Panchayat	Plot	0-1	25.293	
					7/5	Panchayat	Plot	0-1	25.293	
					7/6	Panchayat	Plot	0-0	0	
					14	Panchayat	Irrigated	0-12	303.516	
					15/1	Panchayat	Water	0-5	126.465	
					15/2	Panchayat	Irrigated	2-15	1391.115	Village Panchayat.- Made Singh S/o Ratiram Mortgage
					16/1	Private	Plot	0-3	75.879	Sardare S/o Ram Saroop
					16/2	Private	Plot	0-3	75.879	Daya Nand S/o Chandgi Ram
					16/3	Private	Plot	0-3	75.879	Dharam Singh S/o Sheesh Ram
					16/4	Panchayat	Plot	0-0	0	Village Panchayat.- Made Singh S/o Ratiram Mortgage
					16/8	Panchayat	Plot	2-10	1264.65	
					17/5	Private	Plot	0-0	0	Raje S/o Kewal
					17/6	Private	Plot	0-3	75.879	Baiwan S/o Raaje
					17/7	Private	Plot	0-3	75.879	Ram Kanwar S/o Duli Chand
					17/8	Private	Plot	0-0	0	Nand Lal S/o roop Chand
					17/18	Panchayat	Plot	0-3	75.879	Village Panchayat
					17/19	Panchayat	Plot	0-6	151.758	
					91	Panchayat	Hospital	0-13	328.809	
					92	Panchayat	Panchayat Room	0-17	429.981	
					24	Panchayat	Irrigated	1-8	708.204	
					25	Panchayat	Animal Husbandry	3-0	1517.58	Animal Department Haryana (Chandigarh)
					201	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Jaage Ram, Risal Singh, Munshi Ram, Mukhtyar Singh, Hawa Singh S/o Ram Singh
					202	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					203	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Azad Singh, Rajveer Singh S/o Jai Lal
					204	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt. Shanti Widow, Santra, Rajbala D/o Udmri S/o Deepu, Jai Singh, Dharam Singh, Ran Singh S/o Udmri, Attar Singh, Ramesh, Suraj Bhan S/o Randheer
					205	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Umed Singh, Ranbeer S/o Rati Ram
					206	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Om Prakash S/o Bhutia, Satish Kumar, Surjeet Singh S/o Om Prakash
					207	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Surat Singh S/o Asha, Ram Kishan, Seh Dev, Captaan Singh S/o Surat Singh
					208	Private	Plot	0-2	50.586	Jai Bhagwan S/o, Khazani W/o Suraj Bhan, Suraj Bhan S/o Jamna

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					209	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Seolak Ram, Anand Singh S/o, Smt Omwati W/o Duli Chand S/o Jugga
					210	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Subhash S/o Nahani, Premo D/o, Balwant Singh, Krishan S/o Inder, Roshani Devi Widow, Chand Singh, Saeta Ram S/, Reena D/o Kamal Singh Maha Singh S/o Nahani
					211	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Ajit Singh, Baljeet Singh, Talat Singh S/o Jite Singh
					212	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Rajpal Singh, Dharampat Singh S/o Surat Singh, Smt. Vedo Widow, Deepak S/o Jai Lal, Smt. Murti Widow, Ram Krishan, Rakesh S/o Jite S/o Miter Singh, Jeete S/o Mitor Singh
					213	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					214	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt Kitabo Widow, Ramrati, Rajesh, Santosh D/o, Ishwar Singh, Dharamveer Vijender, Raj Kumar, Mukesh S/o Basti Ram, Richa Ram S/o Harde Ram
					215	Private	Plot	0-2	50.586	Jagboer Singh S/o Lok Ram, Balwant Singh S/o Shyaji
					216	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Smt. Khazari, Dayamo D/o Kala Balbeer Singh, Ranbeer Singh, Ranbeer Singh, Mahabeer Singh, Rajbeer Singh, Jagender, Om Prakash, Shakti Singh S/o Mahan Singh
					217	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Reghbeer Singh, Ram Kishan D/o Mansha, Jeet, Jagjot S/o, Jeeto D/o Sardar Kanwar Singh S/o Mansha, Smt. Pyari Widow, Anita Sunita D/o, Surender S/o Kanwar Singh, Bharpai Widow, Darshana, Birnaia D/o, Ramavtar S/o Ram Kala, Azad Singh, Dayanand S/o Rameshwar, Smt. Khazari Widow, Balbeer Singh, Ranbeer Singh, Satbeer Singh, Mahaveer Singh, Om Prakash, Shakti Singh S/o, Kamala D/o Hukum Chand, Mahaveer S/o hukum Chand, Dayanand, Subhash etc. M/s Pawan Food Products Dighal
					218	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					219	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					220	Private	Manure Pit	0-2	50.586	
					221	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Prathi S/o Kurdiya S/o Ramji Lal
					222	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Dalpat Singh, Malik Ram S/o Beh Ram, Om Prakash, Suresh, Mukesh S/o Dalpat Singh, Devender, Bijender, Praveen Kumar S/o Malik Ram
					223	Private	Manure Pit	0-2	50.586	Surajmal, Ramesh, Attar Singh, Rajesh Kumar, Suresh Kumar S/o Hoshiyar Singh, Balwant,, Singh S/o Mansha, Dilbagh, Devender S/o, Tara, Nirmala D/o Ram Bhagat
				40//						
					4	Panchayat	Irigated	0-5	126.465	Village Panchayat
					5/1	Panchayat	Barren	1-4	607.032	
					5/2	Govt.	Animal Husbandry	2-16	1416.408	Animal Department Haryana (Chandigarh)
					349	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					6/1	Panchayat	Barren	3-0	1517.58	
					6/2	Panchayat	Barren	1-8	708.204	
					15/1	Panchayat	Barren	1-8	708.204	
					15/2	Panchayat	Barren	2-12	1315.236	
					93	Panchayat	Path	0-2	50.586	Village Panchayat
					16/1	Panchayat	Barren	1-16	910.548	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					16/2	Panchayat	Barren	1-7	682.911	
					25/1	Private	Irrigated	1-9	733.497	Sunder Singh, Jai Bhagwan S/o Azad Singh, Narsi D/o Mai Chand, Jai Chand, Ranbeer Singh S/o Tule Ram, Vijender Singh, S/o Jagan Singh, Smt Savitri Widow Jagan Singh.
					25/2	Private	Irrigated	0-18	455.274	Jumla Malkaan, Deegar Hakdaran Hadbast Rakba Khewat
				41//						
					10	Panchayat	Barren	0-0	0	Village Panchayat
					11	Panchayat	Barren	0-7	177.051	
					20	Panchayat	Barren	1-4	607.032	
					21	Shiv Mandir	Barren Land	2-0	1011.72	Shiv Mandir Lakariya Kaasht Khana Makbujia Malkan
				48//						
					1	Private	Irrigated	2-15	1391.115	Dilbagh Singh, Devender Singh S/o Ram Bhagat, Pankaj Kumar S/o Dilbagh Singh, Sri Mati Chetna Widow, Devender S/o Ram Bhagat
					10	Private	Irrigated	2-16	1416.408	
					11	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Charid Singh, Ram Phal, Sant Ram, Jag Dev, Ranbeer, Prakash, Naresh S/o Surat Singh
					20	Private	Irrigated	2-16	1416.408	
					21/1	Private	Irrigated	0-13	328.809	Katar Singh S/o Dalip Singh, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh, Dilbagh Singh S/o Bharat Singh, Ranbeer Singh S/o Surat Singh, Harkesh Singh S/o Ram Prasad, Raj Kumar S/o Kanwal Singh
					21/2	Private	Irrigated	2-11	1289.943	Vijay Dutt S/o Banwan Lal
					311	Panchayat	water	0-2	50.586	Village Panchayat
					383	Panchayat	Path	0-3	75.879	
				49//						
					5/1	Private	Irrigated	1-7	682.911	Sunder Singh, Jai Bhagwan S/o Azad Singh, Narsi D/o Mai Chand, Jai Chand, Ranbeer Singh S/o Tule Ram, Vijender Singh, S/o Jagan Singh, Smt Savitri Widow Jagan Singh.
					5/2	Private	Irrigated	0-2	50.586	Dilbagh Singh, Devender Singh S/o Ram Bhagat, Pankaj Kumar S/o Dilbagh Singh, Sri Mati Chetna Widow, Devender S/o Ram Bhagat
					6	Private	Irrigated	1-7	682.911	Sunder Singh, Jai Bhagwan S/o Azad Singh, Narsi D/o Mai Chand, Jai Chand, Ranbeer Singh S/o Tule Ram, Vijender Singh, S/o Jagan Singh, Smt Savitri Widow Jagan Singh.
					15/1	Private	Irrigated	0-17	429.981	
					15/2	Private	Irrigated	0-12	303.515	Katar Singh S/o Dalip Singh, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh, Dilbagh Singh S/o Bharat Singh, Ranbeer Singh S/o Harkesh Singh S/o Ram Prasad, Raj Kumar S/o Kanwal Singh
					16	Private	Irrigated	1-8	708.204	
					25	Private	Irrigated	0-18	455.274	
				55//						
					5	Private	Irrigated	0-2	50.586	Bhoop Singh, Kapoor Singh, Deva Nand, Sukhbeer Singh, Jai Singh aka Daljeet Singh, Jai Bhagwan Singh, Anand Singh aka Bijender S/o Khem Chand.
				56//						
					1/1	Private	Irrigated	1-6	657.518	
					1/2	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Ranbeer Singh, Rajbeer Singh, Dharambeer

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					9	Private	Irrigated	0-0	0	Singh, Jagdev Singh, Satyov Singh, Jagbeer Singh S/o Balbeer Singh.
					10/1	Private	Irrigated	2-12	1315.236	
					10/2	Private	Irrigated	1-8	708.204	Bhoop Singh, Kapoor Singh, Daya Nand Sukhbeer Singh, Jai Singh aka Rajdev Singh, Jai Bhagwan Singh, Anand Singh, aka Bijender S/o Khem Chand
					11/1	Private	Irrigated	1-8	708.204	Naresh Kumar S/o Daya Ram, Kudeep Katar S/o Rajesh Kumar
					11/2	Private	Irrigated	2-8	1214.064	Ranbeer Singh, Rajbeer Singh, Dharambeer Singh, Jagdev Singh, Satyov Singh, Jagbeer Singh S/o Balbeer Singh
					359	Panchayat	Path	0-2	50.586	Village Panchayat
					12	Private	Irrigated	0-6	151.758	Ranbeer Singh, Rajbeer Singh, Dharambeer Singh, Jagdev Singh, Satyov Singh, Jagbeer Singh S/o Balbeer Singh
					19	Private	Irrigated	1-0	505.86	
					20/1	Private	Irrigated	1-12	809.376	
					20/2/1	Private	Irrigated	1-5	632.325	Jagbeer Singh, Katar Singh S/o Dalip Singh, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh, Jagbeer Singh S/o Bharat Singh, Ranbeer Singh S/o Harkesh Singh S/o Ram Prasad, Raj Kumar S/o Kanwal Singh
					20/2/2	Private	Irrigated	0-3	75.879	Katar Singh, Jagbeer S/o Dalip, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh
					21/1	Private	Irrigated	1-9	733.497	Katar Singh, Jagbeer S/o Dalip, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh
					21/2/1	Private	Irrigated	0-2	50.586	Ranbeer Singh, Rajbeer Singh, Dharambeer Singh, Jagdev Singh, Satyov Singh, Jagbeer Singh S/o Balbeer Singh.
					21/2/2	Private	Irrigated	0-12	303.516	Kude S/o Jamna, Smt. Savita W/o Ajit Singh, Poonam W/o Narender Singh, Smt. Chanderkala Widow, Anil, Sunil S/o, Reena, Meena D/o Jai Singh, Ram Singh S/o Jamna, Bhunesh, Manish S/o Krishan S/o Ram Singh, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan S/o Ram, Singh, Balveer S/o Bhagwan Singh
					22/1	Private	Irrigated	0-2	50.586	Ranbeer Singh, Rajbeer Singh, Dharambeer Singh, Jagdev Singh, Satyov Singh, Jagbeer Singh S/o Balbeer Singh
					22/2	Private	Irrigated	1-11	784.083	Kude S/o Jamna, Smt. Savita W/o Ajit Singh, Poonam W/o Narender Singh, Smt. Chanderkala Widow, Anil, Sunil S/o, Reena, Meena D/o Jai Singh, Ram Singh S/o Jamna, Bhunesh, Manish S/o Krishan S/o Ram Singh, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan S/o Ram Singh, Balveer S/o Bhagwan Singh
					77	Govt.	Canal	3-10	1770.51	Provincial Government
				63//						
					1/1	Private	Irrigated	0-4	101.172	Katar Singh, Jagbeer S/o Dalip, Manoj, Om Prakash S/o Katar Singh.
					1/2	Private	Irrigated	0-2	50.586	Kude S/o Jamna, Smt. Savita W/o Ajit Singh, Poonam W/o Narender Singh, Smt. Chanderkala Widow, Anil, Sunil S/o, Reena, Meena D/o Jai Singh, Ram Singh S/o Jamna, Bhunesh, Manish S/o Krishan S/o Ram Singh, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan S/o Ram Singh, Balveer S/o Bhagwan Singh
					2	Private	Irrigated	1-18	961.134	
					9/2	Private	Irrigated	0-1	25.293	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					9/3	Private	Irrigated	0-17	429.981	Kanwal Singh S/o Dalip Singh aka Nahna S/o Hardhan, Mahabeer S/o Kuldeep Singh
					10	Private	Irrigated	1-10	758.79	Kude S/o Jamna, Smt. Savita W/o Ajit Singh, Poonam W/o Narender Singh, Smt. Chanderkala Widow, Anil, Sunil S/o, Reena, Meena D/o Jai Singh, Ram Singh S/o Jamna, Bhunesh, Manish S/o Krishan S/o Ram Singh, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan S/o Ram Singh Balveer S/o Bhagwan Singh
					11	Private	Irrigated	1-7	682.911	Bhunesh, Manish S/o Krishan S/o Ram Singh, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan S/o Ram Singh Balveer S/o Bhagwan Singh
					12	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Kanwal Singh S/o Dalip Singh aka Nahna S/o Hardhan, Mahabeer S/o Kuldeep Singh
					19	Private	Irrigated	2-14	1365.822	
					20	Private	Irrigated	0-15	379.395	Kude S/o Jamna, Smt. Savita W/o Ajit Singh, Poonam W/o Narender Singh, Smt. Chanderkala Widow, Anil, Sunil S/o, Reena, Meena D/o Jai Singh, Ram Singh S/o Jamna, Bhunesh, Manish S/o Krishan S/o Ram Singh, Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan S/o Ram Singh Balveer S/o Bhagwan Singh
					22	Private	Irrigated	0-17	429.981	Smt. Ishwanti W/o Sri Krishan S/o Ram Singh Balveer S/o Bhagwan Singh
					360	Panchayat	Path	0-12	303.516	Village Panchayat
					Total Area of Village			183-5	93002.361	
			(4) Sheria, 9	3//						
					20	Private	Irrigated	0-1	25.293	Dharampal - Dilbag - Jaipal S/o, Santosh D/o Ram Kalan S/o Nanha, Smt. Kela Devi Widow, Sandeep - Mandeep S/o Vedpal S/o Ram Kalan
					106	Panchayat	Path	0-5	126.465	Panchayat Deh
					21/2	Private	Barren Land	1-10	758.79	Vijay S/o Balbir, Raj Kumar S/o Ram Kishan, Mahesh S/o Mahavir Singh, Naveen - Sawin S/o Ranvir Singh, Ram Kawar - Narender S/o Dalip Singh S/o Bhagat Singh
					22	Private	Irrigated	1-13	834.669	Smt. Khajani Widow, Prem Singh S/o, Chanderpatti - Savitri - Ompati D/o Kalawati D/o Harnarayan S/o Amar Singh
				4//						
					1/2	Private	Barren Land	0-0	0	Vijay S/o Balbir, Raj Kumar S/o Ram Kishan, Mahesh S/o Mahavir Singh, Naveen - Sawin S/o Ranvir Singh, Ram Kawar - Narender S/o Dalip Singh S/o Bhagat Singh
					2/1	Private	Barren Land	1-9	733.497	Smt. Khajani Widow, Prem Singh S/o, Chanderpatti - Savitri - Ompati D/o Kalawati D/o Harnarayan S/o Amar Singh
					2/2	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Smt. Khajani Widow, Prem Singh S/o, Chanderpatti - Savitri - Ompati D/o Kalawati D/o Harnarayan S/o Amar Singh
					8	Private	Irrigated	0-0	0	D/o Harnarayan S/o Amar Singh
					9/1	Private	Irrigated	2-17	1441.701	
					9/2	Private	Barren Land	1-7	682.911	Rajender - Rohtash - Jagbir S/o, Krishna D/o Pataso, Smt. Shakuntla - Angoori D/o, Kartar - Ram Chander - Chander Bhan S/o Harnath, Smt. Phoola Widow, Jagbir - Kuldeep S/o, Rajwanti D/o Juglal, Dharampal S/o Juglal, Sarjeet S/o Subay Singh S/o Jhunda
					12/1	Private	Irrigated	1-8	708.204	Smt. Khajani Widow, Prem Singh S/o, Chanderpatti - Savitri - Ompati D/o Kalawati D/o Harnarayan S/o Amar Singh
					12/2	Private	Irrigated	0-8	202.344	D/o Harnarayan S/o Amar Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					12/3	Private	Irrigated	2-1	1037.013	Dalpat Singh - Ram Karan - Ram Parsad S/o Bakhtawar, Tek Ram S/o Ram Mehar, Bijender - Pardeep S/o Ram Parsad
					13	Private	Irrigated	0-8	202.344	
					18/2	Private	Irrigated	1-6	657.618	Smt. Mamta Widow, Rajender S/o Ramphal
					19/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	
					19/2/1	Private	Irrigated	1-3	581.739	Salender S/o Jitender Singh S/o Umed
					19/2/2	Private	Irrigated	0-9	227.637	Smt. Sheel Kaur Widow, Minakhi D/o, Vikash S/o Mahender Singh S/o Umed
					729	Panchayat	Path	0-5	126.465	Panchayat Deh
					22/1	Private	Irrigated	1-7	682.911	Smt. Sheel Kaur Widow, Minakhi D/o, Vikash S/o Mahender Singh S/o Umed
					22/2	Private	Irrigated	0-9	227.637	Smt. Sama Kaur - Bharpai - Kela wati D/o, Kidar Singh S/o Desram, Smt. Khajani Widow, Maya D/o, Rajesh S/o Rameshwar S/o Desram
					23	Private	Irrigated	2-0	1011.72	
					730	Panchayat	Path	0-4	101.172	Panchayat Deh
				23/i						
					2/1	Private	Irrigated	0-2	50.586	Jagbir Singh S/o Lal Singh S/o Lehn
					2/2	Private	Irrigated	1-10	758.79	
					3	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Atar Singh - Bhim Singh - Om Parkash S/o, Smt. Birmati D/o Jage Ram, Smt. Shanti Devi Roopwati D/o, Satbir - Jagbir S/o Daryav Singh
					8/1	Private	Irrigated	1-11	784.083	Krishan Singh S/o Kapoor Singh
					8/2	Private	Irrigated	1-5	632.325	Nafe Singh S/o Kanhaiya, Mahender Singh - Priyawarat S/o Hanwant S/o Kanhaiya
					9/1	Private	Irrigated	0-18	455.274	Smt. Meena Widow, Reena D/o, Kuldeep - Sandeep S/o Dharamvir, Suraj Bhan - Ram Chander - Ram Kanwar - Chander Bhan S/o Ratiram, Makvuja Malkan, Smt. Sama Kaur Haqdar Malkan
					9/2	Private	Irrigated	0-15	379.395	Smt. Sama Kaur - Bharpai - Kela wati D/o, Kidar Singh S/o Desram, Smt. Khajani Widow, Maya D/o, Rajesh S/o Rameshwar S/o Desram
					12/1	Private	Irrigated	0-10	252.93	
					12/2	Private	Irrigated	1-3	581.739	Smt. Phoola Devi Widow, Jagdish - Bijender - Rajender - Surender S/o Tekram S/o Rishal Singh
					13	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Nafe Singh S/o Kanhaiya, Mahender Singh - Priyawarat S/o Hanwant S/o Kanhaiya
					18/1	Private	Irrigated	1-4	607.032	Ram Sawroop S/o Gagan S/o Mukhtam
					18/2	Private	Irrigated	1-13	834.669	Smt. Sama Kaur - Bharpai - Kela wati D/o, Kidar Singh S/o Desram, Smt. Khajani Widow, Maya D/o, Rajesh S/o Rameshwar S/o Desram
					19	Private	Irrigated	1-12	809.376	Smt. Phoola Devi Widow, Jagdish - Bijender - Rajender - Surender S/o Tekram S/o Rishal Singh
					22	Private	Irrigated	1-13	834.669	Smt. Shanti Widow, Raj Kumar S/o Khushi Ram, Amit / Kala S/o Parkash
					23	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Suresh Kumar S/o Rajpal, Achook Kumar S/o Suresh Kumar, Jasbir - Sandeep S/o Rajpai
				24/i						
					2	Private	Irrigated	0-1	25.293	Smt. Shanti Widow, Raj Kumar S/o Khushi Ram, Amit / Kala S/o Parkash
					3/1	Private	Irrigated	1-12	809.376	
					3/2	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Suresh Kumar S/o Rajpal, Achook Kumar S/o Suresh Kumar, Jasbir - Sandeep S/o Rajpai

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					8/1	Private	Irrigated	1-12	809.376	
					8/2	Private	Irrigated	1-11	784.083	Kali Ram S/o Rishal Singh S/o Maiya, Ramesh - Ram Avtar - Mukesh Kumar S/o Kali Ram
					13	Private	Irrigated	1-2	556.446	
Total Area of Village								55-14	28176.402	
			(5) Madana, 10 H.B. No. 10	13//						
					7	Private	Irrigated	0-19	480.567	Ram Kanwar, Rajender S/o, Hoshiyare S/o Ratan, Ram Chander, Om Prakash, Shamsher Singh S/o Sehaj Ram S/o Ratan
					14/1	Private	Irrigated	2-6	1163.478	
					14/2	Private	Irrigated	0-11	278.223	Ram Chander, Sube Singh, Ranbeer Singh, Satveer Singh S/o Deep Chand S/o Surja, Smt. Sumitra Widow, Naveen S/o, Smt. Ankita, Swatantra D/o Raj Singh
					17	Private	Irrigated	1-13	1340.529	
					18	Private	Irrigated	1-11	784.083	Vijender S/o Tek Ram
					23	Private	Irrigated	1-7	682.911	
					24/1	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Ram Chander, Sube Singh, Satveer Singh, Ranbeer Singh S/o Deep Chand, Smt. Sumitra Devi Widow, Ankita, Swatantra D/o, Naveen S/o Raj Singh, Ramehar, Baljeet, Om Prakash
					186	Panchayat	water	0-3	75.879	Village Panchayat
					364	Panchayat	Path	0-8	202.344	
				27//						
					3	Private	Irrigated	0-19	480.567	Jag Phool S/o Prabhu Dayal, Vinay Kumar, Saveen kumar S/o Jagphool
					4	Private	Irrigated	2-7	1188.771	Ram Chander, Sube Singh, Satveer Singh, Ranbeer Singh S/o Deep Chand, Smt. Sumitra Devi Widow, Ankita, Swatantra D/o, Naveen S/o Raj Singh, Ramehar, Baljeet, Om Prakash
					7	Private	Irrigated	2-10	1264.650	
					8	Private	Irrigated	0-17	429.981	Jag Phool S/o Prabhu Dayal, Vinay Kumar, Saveen kumar S/o Jagphool
					13	Private	Irrigated	0-17	429.981	
					14	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Ramehar, Baljeet Om Prakash S/o Devi Singh, S/o Lekh Ram, Vijender, Mukesh S/o Ramehar S/o Devi Singh, Satish, Rajesh S/o Baljeet S/o Devi Singh, Sunil, Anil S/o Om Prakash S/o Devi Singh, Arun Kumar, Anil Kumar S/o Virender S/o Bani Singh, Virender S/o Bani Singh, Lekh Ram, Smt. Rajesh S/o Baldeva S/o Mohlad, Umed Singh, Kuldeep Singh S/o Raj Pal, Anoop Singh S/o Dhoop Singh, Jagphool Singh S/o Prabhu Dayal, Somveer Singh S/o Kuldeep Singh, Dilbagh Singh S/o Prithi S/o Kuda, Ankit S/o Om Prakash S/o Khushi Ram., Raj Kumar S/o Khushi Ram
					17	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Dharamveer, Rambeer, Jagveer S/o Ishwar S/o Nyadar, Rajbeer, Hawa Singh, Mahender Prakash S/o Hoshiyara
					18	Private	Irrigated	0-17	429.981	Bheem Singh S/o Prabhu Dayal
					23/2	Private	Irrigated	0-14	354.102	
					23/3	Private	Irrigated	0-4	101.172	
					24	Private	Irrigated	2-14	1365.822	Dharamveer, Rambeer, Jagveer S/o Ishwar S/o Nyadar, Rajbeer, Hawa Singh, Mahender Prakash S/o Hoshiyara
					187	Panchayat	water course	0-2	50.586	Village Panchayat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				29//						
					3	Private	Irrigated	1-7	682.911	Satveer Singh S/o Sultan Singh
					4	Private	Irrigated	2-14	1365.822	Dharamveer, Rambeer, Jagveer S/o Ramwar S/o Nyadar, Rajbeer, Haws Singh, Manender Prakash S/o Hoshiyara
					6	Private	Irrigated	0-3	75.879	Rajveer, Dharamveer, Karamveer, Ramveer
					7/1	Private	Irrigated	2-11	1289.943	S/o Tarachand, Prabhu Surjan
					7/2	Private	Irrigated	1-5	632.325	Smt. Shankuntala W/o Dharamdas S/o Tarachand Singh
					14	Private	Irrigated	1-9	733.497	Rajveer, Dharamveer, Karamveer, Ramveer
					15	Private	Irrigated	2-10	1264.650	S/o Tarachand, Prabhu Surjan
					16	Private	Irrigated	2-12	1315.236	
					17	Private	Irrigated	1-13	834.669	
					24	Private	Irrigated	1-13	834.669	Shammi Kapoor S/o Tek Chand
					25	Private	Irrigated	2-15	1391.115	Rajveer, Dharamveer, Karamveer, Ramveer S/o Tarachand, Prabhu Surjan
				41//						
					4	Private	Irrigated	1-12	809.376	Shammi Kapoor S/o Tek Chand
					5/1	Private	Irrigated	0-14	354.102	Rajveer, Dharamveer, Karamveer, Ramveer S/o Tarachand, Prabhu Surjan
					5/2	Private	Irrigated	2-3	1637.599	Satnarayan S/o Jayanti Ram, Bhoopender S/o Satnarayan, Smt. Raj Bala W/o Satnarayan
					6	Private	Irrigated	3-1	1542.873	
					7	Private	Irrigated	1-9	733.497	Shammi Kapoor S/o Tek Chand
					14	Private	Irrigated	1-9	733.497	Raj Kapoor S/o Tek Chand
					15	Private	Irrigated	2-19	1492.287	Satnarayan S/o Jayanti Ram, Bhoopender S/o Satnarayan, Smt. Raj Bala W/o Satnarayan
					16	Private	Irrigated	2-15	1391.115	
					17	Private	Irrigated	1-12	809.376	Raj Kapoor S/o Tek Chand
					24	Private	Irrigated	1-11	784.083	Umed Singh S/o Tek Chand
					25	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Satnarayan S/o Jayanti Ram, Bhoopender S/o Satnarayan, Smt. Raj Bala W/o Satnarayan
				45//						
					4	Private	Irrigated	1-10	758.790	Umed Singh S/o Tek Chand
					5	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Satnarayan S/o Jayanti Ram, Bhoopender S/o Satnarayan, Smt. Raj Bala W/o Satnarayan
					6/1	Private	Irrigated	1-12	809.376	
					6/2	Private	Irrigated	0-14	354.102	Umed Singh S/o Tek Chand
					159	Panchyat	Path	0-7	177.051	Village Panchayat
					7/1	Private	Irrigated	0-7	177.051	Jog Ram S/o Ram Saroop
					15/1	Private	Irrigated	0-4	101.172	
					15/2	Private	Irrigated	0-18	455.274	Ram Tirth, Rajender, Dharam Pal S/o Devi Singh S/o Ram Saroop
					16/1	Private	Irrigated	0-18	455.274	Ram Kuwar S/o Matu S/o Shweta Ram Satyawari, Mahaveer S/o Mahender S/o Matu Girwar Singh, Ramratan S/o Kirdar Singh S/o Matu
					16/2	Private	Irrigated	0-15	379.395	Jeet Singh S/o Tara Chand S/o Prabhu, Jai Karan S/o Prabhu S/o Sees Ram girwar Singh, Ram Ratan S/o Kirdar Singh S/o Matu Ram, Anil Kumar, Joginder Singh S/o Ram Kuwar S/o Matu, Sate Ram, Mahaveer Singh S/o Matu Ram, Ram Kishan, Smt. Gyano Jeevani D/o Badlu S/o Mohar Singh Smt Shanti Devi Widow, Smt. Sheela D/o Jai Bhagwan S/o Daya Kishan S/o Bad
					25	Private	Irrigated	0-5	126.465	
					188	Panchyat	water course	8-8	4249.224	Village Panchayat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					189	Panchyat	water course	0-9	227.637	
					190	Panchyat	water course	0-1	25.293	
					26	Private	Community Centar	3-0	1517.580	Ram Narayan S/o Smt. Bhateri D/o Tekan S/o Ganga Das
				46//						
					158	Panchyat	Path	0-10	252.930	Village Panchayat
					10	Private	Irrigated	0-1	25.293	Satnarayan S/o Jayanti Ram, Bhoopender S/o Satnarayan, Smt. Raj Bala W/o Satnarayan
					20	Private	Irrigated	1-16	910.548	Ram Kuwar S/o Matu S/o Sheesh Ram, Satyawan, Mahaveer S/o Mahender S/o Matu, Girwar Singh, Ramratan S/o Kirdar Singh S/o Matu
					21/1	Private	Irrigated	0-15	379.395	
					21/2	Private	Irrigated	1-9	733.497	Mahender, Rajender, virender S/o Nand Lal, Bheem Singh, Rajpal, Tej Pal S/o Sardar Singh S/o Googan, Maha Singh S/o Lehr, Rajesh S/o Prithi, joginder, Sajjan S/o, Smt. Bhanmati, Bimala D/o Pokhar S/o Lehr, Smt. Ganga Dei Widow, Smt. Suman, Anil D/o, Ravinder, Jitender S/o Sajjan, Ravinder, Jitender S/o Sajjan, Smt. Ram Kaur, Joginder, Sajjan, Bhanmati, Bimala
				55//						
					1 Min	Private	Irrigated	2-8	1214.064	
					10	Private	Irrigated	2-10	1264.650	
					11	Private	Irrigated	2-8	1214.064	Tek Ram S/o Ranjeet
					20	Private	Irrigated	2-2	1062.306	
					21/1	Private	Irrigated	1-15	885.255	Ram Kanwar, Rajender S/o, Hoshiyare S/o Ratan, Ram Chander, Om Prakash, Shamsheer Singh S/o Sehaj Ram S/o Ratan
					21/2	Private	Irrigated	2-3	1087.599	Tek Ram S/o Ranjeet
				56//						
					5	Private	Irrigated	0-17	429.981	Jeet Singh S/o Tara Chand S/o Prabhu, Jai Karan S/o Prabhu S/o Sees Ram, girwar Singh, Ram Ratan S/o Kidar Singh S/o Matu Ram, Anil Kumar, joginder Singh S/o Ram Kuwar S/o Matu, Sate Ram, Mahavir Singh S/o Matu Ram, Ram Kishan, Smt. Gyano, Jeevani D/o Badlu S/o Mohar Singh, Smt. Shanti Devi Widow, Smt Sheela D/o, Jai Bhagwan S/o Daya Kishan S/o Badlu
					6	Private	Irrigated	0-17	429.981	Smt. Rajwanti Widow, Anil Kumar S/o Balwan Singh S/o Jai Chand aka Chandru, Ram Phal, Ramesh S/o Jai Chand aka Chandru S/o Manphool
					15	Private	Irrigated	0-17	429.981	
					16	Private	Irrigated	0-9	227.637	
					379	Panchyat	Path	0-1	25.293	Panchyat
					25	Private	Irrigated	0-0	0.000	Ram Kanwar, Rajender S/o, Hoshiyare S/o Ratan, Ram Chander, Om Prakash, Shamsheer Singh S/o Sehaj Ram S/o Ratan
				62//						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					178	Private	Pond	1-2	556.446	Mahender etc. Mudarja Khewat no.130 Tek Ram, Mudarja Khewat no. 132, Lichman Singh, Raghubir S/o Nihalu S/o Ramji Lal, Smt. Chando Widow, Sanjay S/o Randhir Singh S/o Nihalu, Suraj Bhan S/o Jugti S/o Ramji Lal, Dhan Singh, Dharam Pal, Rameshwar, Ram Bhagat S/o Chandan Singh S/o Ramji Lal, Mangeram S/o Mehar Chand S/o Bhagmal, Smt. Har Kaur, Sehaj Ram, Sultan Singh S/o Ratan Datak, Ram Kumar, Rajender S/o Hoshiyare S/o Ratan, Vijender Singh, Hans Raj S/o Puran S/o Ram Nath, Reechpal Singh, Puran S/o Ram Nath, Ramehar, Karan Singh S/o Maman, Smt. Dhaapa Widow, Jagveer Singh, Balbeer Singh S/o, Smt. Savitri D/o Jai Singh S/o Maman, Smt. Bhagwani Wisdow, Smt Satwanti, Nirmala, Santosh, Mamkaur, Vedwanti, Gyanwati D/o Ishwar Singh aka Sukhbeer, Pehlad Singh, Lal Chand S/o Ram Natn, Khazan Singh, Chatar Singh S/o, Smt Bharto, Bharpai D/o Ram Kishan Prabhu
					63//					
					1/1	Private	Irrigated	0-4	101.172	Ram Kanwar, Rajender S/o, Hoshiyare S/o Ratan, Ram Chander, Om Prakash, Shamsher Singh S/o Sehaj Ram S/o Ratan
					1/2	Private	Irrigated	2-5	1138.185	Tek Ram S/o Ranjeet
					9/1	Private	Irrigated	0-16	404.688	
					9/2	Private	Irrigated	1-7	682.911	Dharamveer S/o Ramehar, Smt. Krishana D/o, Smt Khazani D/o Kude, Smt Mehti D/o Kude S/o Bahadur, Smt. Kaushalya D/o Kude, Ram Kumar S/o Kam Singh S/o Tek Chand
					10	Private	Irrigated	1-9	733.497	Ram Kanwar, Rajender S/o, Hoshiyare S/o Ratan, Ram Chander, Om Prakash, Shamsher Singh S/o Sehaj Ram S/o Ratan
					11	Private	Irrigated	1-10	758.790	
					12	Private	Irrigated	2-0	1011.720	Dharamveer S/o Ramehar, Smt. Krishana D/o, Smt Khazani D/o Kude, Smt. Mehti D/o Kude S/o Bahadur, Smt. Kaushalya D/o Kude, Ram Kumar S/o Kam Singh S/o Tek Chand
					19	Private	Irrigated	2-10	1264.650	
					20	Private	Irrigated	1-10	758.790	Jagjeet Singh S/o Sultan
					21	Private	Irrigated	1-12	809.376	
					22/1	Private	Irrigated	2-10	1264.650	Dharamveer S/o Ramehar, Smt. Krshana D/o, Smt Khazani D/o Kude, Smt. Mehti D/o Kude S/o Bahadur, Smt. Kaushalya D/o Kude, Ram Kumar S/o Kam Singh S/o Tek Chand
					22/2	Private	Irrigated	0-4	101.172	
					70//					
					1	Private	Irrigated	1-7	682.911	Dharamveer S/o ramehar, Smt. Krishana D/o, Smt. Khazani S/o kude, Smt. Mehti, Smt. Kaushalya D/o kude S/o Bahadur

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					2	Private	Irrigated	2-10	1264.850	Dharamveer S/o Ramehar, Smt. Krishana D/o, Smt. Khazani D/o Kude, Smt. Mehti D/o Kude, S/o Bahadur, Smt. Kaushalya D/o Kude, Ram Kumar S/o Kam Singh S/o Tek Chand
					9	Private	Irrigated	2-10	1264.650	Dharamveer S/o Ramehar, Smt. Krishana D/o, Smt. Khazani S/o kude, Smt. Mehti, Smt. Kaushalya D/o kude S/o Bahadur
					10	Private	Irrigated	1-8	708.204	
					11	Private	Irrigated	1-9	733.497	Raj Pal S/o Hoshiyar, Sunny S/o Satpal S/o Hoshiyare
					12	Private	Irrigated	2-10	1264.850	Smt. Santosh Widow, Pawan, Sandeep, Pradeep S/o Anand aka Moku Anand S/o Ram Singh, Raj Singh, Balwan Singh S/o Sultan S/o Mula, Smt. Krishna Wd/o or Vinod Kumar, Ajay Kumar Ss/o Puran Singh
					19	Private	Irrigated	2-10	1264.650	
					20	Private	Irrigated	1-10	758.790	Raj Pal S/o Hoshiyar, Sunny S/o Satpal S/o Hoshiyare
					21	Private	Irrigated	1-10	758.790	Raj Pal S/o Hoshiyar, Sunny S/o Satpal S/o Hoshiyare
					22	Private	Irrigated	2-10	1264.650	Smt. Santosh Widow, Pawan, Sandeep, Pradeep S/o Anand aka Moku Anand S/o Ram Singh, Raj Singh, Balwan Singh S/o Sultan S/o Mula, Smt. Krishna Wd/o or Vinod Kumar, Ajay Kumar Ss/o Puran Singh
				78//						
					2/1	Private	Irrigated	1-10	758.790	Smt. Ishwar Devi D/o Tirkha Ram, Dut Singh, Ameer Singh S/o Kude, Smt. Shamwati Widow, Smt. Sudesh, Sunil, Poonam Devi D/o Manjeet Singh S/o Kamir Chand S/o Ameer Singh, Smt. Nirmala W/o Raj Singh S/o Sultan, Smt. Krishana Devi Widow, Vinod Kumar, Ajay Kumar S/o Puran Singh, Balwan S/o Sultan, Sehaj Ram
					2/2	Private	Irrigated	2-8	1214.064	Smt. Santosh Widow, Pawan, Sandeep, Pradeep S/o Anand aka Moku Anand S/o Ram Singh, Raj Singh, Balwan Singh S/o Sultan S/o Mula, Smt. Krishna Wd/o or Vinod Kumar, Ajay Kumar Ss/o Puran Singh
					3	Private	Irrigated	0-1	25.293	
					8	Private	Irrigated	0-12	303.516	
					9/1	Private	Irrigated	1-16	910.548	
					9/2	Private	Irrigated	1-10	758.790	Smt. Ishwar Devi D/o Tirkha Ram, Dut Singh, Ameer Singh S/o Kude, Smt. Shamwati Widow, Smt. Sudesh, Sunil, Poonam Devi D/o Manjeet Singh S/o Kamir Chand S/o Ameer Singh, Smt. Nirmala W/o Raj Singh S/o Sultan, Smt. Krishana Devi Widow, Vinod Kumar, Ajay Kumar S/o Puran Singh, Balwan S/o Sultan, Sehaj Ram
					12	Private	Irrigated	1-1	784.083	
					13	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Smt. Krishana D/o Bheem Singh S/o, Smt. Shanti D/o Googan, Smt. Santosh Widow, Santosh Kumar, Sumit Kumar S/o Rajveer Singh S/o, Smt. Shanti
					373	Panchyat	Path	0-2	50.588	Village Panchayat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					18	Private	Irrigated	2-6	1163.478	Smt. Krishana D/o Bheem Singh S/o, Smt. Shanti D/o Googan, Smt. Santosh Widow, Santosh Kumar, Sumit Kumar S/o Rajveer Singh S/o, Smt. Shanti
					19	Private	Irrigated	1-9	733.497	Anar Singh, Krishan Singh S/o Chander Bhan S/o Fatan, Om Prakash, Satya Pal S/o Kartar Singh S/o Chander Bhan, Maha Singh, Hari Chand S/o Chandgi S/o Bharti
					22	Private	Irrigated	1-9	733.497	
					23/1	Private	Irrigated	1-4	607.032	Smt. Krishana D/o Bheem Singh S/o, Smt. Shanti D/o Googan, Smt. Santosh Widow, Santosh Kumar, Sumit Kumar S/o Rajveer Singh S/o, Smt. Shanti
					23/2	Private	Irrigated	0-12	303.516	Beg Raj S/o Shyonath
				84//						
					2	Private	Irrigated	0-10	252.930	Anar Singh, Krishan Singh S/o Chander Bhan S/o Fatan, Om Prakash, Satya Pal S/o Kartar Singh S/o Chander Bhan, Maha Singh, Hari Chand S/o Chandgi S/o Bharti
					3	Private	Irrigated	0-19	480.567	Beg Raj S/o Shyonath
					Total Area of Village			174-14	88373.74	
	2. Jhajjar	(1) Chamapura, 1N	1//							
					8	Panchyat	Barren land	0-12	303.52	Village Panchayat
					Total Area of Village			0-12	303.52	
		(2) Dujana, 3N	17//							
					2/1	Private	Irrigated	0-19	480.57	Dharamvir, Dayanand S/o Kundan Lal, Vidhya Nand, Rama Nand, Virender S/o Dhan Singh Khanakast Ram Naryan, Bihari Sons Ram Sukh Mortgage
					2/2	Private	Irrigated	0-5	126.47	Manohar Lal S/o Dharam Chand, Inder Jeet, Ranvir, Dharamvir S/o Kaval Dev
					9/1	Private	Non Irrigated	0-8	202.34	
					9/2	Private	Irrigated	0-16	404.69	Sri Bhagwan, Sri Krishan, Ram Singh, Ishwar, Arjun, Karamvir S/o Om Kanwar Khanakast Ram Naryan, Bihan Sons Ram Sukh Mortgage
					9/3/1	Private	Irrigated	0-9	227.64	Shri Kishan, Dharm Singh, Balvir Singh Sons Shyolal Khanakast Ramsroop S/o Gopal Mortgage
					9/3/2	Private	Irrigated	0-1	25.29	Mahender S/o Sohan Lal, Ram Sroop S/o Gopal Mortgage
					12/1/1/1	Private	Irrigated	0-5	126.47	Madanlal S/o and Smt. Raj Rani, Krishana, Mohan Devi D/o Hari Chand S/o Bhawani Das
					12/1/2	Private	Irrigated	0-3	75.88	
					12/1/1/2	Private	Irrigated	0-6	151.76	
					12/1/1/3	Private	Irrigated	0-4	101.17	
					12/2	Private	Irrigated	0-14	354.10	Daya Chand, Dharam Veer S/o Kundan Lal, Vidha Chand, Rama Nand, Virender Singh S/o Dhan Singh, Dhan Widow D/o Dhan Singh
					19/1	Private	Irrigated	0-8	202.34	Madanlal S/o Smt. Raj Rani, Krishana, Mohan Devi D/o Hari Chand S/o Bhawani Das
					19/2	Private	Irrigated	1-5	632.33	Daya Chand, Dharam Veer S/o Kundan Lal, Vidha Chand, Rama Nand, Virender Singh S/o Dhan Singh, Dhan Widow D/o Dhan Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					22/2/1	Private	Irrigated	1-3	581.74	Roshni Widow, Urmila, Snehlata D/o and Mukesh Kumar S/o Hari Singh
					22/2/2	Private	Irrigated	0-8	202.34	Rukmani Bai D/o and Ram Chand, Gopal Das, Hira Nand, Rishi Kesh, Basant Lal, Trilok Chand, Hansraj S/o Jaisa Ram
				18//						
					3/1	Private	Irrigated	0-2	50.59	Rukmani Bai D/o Ram Chand, Gopal Das, Hira Nand, Rishi Kesh, Basant Lal, Trilok Chand S/o Jaisa Ram
					3/2	Private	Irrigated	1-11	784.08	Roshni W/o Hari Singh
					8/1/1	Private	Irrigated	0-16	404.69	
					8/1/2	Private	Irrigated	0-5	126.47	Smt roshni Devi W/o Hari Singh S/o Ramjilal
					8/2	Private	Irrigated	0-14	354.10	Roshni W/o Hari Singh
					47	Private	Irrigated	2-1	1037.01	Village Panchayat
					Path	Panchyat	Path	0-2	50.59	
					26	Private	Non Irrigated	0-12	303.52	Lal Chand, Bheem Singh S/o Ram Kishan, Sunil Kumar S/o Lal Chand, Jai Prakash, Bishan Singh S/o Bheem Singh
					49	Panchyat	Irrigated	0-10	252.93	Village Panchayat
					23	Private	Irrigated	1-5	632.33	Ram Kishan, Ram Chand S/o Moti Ram, Misro Devi Widow, Surrender, Satender S/o Rajender Prasad, Sunita D/o Rajender Prasad, Sri Kishan S/o Kawar Singh, Sunita D/o Rajender Parsad
				32//						
					3/1	Private	Irrigated	0-18	455.27	Jai Lal, Neki Ram S/o Jokhi Ram, Ram Kishan, Ram Chand S/o Moti Ram, Smt. Kamlesh Widow and Manju, Punam, Manbhan D/o and Rajsingh S/o Manmohan, Ghisaram, Lalsingh Sons Dodram
					3/2	Private	Non Irrigated	0-6	151.76	Hari Chand S/o Chavil Das
					8	Private	Irrigated	1-4	607.03	Jai Lal, Neki Ram S/o Jokhi Ram, Ram Kishan, Ram Chand S/o Moti Ram, Smt. Kamlesh Widow and Manju, Punam, Manbhan D/o and Rajsingh S/o Manmohan, Ghisaram, Lalsingh Sons Dodram
					13	Private	Irrigated	1-4	607.03	Balbir Singh D/o Neki Ram
					18/1	Private	Non Irrigated	0-3	75.88	Mahender Singh S/o Chiranji Lal
					18/2	Private	Non Irrigated	0-5	126.47	
					18/3	Private	Irrigated	0-16	404.69	Shakti Singh S/o Balbir Singh
					23	Private	Irrigated	1-5	632.33	Mahavir Singh, Satbir Singh S/o Ram Saroop, Hansraj, Umed Singh, Vijay Singh S/o and Bhrama, Raj D/o Arjun
				38//					0.00	
					4/1	Private	Irrigated	1-5	632.33	
					6	Private	Irrigated	0-5	126.47	Karan Singh, Om Prakash, Vidha Nand S/o Maatu Roop, Sri Bhagwan, Sri Krishan S/o Kanhiya
					1178	Panchyat	Path	0-3	75.88	Village Panchayat
					7	Private	Irrigated	1-5	632.33	Ram Rati W/o Karan Singh
					14	Private	Irrigated	1-5	632.33	
					15/1	Private	Irrigated	0-2	50.59	Sri Bhagwan, Sri Krishan Kumar S/o Kanhiya
					15/2/1	Private	Irrigated	0-2	50.59	Lal, Karan Singh, Om Parkash, Vidha Nand S/o Bhanu Ram
					15/2/2	Panchyat	Path	0-1	25.29	Village Panchayat
					15/2/3	Private	Plot	0-12	303.52	Krishan Singh S/o Harsaroop
					1175 Mid	Panchyat	Path	0-1	25.29	Village Panchayat
					1176	Panchyat	Path	0-1	25.29	
					16/1	Private	Irrigated	0-4	101.17	Krishan Singh S/o Harsaroop

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					16/2	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Dilraj-Singh S/o Sukhbir Singh
					17/1	Private	Irrigated	0-14	354.10	Kamal Singh S/o Dalip Singh Khanakast Shri Ram s/o Jalkaran Mortgage
					17/2	Private	Irrigated	0-10	252.93	Ram Avtar S/o Sri Ram
					24	Private	Irrigated	1-7	682.91	Sunil Kumar S/o Mahavir Singh, Archana W/o Pawan Kumar
					205	Panchyat	Well	2-1	1037.01	Village Panchayat
				53//						
					4	Private	Irrigated	1-6	657.62	Reena W/o Shailender Singh
					5	Private	Irrigated	2-7	1188.77	Ravinder Singh S/o Arjun Singh
					1179	Panchyat	Path	0-3	75.88	Village Panchayat
					6/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Ravinder Singh S/o Arjun Singh
					6/2	Private	Irrigated	1-8	708.20	Surjeet Singh S/o Sultan Singh
					7/1	Private	Irrigated	1-5	632.33	Maya Devi W/o Naresh Kumar
					7/2	Private	Irrigated	0-1	25.29	Kanwar Singh S/o Hardev
					14	Private	Irrigated	1-4	607.03	Phool Kanwar, Dilbaag Singh S/o Giridhar, Rajender Singh, Mahender Singh Sons Giridhar
					15/1	Private	Irrigated	2-5	1391.12	Surjeet Singh S/o Sultan Singh
					15/2	Private	Irrigated	0-8	202.34	Krishan Singh S/o Harsaroop
					16/1	Private	Irrigated	1-14	859.96	
					16/2	Private	Irrigated	1-6	657.62	Nafe Singh, Azad Singh, Naresh Pal, Jagat Singh S/o Malkhan S/o Balwant Singh
					17	Private	Irrigated	1-0	505.86	Misro Devi Widow, Surender, Satinder S/o Rajender Prasad Sunita Devi D/o Rajender Prasad, Ram Kishan, Shri Krishan Sons and Subhawati D/o Kawar Singh
					25/1	Private	Irrigated	1-5	632.33	Satender Singh, Sudesh Kumar, Rakesh, Shaukin, Netrapal Singh S/o Ram Narayan
					25/2/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Nafe Singh, Azad Singh, Naresh Pal, Jagat Singh S/o Malkhan S/o Balwant Singh
					25/2/2	Private	Irrigated	1-3	581.74	Harsaroop etc
				54//						
					21/1/2	Private	Irrigated	0-1	25.29	Nafe Singh, Azad Singh, Naresh Pal, Jagat Singh S/o Malkhan
				59//						
					1	Private	Irrigated	0-14	354.10	Harsaroop etc
					10	Private	Irrigated	1-11	784.08	
					291 Min	Govt.	Road	1-0	505.86	Village Panchayat
					11	Private	Irrigated	1-14	859.96	Karan, Virender S/o Samsher Singh
					20/2	Private	Irrigated	1-8	708.20	
					20/1/4	Private	Irrigated	0-17	429.58	
					20/1/5	Private	Irrigated	0-8	202.34	
					21/1	Private	Irrigated	1-4	607.03	
					21/2	Private	Irrigated	1-7	682.91	
					287	Panchyat	Road	0-19	480.57	Village Panchayat
				60//						
					5/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Satender Singh, Sudesh Kumar, Rakesh, Shaukin, Netrapal Singh S/o Ram Narayan
					5/2	Private	Irrigated	2-10	1011.72	Harsaroop etc
					6/1	Private	Irrigated	1-4	607.03	
					6/2	Private	Irrigated	1-12	809.38	Satender Singh, Sudesh Kumar, Rakesh, Shaukin, Netrapal Singh S/o Ram Narayan
					290	Govt.	Road	0-11	278.22	Village Panchayat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					15/1	Private	Irrigated	0-19	480.57	Balwant Singh, Balbir Singh, Bheem Singh, Seh Dev Singh S/o Puran, Bhawati Widow, Satbir Singh, Jaivir Singh S/o Ragbir Singh, Bala Devi, Sunita Devi D/o Randhir Singh
					15/2	Private	Irrigated	0-7	177.05	Karan, Virender S/o Samsher Singh
					16	Private	Irrigated	1-8	708.20	Balwant Singh, Balbir Singh, Bheem Singh, Seh Dev Singh S/o Puran, Bhawati Widow, Satbir Singh, Jaivir Singh S/o Ragbir Singh, Bala Devi, Sunita Devi D/o Randhir Singh
					25/1	Private	Irrigated	0-10	252.93	Bala Devi, Sunita Devi D/o Randhir Singh
					25/2	Private	Petrol Pump	0-19	480.57	Deepak Aadhar, Pankaj Aadhar S/o Om Aadhar, Roshni Shobha W/o Om Aadhar.
				78//						
					5	Private	Petrol Pump	1-6	657.62	
					Path	Panchyat	Path	0-1	25.29	Village Panchayat
					6	Private	Irrigated	1-4	607.03	Hero Captain Vadan Singh Memorial Trust, Dujana
					15	Private	Irrigated	0-18	455.27	Rajesh, Jagmohan, Charan Singh S/o Kawal Singh
					16/1	Private	Irrigated	0-9	227.64	Govind Ram S/o Pyare Lal, Gopi Ram S/o Devi Sahar
					Path	Panchyat	Path	0-4	101.17	Village Panchayat
					25	Private	Irrigated	0-1	25.29	Vidhya Devi Widow, Sukhbir Singh, Sudhir Kumar Sons and Saroj Bala, Sudesh D/o Sdajjan Kumar, Karp Singh S/o and Kirti D/o Satish
				79//						
					1/1	Private	Irrigated	0-16	404.69	Hero Captain Vadan Singh Memorial Trust, Dujana
					1/2	Private	Irrigated	1-12	809.38	Dujana
					10/1	Private	Irrigated	1-4	607.03	Surat Singh S/o Surrender Singh
					10/2/1	Private	Plot	0-9	227.64	Sher Singh S/o Sri Chand
					10/2/2	Private	Plot	0-9	227.64	Bharti Widow Hawa Singh
					10/2/3	Private	Plot	0-12	303.52	Ram Phal S/o Sardar Singh, Har Surrender S/o Daryav Singh, Narender S/o Kadam Singh
					11/1	Private	Irrigated	0-12	303.52	Rajesh kumar, Jagmohan, Charan Singh S/o Kamal Singh
					11/2/1/1	Private	Plot	0-4	101.17	Ram Phal S/o Sardar Singh, Har Surrender S/o Daryav Singh, Narender S/o Kadam Singh
					11/2/2/1	Private	Plot	0-1	25.29	Ram Phal S/o Sardar Singh, Surrender S/o Daryav Singh, Narender S/o Kadam Singh
					11/2/1/2/1/1 Min	Private	Plot	0-4	101.17	Banshi Lal S/o Rampat
					11/2/2/2/1/1 Min	Private	Plot	0-1	25.29	
					11/2/1/2/1/2 Min	Private	Plot	0-6	151.76	Lal Singh S/o Nathu
					11/2/2/2/1/2 Min	Private	Plot	0-1	25.29	Lal Singh S/o Nathu
					11/2/1/2/1/3 Min	Private	Plot	0-4	101.17	Sukhbir Singh S/o Jage Ram
					11/2/2/2/1/3 Min	Private	Plot	0-1	25.29	
					11/2/1/2/1/4 Min	Private	Plot	0-5	126.47	Naresh Kumar, Mukesh Kumar, Rakesh Kumar S/o Braj Lal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					11/2/2/ 2/1/4 Min	Private	Plot	0-1	25.29	
					11/2/1/ 2/2 Min	Private	Plot	0-13	328.81	Ramesh Kumar, Dhanesh Kumar S/o Pralap Singh
					11/2/2/ 2/2 Min	Private	Plot	0-3	75.88	
					11/2/1/ 2/3/1 Min	Private	Path	0-4	101.17	Dharam Singh S/o Bharat Singh
					11/2/2/ 2/3/1 Min	Private	Path	0-1	25.29	
					11/2/1/ 2/3/2 Min	Private	Plot	0-3	75.88	SurajBhan S/o Badlu Ram
					11/2/2/ 2/3/2 Min	Private	Plot	0-1	25.29	
					20/1/1/ 1	Private	Plot	0-3	75.88	
					20/1/1/ 2/1	Private	Plot	0-9	227.64	Risal Singh, Rajender Singh, Ranbir Singh S/o Rati Ram
					20/1/1/ 2/2	Private	Plot	0-4	101.17	Krishan Lal S/o Mange Ram
					20/1/ 1/2/3	Private	Plot	0-1	25.29	Dharam Singh S/o Bharat Singh
					20/1/2	Private	Plot	0-13	328.81	Pehlad Singh S/o fateh Singh, Hindveer Singh S/o Dilawar Singh, Ram Kishan S/o Sri Lal
					20/2/1	Private	Plot	0-15	379.40	Pramvir Singh, Hindvir Singh S/o Dilawar Singh
					20/2/2	Private	Plot	0-8	202.34	Krishan Dayal S/o Ramanand
					299	Panchyat	Path	0-6	151.76	Village Panchayat
					21	Private	Irrigated	2-2	1062.31	Vidhya Devi Widow, Sukhbir Singh, Sudhir Kumar Sons and Saroj Baia, Sudesh D/o Sdajan Kumar, Karp Singh S/o and Kirti D/o Satish
					22/1	Private	Irrigated	0-19	480.57	Krishna Devi Widow, Mange Ram S/o Devaki Ram, Shiv Charya S/o Sumer Chand, Vidhawati Widow, Om Parkash, Madhu Sudan, Raman Lal S/o Harpuran, Kamlesh D/o Harpuran, Anant Ram S/o Mange Ram, Kawar Lal, Bhayram Sons Devkram, Keshri Devi Widow and Brij Kishor
					26	Private	Community Centre	1-3	581.74	Krishna Devi Widow, Mange Ram S/o Devaki Ram, Shiv Charya S/o Sumer Chand, Vidhawati Widow, Om Parkash, Madhu Sudan, Raman Lal S/o Harpuran, Kamlesh D/o Harpuran, Anant Ram S/o Mange Ram, Kawar Lal, Bhayram Sons Devkram, Keshri Devi Widow and Brij Kishor, Ramesh Chand, Anil Kumar, anand Kumar Sons Noragram aka Shanti Sroop
				84//						
					1	Private	Non Irrigated	2-16	1416.41	Vidhya devi Widow, Sukhbir, Sudhir Singh Sons and Ranbir Singh S/o Sajjan Kumar, Saroj Bala, Sudesh D/o Sajjan Kumar Karan Singh S/o and Kirti D/o Satish Kumar
					2/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Krishan, Om Parkash, Dharamvir S/o Bharat Singh
					9	Private	Irrigated	1-6	657.62	Naresh Kumar, Suresh Kumar S/o Tarif Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					10	Private	Irrigated	2-15	1391.12	Vidhya devi Widow, Sukhbir, Sudhir Singh
					11	Private	Irrigated	2-15	1391.12	Sons and Ranbir Singh S/o Sajjan Kumar, Saroj Bala, Sudesh D/o Sajjan Kumar Karan Singh S/o and Kirti D/o Satish Kumar
					12	Private	Irrigated	1-8	708.20	Naresh Kumar, Suresh Kumar S/o Tarif Singh
					19/1	Private	Irrigated	1-2	556.45	
					19/2	Private	Irrigated	0-3	75.88	Rohtash S/o Jai Singh
					20/1	Private	Irrigated	2-15	1391.12	Rohtas S/o Jai Singh, Urmila Widow, Jyoti D/o Narender Singh, Naveen Kumar S/o Narender Singh, Jyoti D/o Narender Singh
					20/2	Private	Irrigated	0-3	75.88	Hari Chand S/o Hukum Singh, Rohtas S/o Jai Singh
					21	Private	Irrigated	2-19	1492.29	Ram narayan S/o Dhani Ram, Pat Ram S/o Uday Singh, Ram Jeevan S/o Jag Ram, Jai Karan, Raj Karan, Satya Karan, Surender S/o Dhoop Singh
					22	Private	Irrigated	1-8	708.20	Rohtas S/o Jai Singh, Urmila Devi Widow, Jyoti D/o Naveen Kumar S/o Narender Singh
				107//	1	Private	Irrigated	2-16	1416.41	Mira Singh, Balbir Singh, Satbir Singh S/o Hari Ram, Raj roop, Surajmal S/o Mir Singh, Ramkwar, Ramher Sons Bhayram, Raghuvir, Jai naryan Sons Chand Ram, Fool Pati Widow and Rajesh S/o Daya Nand
					2	Private	Irrigated	1-6	657.62	Smt. Krishna W/o Rampal, Shila Widow Shri Kishan
					9/2	Private	Irrigated	1-8	708.20	Krishna W/o Raj Phal, Sheela Devi Widow Sri Krishana
					10/1	Private	Irrigated	1-8	708.20	Mir Singh, Balbir Singh, Satbir Singh S/o Hari Ram, Raj roop, Suraj Bhan S/o Meer Singh, Ram Kanwar, Rameshwar S/o Beh Ram, Raghuvir Singh, Jai Narayan, S/o Chand Ram, Phool Pati Widow, Rajesh S/o Dayanand
					10/2	Private	Irrigated	1-1	531.15	
					11	Private	Irrigated	3-0	1517.58	
					12/1	Private	Irrigated	1-1	531.15	Krishna W/o Raj Phal, Sheela Devi Widow Sri Krishana
					12/2	Private	Irrigated	0-7	177.05	
					19	Private	Irrigated	1-11	784.08	Hari Chand S/o Hukum Singh
					20	Private	Irrigated	2-19	1492.29	Mira Singh, Balbir Singh, Satbir Singh S/o Hari Ram, Raj roop, Surajmal S/o Mir Singh, Ramkwar, Ramher Sons Bhayram, Raghuvir, Jai naryan Sons Chand Ram, Fool Pati Widow and Rajesh S/o Daya Nand
					21	Private	Irrigated	0-3	75.88	
					22/1	Private	Irrigated	2-12	1315.24	
					22/2	Private	Irrigated	1-10	758.79	Hari Chand S/o Hukum Singh
					Path	Panchyat	Path	0-2	50.59	Village Panchayat
					1258	Panchyat	Path	0-2	50.59	
				112//	2	Private	Irrigated	2-10	1264.65	Jagvir Singh, Satbire Singh S/o Hari Chand
					3	Private	Irrigated	1-18	961.13	Hari Chand S/o Hukum Chand
					8	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Ravi, Deepak S/o Krishan Lal, Pankej Kumar S/o Raj Kumar, Usha Rani, W/o Shyam Sunder Khanakast Ritu Singla etc pattedar.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					9	Private	Irrigated	2--10	1264.65	Raghubir Singh, Kishan Chand, Kulvir Singh, Mahender Singh, Jai Singh S/o Sultan Singh, Ajit Singh, Baljeet Singh S/o Kashmir Singh
					12	Private	Irrigated	2--11	1289.94	Krishan kumar, Narender Kumar S/o Bholaram, Jagvir, Saroop Singh, Dilbag, Wajir Singh, Suresh Singh S/o Mahender Singh, Iqbal Singh, Satpal S/o and Rajal D/o Kali Ram, Raj Singh, Devi Lal S/o Balbir
					13/1	Private	Irrigated	1--7	682.91	Pawan, Aman S/o Abhey Ram
					13/2	Private	Irrigated	0--9	227.64	Pawan, Aman S/o Abhey Ram Khanakast Khajan Singh S/o Rama Mortgage
					18	Private	Irrigated	1--16	910.55	Sushila Devi Widow, Dhala aka Mahavir, Ram, Narayan, Bharat Bhushan, Tuls Dass, Bheem Sain, Ashok Kumar aka Ashok S/o Shivram, Suman W/o Sunil
					19	Private	Irrigated	2--11	1289.94	Krishan kumar, Narender Kumar S/o Bholaram, Jagvir, Saroop Singh, Dilbag, Wajir Singh, Suresh Singh S/o Mahender Singh, Iqbal Singh, Satpal S/o and Rajal D/o Kali Ram, Raj Singh, Devi Lal S/o Balbir
					22	Private	Irrigated	2--10	1264.65	Iqbal Singh, Satpal S/o and Rajal D/o Kali Ram, Raj Singh, Devi Lal S/o Balbir
					23	Private	Irrigated	1--15	885.26	Wajir Singh, Satbir Singh, Mahaveer Singh, S/o Kamal Singh
				136//						
					2	Private	Irrigated	2--10	1264.65	Krishan kumar, Narender Kumar S/o Bholaram, Jagvir, Saroop Singh, Dilbag, Wajir Singh, Suresh Singh S/o Mahender Singh, Iqbal Singh, Satpal S/o and Rajal D/o Kali Ram, Raj Singh, Devi Lal S/o Balbir
					3	Private	Irrigated	1--15	885.26	Wajir Singh, Satbir Singh, Mahaveer Singh, S/o Kamal Singh
					8	Private	Irrigated	1--14	859.96	S/o Kamal Singh
					9	Private	Irrigated	3--13	1593.46	Krishan kumar, Narender Kumar S/o Bholaram, Jagvir, Saroop Singh, Dilbag, Wajir Singh, Suresh Singh S/o Mahender Singh, Iqbal Singh, Satpal S/o and Rajal D/o Kali Ram, Raj Singh, Devi Lal S/o Balbir
					12	Private	Irrigated	2--8	708.20	Mahavir Prasad S/o Ram Avtar
					13	Private	Irrigated	0--19	480.57	Dhoop Singh S/o Chotu
					300	Panchyat	Road	0--18	455.27	Village Panchayat
					18/1	Private	Irrigated	1--18	961.13	Maya Kaur Widow, Balbir Singh, Preet Singh, Maha Singh, Ramesh Chand, Hawa Singh, Subha Singh S/o Mehar Singh, Roshni Widow, Rajesh S/o Ajit Singh, Sudesh Kumari D/o Ajit Singh, Roshni Widow, Surrender, Vijender S/o Rawat Singh, Raj Bala D/o Rawat Singh, Santra W/o Joginder Singh
					18/2	Private	Irrigated	2--0	1011.72	Mahavir Prasad S/o Ram Avtar
					19/1	Private	Irrigated	0--12	303.52	
					22/2	Private	Irrigated	0--0	0.00	Bhramanand S/o Ram Avtar
					23/1	Private	Irrigated	2--11	1289.94	
					23/2	Private	Irrigated	1--12	809.38	Maya Kaur Widow, Balbir Singh, Preet Singh, Maha Singh, Ramesh Chand, Hawa Singh, Subha Singh S/o Mehar Singh, Roshni Widow, Rajesh S/o Ajit Singh, Sudesh Kumari D/o Ajit Singh, Roshni Widow, Surrender, Vijender S/o Rawat Singh, Raj Bala D/o Rawat Singh, Santra W/o Joginder Singh
				140//						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					3	Private	Irrigated	2-6	1163.48	Dohdi aka Gindhi Widow and Jajna S/o Bhawana, Balwant Singh, Hajari, Jai Singh Sons Nanak Chand, Ram Singh, Satvir Singh, Dharmvir Singh, Shri Bhagwan Sons Jai Singh, Khanakast Balwant etc. Hissedar Marfat SubaBhan S/o Ramjan, Gabasi Mortgage
					4/1	Private	Irrigated	1-12	809.38	Maya Kaur Widow, Balbir Singh, Preet Singh, Maha Singh, Ramesh Chand, Hawa Singh, Subha Singh S/o Manoj Singh, Rosini Widow, Rajesh S/o Ajit Singh, Sudesh Kumar D/o Ajit Singh, Rosini Widow, Surinder, Vijender S/o Rawat Singh, Raj Bala D/o Rawat Singh, Santra W/o Joginder Singh
					7/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Ved Prakash S/o Chailu, Santosh D/o Guru Prasad etc.
					7/2	Private	Irrigated	0-2	50.59	Jai Bhagwan, Ashok Kumar S/o Sumitra S/o Mira, Anguri Widow, Priya, Kajal D/o Nitin S/o Madan, Santosh D/o Guru Prasad, Ved Parkash S/o Chalu, Dharmvir, Prem Vir Singh aka Jagvir Singh Sons Ishwar Singh, Satvir Singh S/o Guru Prasad
					8	Private	Irrigated	2-13	1340.53	Dohdi aka Gindhi Widow and Jamna S/o Bhawana, Balwant Singh, Hajari, Jai Singh Sons Nanak Chand, Ram Singh, Satvir Singh, Dharmvir Singh, Shri Bhagwan Sons Jai Singh, Khanakast Balwant etc. Hissedar Marfat SubaBhan S/o Ramjan, Gabasi Mortgage
					13	Private	Irrigated	2-14	1365.82	Balwant Singh, Hazari Singh S/o Nanak Chand
					14	Private	Irrigated	1-7	682.91	Jai Bhagwan, Ashok Kumar S/o Sumitra S/o Mira, Anguri Widow, Priya, Kajal D/o Nitin S/o Madan, Santosh D/o Guru Prasad, Ved Parkash S/o Chalu, Dharmvir, Prem Vir Singh aka Jagvir Singh Sons Ishwar Singh, Satvir Singh S/o Guru Prasad
					17	Private	Irrigated	1-0	505.86	Manbhari W/o Bhagwan Das, Shiv Narayan S/o Baldev Sahaye
					18	Private	Irrigated	2-11	1289.94	Dohdi aka Gindhi Widow and Jamna S/o Bhawana, Balwant Singh, Hajari, Jai Singh Sons Nanak Chand, Ram Singh, Satvir Singh, Dharmvir Singh, Shri Bhagwan Sons Jai Singh
					1217	Panchyat	Path	0-3	75.88	Village Panchayat
					23/1 Mir	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Ram Phal, Rawat S/o Rati Ram
					1215	Panchyat	Path	0-4	101.17	Village Panchayat
					23/2	Private	Irrigated	0-15	379.40	Jitender S/o Kartar Singh, Mukhtar Singh S/o Risai Singh
					24	Private	Irrigated	1-0	505.86	Ram Chander, Devender S/o Ramesh Kumari, Kaanta Devi D/o Raghubir Singh, Satish Kumar, Harish Kumar Sons and Anita, Sita D/o Vimla Devi
					161//					
					3/1	Private	Irrigated	0-17	429.98	Jitender S/o Kartar Singh, Mukhtar Singh S/o Risai Singh
					3/2	Private	Irrigated	2-11	784.08	Mahender Singh, Karan Singh, Ranbir Singh S/o Ram Swaroop
					1218	Panchyat	Path	0-3	75.88	Village Panchayat
					4	Private	Irrigated	1-3	581.74	Ram Chander, Devender S/o Ramesh Kumari, Kaanta Devi D/o Raghubir Singh, Satish Kumar, Harish Kumar Sons and Anita, Sita D/o Vimla Devi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					1219	Panchyat	Path	0-1	25.29	Village Panchayat
					7	Private	Irrigated	1-8	706.20	Ramesh Kumari, Kaanta Devi D/o Ram Chander, Devender S/o raghubir Singh, Kanta Devi W/o Dharmender Kumar, Satish Kumar, Harish Kumar S/o Vimala Devi, Anita, Sita D/o Vimala Devi
					8/1/1	Private	Irrigated	1-15	885.26	Mahender Singh, Karan Singh, Ranbir Singh S/o Ram Swaroop
					8/2	Private	Irrigated	0-13	328.81	Ganga Ram S/o Bhagwana
					1220	Panchyat	Path	0-3	75.88	Village Panchayat
					13	Private	Irrigated	2-5	1138.19	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					14	Private	Irrigated	1-12	809.38	Ramesh Kumari, Kaanta Devi D/o Ram Chander, Devender S/o raghubir Singh, Kanta Devi W/o Dharmender Kumar, Satish Kumar, Harish Kumar S/o Vimala Devi, Anita, Sita D/o Vimala Devi
					17/1	Private	Irrigated	1-12	809.38	Ramesh Kumari, Kaanta Devi D/o Ram Chander, Devender S/o raghubir Singh, Kanta Devi W/o Dharmender Kumar, Satish Kumar, Harish Kumar S/o Vimala Devi, Anita, Sita D/o Vimala Devi
					17/2	Private	Irrigated	2-3	1087.60	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					18	Private	Irrigated	0-5	126.47	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					24/1	Private	Irrigated	2-8	1214.06	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					24/2/1	Private	Irrigated	0-11	278.22	Maya Kaur Widow, Kartar Singh, Ranbir Singh, Kuldeep Singh S/o Laxman Singh, Jile Singh S/o Chunni Lal, Pratap Singh S/o Lucky Singh, Maha Singh S/o Jaga Ram
					24/2/2	Private	Irrigated	1-1	531.15	Priyakale Products Ltd Bajir, Surender S/o Priyawat
					25/2/2	Private	Irrigated	0-0	0.00	Priyawat
				164/1						
					4	Private	Irrigated	2-8	1214.06	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					5	Private	Irrigated	1-12	809.38	Dhoop Singh S/o Hoshyar Singh, Smt. Daryal Widow and Nirmla, Saroj, Sunita D/o and Wajir, Rajsingh Sons Kartar Singh Bhatari D/o Jivani
					6	Private	Irrigated	1-11	784.08	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					7	Private	Irrigated	2-8	1214.06	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					14	Private	Irrigated	2-12	1315.24	Raj Dulari Widow, Jyoti, Preeti, Deepti aka Murti, Seema S/o Kadam Singh, Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					15	Private	Irrigated	1-10	758.79	Bhanga Widow, Ram Rati, Santosh, Vimla, Kamla D/o Ramesh Kumar, Om Singh, Jaswant Singh, Prakash, SatPal S/o Inder Singh
					16	Private	Irrigated	1-9	733.50	Bhanga Widow, Ram Rati, Santosh, Vimla, Kamla, Ramrati D/o Ramesh Kumar, Om Singh, Jaswant Singh, Prakash, SatPal S/o Inder Singh, Dhoop Singh S/o Hoshyar Singh, Wajir, Raj Singh Sons Kartar Singh
					17/1	Private	Irrigated	0-16	404.69	Niranjan Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal, Raj Dulari Widow, Jyoti, Preeti, Deepti aka Munni, Seema D/o Kadam Singh Khanakast Indian Oil Corporation
					17/2	Private	Irrigated	1-18	961.13	Martat AC Sharma Chief Manager Pattedar
					24/1	Private	Irrigated	0-10	252.93	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					24/2	Private	Irrigated	2-2	1062.31	Niranjan, Kadam Singh, Vijay Pal Singh, Anoop Singh S/o Chunni Lal.
					25	Private	Irrigated	1-10	758.79	Bhanga Widow, Ram Rati, Santosh, Vimla, Kamla, Ramrati D/o Ramesh Kumar, Om Singh, Jaswant Singh, Prakash, SatPal S/o Inder Singh, Delhi Confrence Society Pankha Road Janak Puri Dhoop Singh S/o Hoshyar Singh Wajir, Ram Singh Sons Kartar Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				176//						
					283	Panchyat	Path	0-3	75.88	Village Panchayat
					4	Private	Irrigated	2-9	1239.36	Mahender Singh, jaswant Singh S/o Kehri Singh, Vijender Singh, Rajbir Singh, Anoop Singh S/o Amar Singh, Smt. Foolpati Widow and Pardeep, Jaideep Sons and Sarita D/o Chnaderbhan, Surajbhan, atar Singh Sons, Bhoop Singh
					5	Private	Irrigated	1-10	758.79	Priyakale Product Pvt. Ltd.Surender S/o Priyawat khanakast Ude Singh S/o Chandgi Mortgage
					6/1	Private	Irrigated	0-11	278.22	Priyakale Products Pvt. Ltd. Bajir, Surender S/o Priyawat
					6/2	Private	Irrigated	1-1	531.15	Kartar Singh, Mahender Singh, Ranbir Singh S/o Ram Swaroop
					7	Private	Irrigated	2-12	1315.24	Smt. Phoolpati Widow, Pradeep Kumar Jaideep Kumar S/o Chanderbhan, Sarita, Kuman D/o Chanderbhan, Suraj Bhan, Attar Singh S/o Bhoop Singh, Mahender Singh, jaswant Singh Sons Kheri singh, Bijender, Rajbir, Anoop sons Amar Singh
					14	Private	Irrigated	1-1	531.15	
					88	Panchyat	Path	0-2	50.59	Village Panchayat
					15/1	Private	Irrigated	1-16	910.55	Kartar Singh, Mahender Singh, Ranbir Singh S/o Ram Swaroop
					15/2	Private	Irrigated	1-12	809.38	
					16/1	Private	Irrigated	2-5	1138.19	
					16/2	Private	Irrigated	2-17	1441.70	Smt. Phoolpati Widow, Pradeep Kumar Jaideep Kumar S/o Chanderbhan, Sarita, Kumari D/o Chanderbhan, Suraj Bhan, Attar Singh, Kapoor Singh S/o Bhoop Singh
					17/1	Private	Irrigated	0-1	25.29	
					Total area of village			258-9	130739.52	
			(3) Silani Jalem H.B.No. 262	2//						
					13	Private	Irrigated	0-2	50.586	Vidya Aarya Sabha Gurukul Jhajjar
					18/1	Private	Irrigated	0-6	151.758	
					18/2	Private	Irrigated	1-16	910.548	Chotu s/o Khesi, Anita W/o Kultaj Singh
					19	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Hava Singh etc Malkan
					20	Private	Irrigated	0-8	202.344	Jeet Singh s/o Tak Chand, Usha D/o Shiv Lal, Sumandar Devi W/o Ram Phool
					147	Govt.	Road	0-7	177.051	Haryana Govt.
					22	Private	Irrigated	1-12	809.376	Dan Kaur Wido and Hoshyar Singh S/o Indraj, Satwanti Devi, Santosh Devi, Munni Devi, Urmaila Devi, RamBhateri S/o Sumer Singh Ramsher Singh S/o Kitab Singh
					23/1	Private	Irrigated	0-15	379.395	Dharam Bir S/o Chand Roop
					23/2	Private	Irrigated	1-18	961.134	Manoj Kumar s/o Hari Ram
				10//						
					2	Private	Irrigated	1-3	581.739	Jal Karan S/o Indraj
					3	Private	Irrigated	2-8	1214.064	Suresh, Ramesh, Sumer, Samsher S/o Randhir Singh, Ratana, Lakshmi D/o and Rajender S/o Gagan, Raj Kumar, Narender, Harish Sons Kali Raj, Kanwar Singh S/o Teka, Chooto S/o Kesho, Guddan S/o Kesho, Kawal Singh S/o Dhoop Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					4	Private	Irrigated	0-2	50.586	Rajender S/o Gagan, Kawal Singh S/o Dhoop Singh, Suresh, Ramesh, Shemsher Sons Randhir Singh, Rajkumar, Narender, Harish Chander Sons Kaliram, Krishna S/o Chotu
					7/1	Private	Irrigated	0-19	480.567	Raj Singh, Dharam Singh S/o, Smt Shakuntala D/o Jile Singh S/o Hari Singh, Smt. Om Widow, Sunita D/o, Anita D/o Bhoop Singh S/o Jile Singh, Smt. Rajwanti Widow Ram Bhagat S/o Sukh Dev, Malkan Kabza Med Singh etc.
					7/2	Private	Irrigated	1-13	834.669	Khajan, Raj Singh, Dharam Bir Sons and Shukuntla D/o Jile Singh Rajbala Wido Ram Bhagan, Oma Wido Anita, Sunita D/o Bhup Singh
					8/1	Private	Irrigated	0-9	227.637	Jal Karan S/o Indraj
					8/2	Private	Irrigated	0-12	303.516	Dan Kaur Wido Hoshiyar Singh S/o Indraj
					13	Private	Irrigated	0-15	379.395	Satwanti Devi, Santosh Devi, Murni Devi,
					14/1	Private	Irrigated	2-9	1239.357	Khajan, Raj Singh, Dharam Bir Sons and Shukuntla D/o Jile Singh Rajbala Wido Ram Bhagan, Oma Wido Anita, Sunita D/o Bhup Singh
					14/2	Private	Irrigated	0-1	25.293	Sher Singh, Mukhtyar Singh Sukh Singh, Har Lal (Prem Singh) S/o Tuh ram, Sahab S/o Sundu, Ramesh S/o Jile Singh, Krishna Devi Wido Binod Sandep S/o Rohtash
					16/1	Private	Irrigated	0-3	75.879	Sahab S/o Sandu, Ramesh S/o Jile Singh, Krishna Devi Wido Vinod, Sandeep S/o Rohtash, Satbir Singh Bijender Singh S/o Sher Singh Mukhtyar Singh S/o Tuhiram, Jai Bhagwan S/o Har Lal
					16/2	Private	Irrigated	0-2	50.586	Satish Kumar S/o Ram Saran
					17/1	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Sahab S/o Sandu, Ramesh S/o Jile Singh, Krishna Devi Wido Vinod, Sandeep S/o Rohtash, Satbir Singh Bijender Singh S/o Sher Singh Mukhtyar Singh S/o Tuhiram, Jai Bhagwan S/o Har Lal
					17/2	Private	Irrigated	0-2	50.586	Satish Kumar S/o Ram Saran
					18	Private	Irrigated	0-14	354.102	Sher Singh, Mukhtyar Singh Sukh Singh, Har Lal (Prem Singh) S/o Tuh ram, Sahab S/o Sundu, Ramesh S/o Jile Singh, Krishna Devi Wido Binod Sandep S/o Rohtash
					24	Private	Irrigated	1-4	607.032	Sahab S/o Sandu, Ramesh S/o Jile Singh, Krishna Devi Wido Vinod, Sandeep S/o Rohtash, Satbir Singh Bijender Singh S/o Sher Singh Mukhtyar Singh S/o Tuhiram, Jai Bhagwan S/o Har Lal
					25	Private	Irrigated	2-5	1138.185	Satish Kumar S/o Ram Saran
					123	Panchayat	Path	0-3	75.879	Panchayat
				17//						
					4	Private	Irrigated	1-13	834.669	Sher Singh, Mukhtyar Singh Sukh Singh, Har Lal (Prem Singh) S/o Tuh ram, Sahab S/o Sundu, Ramesh S/o Jile Singh, Krishna Devi Wido Binod Sandep S/o Rohtash
					5	Private	Irrigated	3-4	1618.752	Sund, Ramesh S/o Jile Singh, Krishna Devi Wido Binod Sandep S/o Rohtash
					6	Private	Irrigated	1-8	708.204	
					15	Private	Irrigated	1-0	505.86	Sandeep Jain s/o Ved Parkesh Jain, Pardeep,
					16/1	Private	Irrigated	0-0	0	Parmod Jain s/o Rajender Parshad Jain
				18//						
					10/2	Private	Irrigated	1-6	657.618	Dalpal S/o Sheolal
					11/1	Private	Irrigated	0-10	252.93	sardara, Manfool, Dalpat Sons Shyolal
					11/2	Private	Irrigated	2-4	1112.892	Dalpat S/o Sheolal
					11/3	Private	Irrigated	0-14	354.102	Dalpat, Sardara, Manphool s/o Sheolal
					19/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Khuani, Sushila Devi, Santosh D/o Sardara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					20/1/1	Private	Irrigated	0-9	227.637	
					20/1/2	Private	Irrigated	0-17	429.981	Dalpat S/o Sheolal
					20/2/1	Private	Irrigated	0-4	101.172	Sandeep Jain s/o Ved Parkesh Jain, Pardeep, Parmood Jain s/o Rajender Parshad Jain, Vijay Kumar Jain S/o Kulwant Rai Jain, Manjeet, Pawan Sons Om Parkash, Maju, Manisha D/o Atar Singh, Jai Pal S/o Tara Chand
					20/2/2	Private	Irrigated	0-10	252.93	Jagbir, Phool Kanwar, Ramesh, Rajender, S/o Shera, Ubedh Singh, jaipal Sons Tarachand, Nearaj, Majeet, Pawan Sons Omparkash, Smt. Shakuntla Widow and Maju Manisha, sunita D/o and Rajesh s/o Atar Singh
					21/2	Private	Irrigated	0-17	429.981	Smt. Krishna Devi Widow and Manjeet Singh, Sanjeet Singh Sons and Rekha Devi D/o Med Singh, Krishan S/o Rishal singh, Krishana Devi W/o Ram Chandra, Shila Devi W/o Virender Singh, Ram Kumar, Partap, Jora singh Sons Randhir Singh, Maherder Singh, devender Singh sons Raju
					145	Panchayat	Path	0-5	126.465	Panchayat
					22/1	Private	Irrigated	2-9	1239.357	Dalpat S/o Sheolal
				30//						
					2/1	Private	Irrigated	0-7	177.051	Kamal Singh, Sube Singh Jagdev Singh
					2/2	Private	Irrigated	0-6	151.758	Ishwar Sing, Jit singh S/o Tek Ram etc
					9	Private	Irrigated	1-12	809.376	Dharam Bir, Ved Bal, Rajbir, Om Prakash, Ranbir S/o Kamal Singh etc.
					12	Private	Irrigated	3-7	1694.631	Dan Kaur Wido and Hoshyar Singh S/o Indraj, Satwanti Devi, Santosh Devi, Munnii Devi, Urmala Devi, RamBhateri D/o and Sumer Singh Ramsher Singh S/o Kitab Singh
					118	Private	Pond	2-19	1492.287	Samadh Baba Balak Dass Silani Jalam
					18	Private	Irrigated	4-12	2326.956	Jai Karan S/o Indraj
					19/2	Private	Irrigated	1-0	505.86	Dan Kaur Widow and Hoshyar Singh S/o Indraj, Satwanti Devi, Santosh Devi, Munnii Devi, Urmala Devi, RamBhateri D/o and Sumer Singh Ramsher Singh S/o Kitab Singh
					22	Private	Irrigated	1-10	758.79	Sardar Singh, Mankul, Dalpat S/o Shi Lal
					23/1	Private	Irrigated	4-4	2124.612	
					23/2	Private	Irrigated	0-13	328.809	land Owner as above -Gair Moursee; Teja, RamSingh, Fateh Singh
				42//						
					2/1	Private	Irrigated	0-2	50.586	Sher Singh, Mukhtyar Singh Sukh Singh, Har Lal (Prem Singh) S/o Tuhi ram, Sahab S/o Sundu, Ramesh S/o Jile Singh, Krishna Devi Wido Binod Sandep S/o Rohtash
					2/2	Private	Irrigated	2-13	1340.529	Taja, Ram Singh sons Fethe Singh Mortgage
					3	Private	Irrigated	3-18	1972.854	
					8	Private	Irrigated	1-18	961.134	Makbuja Panchayat Chotu S/o Sita Ram Mortgage
					9	Private	Irrigated	5-0	2529.3	Mane Singh s/o Dighram Mortgage
					11	Private	Barren Land	0-7	177.051	Samadh Baba Balak Dass Silani Jalam
					12	Private	Barren Land	8-19	3515.727	
					13	Private	Barren Land	0-2	50.586	
					19	Private	Barren Land	4-2	2074.028	
					20	Private	Barren Land	3-0	1517.58	
					21	Private	Barren Land	6-1	3060.453	
					22	Private	Barren Land	1-1	531.153	
				56//						
					1	Private	Barren Land	5-10	2782.23	
					10/1	Private	Barren Land	0-7	177.051	
					128	Govt.	Road	2-2	1062.306	Haryana Govt.
					10/2	Private	Barren Land	1-9	733.497	Samadh Baba Balak Dass Silani Jalam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					11	Private	Irrigated	0-5	126.465	Jagbir, Fool kawar, Ramesh, Rajender Sons Shera, Umed Singh, Jai Pal sons Tara Chand, Neeraj, Manjeet, Pawan sons Omparkash, Smt. Shakuntla Widow and Sumitra, Manju, Manisha D/o and Rajesh S/o Atar Singh
				57//						
					5/1	Private	Non Irrigated	0-5	126.465	Baba Balak Dass
					5/2	Private	Non Irrigated	0-6	151.758	
					6	Private	Non Irrigated	4-3	2099.319	
					14	Private	Irrigated	0-1	25.293	Jagbir, Fool kawar, Ramesh, Rajender Sons Shera, Umed Singh, Jai Pal sons Tara Chand.
					15	Private	Irrigated	6-19	3515.727	
					16	Private	Irrigated	5-4	2630.472	
					17	Private	Irrigated	1-11	784.083	
					24	Private	Irrigated	2-19	1492.287	
					25 Min	Private	Irrigated	2-17	1441.701	Dharam Bir, Ved Bal, Rajbir, Om Prakash, Ranbir S/o Kamal Singh etc. Rahin Mange, Mamchand Sons Liram etc Murthnan
					Rasta	Panchayat	Path	0-3	75.879	Panchayat
				68//						
					4	Private	Irrigated	3-1	1542.873	Dharam Bir, Ved Bal, Rajbir, Om Prakash, Ranbir S/o Kamal Singh etc. Rahin Mange.
					5	Private	Irrigated	2-15	1391.115	
					450	Panchayat	Path	0-12	303.516	Panchayat
					6	Private	Irrigated	3-14	1871.682	Jagbir, Jaybir, Satpal, Satbir S/o Hari Singh
					7	Private	Irrigated	2-13	1340.529	
					14	Private	Irrigated	0-19	480.567	Bhagwan Devi, Vidya Hari Singh
					15	Private	Irrigated	5-16	2933.988	Jagbir, Jaybir, Satpal, Satbir S/o Hari Singh
					16	Panchayat	Irrigated	4-13	2352.249	Gram Panchayat
					137	Panchayat	Path	1-0	505.86	Gram Panchayat
					25	Private	Irrigated	2-17	1441.701	Baljeet Singh, Kishan Kumar S/o Karan Singh, Raj Bir, Satbir, Surendra S/o Manphool, Phool Kaur Wido Anita D/o Sukhbir, Dharam Pal, Rajender, Vijander S/o Ram Singh, Nar Singh, Ranbir Singh, Phool Singh S/o Beh Ram, Om Prakash, Mahender, Surat Singh Sons Kitabo D/o Jay Lal, Surender, Jitender S/o Suraj Bhan
				69//						
					11	Private	Irrigated	0-2	50.586	Jagbir, Jaybir, Satpal, Satbir S/o Hari Singh
					20	Private	Irrigated	1-1	531.153	Baljeet Singh, Kishan Kumar S/o Karan Singh, Raj Bir, Satbir, Surendra S/o Manphool.
					21	Private	Irrigated	5-4	2630.472	
				82//						
					1	Private	Irrigated	5-16	2933.988	Dayanand S/o Ratan, Suresh, Ramesh, Rajesh, Mahipal, Suryapal, Dhrampal S/o Dayanand
					2	Private	Irrigated	1-9	733.497	Begraj, Dhan Raj, Jay Raj Pradeep Kumar Sons Kitab Kaur, Munni, Bala D/o Anjan
					472	Panchayat	Path	0-15	379.395	Panchayat
					9/1/1/1	Private	Irrigated	3-1	1542.873	Begraj, Dhan Raj, Jay Raj, Pradeep Kumar S/o Anjan
					9/1/1/2	Private	Irrigated	0-3	75.879	
					9/1/2	Panchayat	Path	0-11	278.223	Gram Panchayat
					9/2	Private	Irrigated	1-7	682.911	Vijaymal, Satish, Sandeep S/o Karan Singh
					10/1	Private	Irrigated	0-17	429.981	Dayanand S/o Ratan, Suresh, Ramesh, Rajesh, Mahipal, Suryapal, Dhrampal S/o Dayanand
					10/2	Private	Irrigated	0-13	328.809	Shanti Wido Richipal S/o Kamlesh Meena Dama D/o Jyota Singh Munni Daya Wido Mahipal S/o Jaipal
					12	Private	Irrigated	5-1	2554.593	Vijaypal, Satish, Sandeep S/o Karan Singh
					13/1/1	Private	Irrigated	1-11	784.083	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					13/1/2	Private	Irrigated	0-6	151.758	Ramehar S/o Roop Singh
					13/2/1	Private	Irrigated	0-3	75.879	Ramehar S/o Roop Singh
					13/2/2	Private	Irrigated	0-4	101.172	Yogesh Kumar, Vikash Kumar S/o Mahender Singh
					19	Private	Irrigated	2-9	1239.357	Bijender Singh, Vijay Kumar sons Fool Singh
					Total Area of Village			193-19	98111.547	
			(4) Silani Kesev	25//						
			H.B.No. 263		17/14	Private	Irrigated	0-1	25.293	Sri Bhagwan S/o Sardara
					18/6	Private	Irrigated	4-19	2504.007	Sri Bhagwan S/o Sardara
					23	Private	Irrigated	4-6	2175.198	Ram Niwas, Jai Prakash, Om Prakash,
					24	Private	Irrigated	2-14	1365.822	Satyawan S/o Amir Singh aka Mor Singh
				28//						
					171	Panchayat	Water Channel	0-9	227.637	Village Panchayat
					3/2	Private	Irrigated	0-8	202.344	Mange S/o Shibba, Krishan, Sukhdarshan,
					4	Private	Irrigated	5-19	3009.867	Chote Lal S/o Mange
					5	Private	Irrigated	0-2	50.586	
					414	Panchayat	Path	0-14	354.102	Village Panchayat
					6	Private	Irrigated	3-4	1618.752	Amit Kumar, Riku S/o Karamveer, Dharamveer S/o Ram Karan, Sant Ram, Ram Kishan S/o Sukhlal, Smt. Bimala Devi W/o Subhash Chand, Sukh Lal S/o Sees Ram, Phoolwati Widow Ram Karan.
					7/1	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Mange S/o Shibba, Krishan, Sukhdarshan, Chote Lal S/o Mange
					7/2	Private	Irrigated	1-10	758.79	Dharampal, Mahender Singh S/o Chandgi,
					14	Private	Irrigated	0-9	227.637	Ramesh Kumar S/o Phool Singh, Azad Singh
					15	Private	Irrigated	4-2	2074.026	Amit Kumar, Riku S/o Karamveer, Dharamveer S/o Ram Karan, Sant Ram, Ram Kishan S/o Sukhlal, Smt. Bimala Devi W/o Subhash Chand, Sukh Lal S/o Sees Ram, Phoolwati Widow Ram Karan.
					16/1	Haryana Govt	Road	1-2	556.446	Haryana Government.
					16/2	Private	Irrigated	1-6	657.618	Smt. Maya Devi Widow, Smt. Saroj, Krishan D/o, Satyawan, Satpal, Birender S/o Hoshiyar Singh.
					408	Panchayat	Path	0-4	101.172	Village Panchayat
					415	Panchayat	Path	0-1	25.293	Village Panchayat
					24	Private	Irrigated	0-0	0	Randheer Singh, Ram Kishan S/o Ameer Singh, Satish Kumar, Rajesh Kumar, Surender Kumar S/o Sada Ram.
					25/1	Haryana Govt	Road	2-10	1264.65	Haryana Government.
					25/2	Private	Irrigated	0-5	126.465	Amit Kumar, Riku S/o Karamveer, Dharamveer S/o Ram Karan, Sant Ram, Ram Kishan S/o Sukhlal, Smt. Bimala Devi W/o
				29//						
					20/2/2	Private	Irrigated	0-1	25.293	
					409	Panchayat	Path	0-1	25.293	Village Panchayat
					21/1	Private	Irrigated	0-2	50.586	Amit Kumar, Riku S/o Karamveer, Dharamveer S/o Ram Karan, Sant Ram, Ram Kishan S/o Sukhlal, Smt. Bimala Devi W/o Subhash Chand, Sukh Lal S/o Sees Ram, Phoolwati Widow Ram Karan.
				55//						
					5/1	Haryana Govt	Road	2-16	1416.408	Haryana Government.
					5/2	Private	Irrigated	0-4	101.172	Kali Ram S/o Chotu, Narayan Singh, Naresh Kumar, Kuldeep S/o Kali Ram
					6/1/1	Haryana Govt	Road	0-7	177.051	Haryana Government.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					6/1/2	Private	Irrigated	0-1	25.293	Kali Ram S/o Chotu, Narayan Singh, Naresh Kumar, Kuldeep S/o Kali Ram
					6/3/1	Haryana Govt	Road	0-4	101.172	Haryana Government.
					416	Panchayat	Path	0-0	0	Village Panchayat
					Sabi River	Haryana Govt	River	2-13	1340.529	Haryana Government.
					15/1	Haryana Govt	Road	2-14	1365.822	Haryana Government.
					15/2	Private	Irrigated	0-2	50.586	Kali Ram S/o Chotu, Narayan Singh, Naresh Kumar, Kuldeep S/o Kali Ram
					16/1/1	Private	Irrigated	0-1	25.293	Kali Ram S/o Chotu, Narayan Singh, Naresh Kumar, Kuldeep S/o Kali Ram
					407	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					16/1/2	Haryana Govt	Road	1-17	935.841	Haryana Government.
					16/2/1	Haryana Govt	Road	0-0	0	Ramphal, Ram Kawar, Balwan, Jagvir, Ranvir, Ramvir S/o Umrao singh S/o Lakhmi chand
					16/2/2	Haryana Govt	Road	0-14	354.102	Haryana Government.
					25/1	Haryana Govt	Road	2-18	1466.994	Haryana Government.
					25/2	Private	Irrigated	0-1	25.293	Ramphal, Ram Kawar, Balwan, Jagvir, Ranvir, Ramvir S/o Umrao singh S/o Lakhmi chand
				65//						
					RASTA	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					5/1	Haryana Govt	Road	2-16	1416.408	Haryana Government.
					405	Panchayat	Path	0-5	126.465	Village Panchayat
					6/1	Haryana Govt	Road	0-15	379.395	Nihalu S/o Hazari Gair Maurssi
					6/2	Haryana Govt	Road	2-6	1163.478	Haryana Government.
					7	Panchayat	Barren Land	0-17	429.981	Village Panchayat
					15/1	Haryana Govt	Road	1-2	556.446	Haryana Government.
					15/2	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Nihalu S/o Hazari Gair Maurssi
					137	Panchayat	School	2-2	1062.306	Village Panchayat
					16	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Bal Ram S/o Umed Singh (I.No.2723 Virasat, 2728, 2729, Ri.Di,2733 Takseem)
					Plot	Private	Plot	0-7	177.051	Record not Available
					27	Panchayat	Well	0-2	50.586	Village Panchayat
					113	Panchayat	Pond	1-17	935.841	Village Panchayat
					25	Panchayat	Barren Land	2-14	1365.822	Village Panchayat
				87//						
					4	Panchayat	Barren Land	0-4	101.172	Village Panchayat
					131	Panchayat	Path	0-10	252.93	Village Panchayat
					5/1	Panchayat	Irrigated	2-9	1239.357	Village Panchayat
					5/2	Private	Irrigated	0-3	75.879	Hazari S/o Nebali Gair Maurssi
					6	Private	Irrigated	2-18	1466.994	Ajit Singh S/o Dharam, Smt. Vidhawati W/o Ajit Singh.
					7	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Umed Singh, Satbeer, Raj Pal, Ved Pal S/o Dalip S/o Balwant
					14	Private	Irrigated	1-16	910.548	Dalip S/o Balwant
					131	Panchayat	Path	0-5	126.465	Village Panchayat
					15	Panchayat	Irrigated	2-15	1391.115	Nathu, Amir Singh S/o Shiv Lal, Mange S/o Ishwar, Ramanand, Rati Ram S/o Sahabu, Ram Prakash S/o Jai Singh Gair Maurssi
					16/1	Private	Irrigated	1-7	682.911	Village Panchayat
					16/2	Private	Irrigated	1-13	834.669	Umed Singh, Satbeer, Raj Pal, Ved Pal S/o Dalip S/o Balwant
					17	Private	Irrigated	1-18	961.134	Dalip S/o Balwant

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					24	Private	Irrigated	1-18	961.134	Smt. Khazani Widow, Dharam Kaur D/o Muthra, Kanwal Singh S/o Baikun, Birendra Singh, Deepak S/o Dharamveer, Sachin S/o Jagdeep Singh, Smt. Kela Devi Widow, Urmila D/o Dharamveer
					25	Private	Irrigated	3-0	1517.58	Umed Singh, Satbeer, Raj Pal, Ved Pal S/o Dalip S/o Balwant
				98//						
					4	Private	Irrigated	1-3	581.739	Smt. Santosh W/o Dharampal
					5	Private	Irrigated	0-13	328.809	Umed Singh, Satbeer, Raj Pal, Ved Pal S/o Dalip S/o Balwant
					Total Area of Village			95-18	48511.974	
			(5) Silana	17//						
			H B. No. 259		5	Private	Irrigated	1-12	809.376	Rajender Singh, Balwan S/o Surjan, Mange S/o Rati Ram, Radheshyam S/o Sultana Singh, Dharam Pal S/o Raghubir Singh,
					6/1	Private	Irrigated	0-6	151.758	Shivnarayan S/o Tara Chand, Khazan Singh, Sube Singh Sons Shiv Narayan, Smt. Usha Rani W/o Surender Kumar etc (I No. 4685)
					6/2	Private	Irrigated	1-10	758.79	
					6/3	Private	Irrigated	1-0	505.86	Chotu Ram S/o Tyo Ram
					7	Private	Irrigated	2-6	1163.478	Manphool Singh, Ran Singh S/o Nathu Ram, Mange S/o Ishwar Singh, Attar Singh, Baljeet
					14	Private	Irrigated	2-0	1011.72	
					15	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Chotu Ram S/o Tyo Ram
					390	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					16	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Chotu Ram S/o Tyo Ram
					17	Private	Irrigated	1-11	784.083	Ratan Singh, Karan Singh, Umed Singh S/o Smt. Nando, Chando, Gyano D/o Hukum
					24	Private	Irrigated	1-5	632.325	
					25/1	Private	Irrigated	1-5	632.325	Rajbir, Vijender Singh, Sri Bhagwan S/o Chotu Ram
					26	Panchayat	G.M. Plot	0-19	480.567	Village Panchayat
					173	Govt.	Road	0-13	328.809	Village Panchayat
				40//						
					385	Panchayat	Path	0-2	50.586	Village Panchayat
					4	Private	Irrigated	1-3	581.739	Ramesh S/o Hazari, Joginder Singh, Charan Singh, Surajmal, Om Parkash S/o Bani Singh,
					26	Private	Irrigated	2-11	1289.943	
					5	Private	Irrigated	0-5	126.465	Azad, Dalip, Ranbir S/o Tek Chand
					6	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Azad, Dalip, Ranbir S/o Tek Chand
					7	Private	Irrigated	1-12	809.376	Ramesh S/o Hazari, Jataak, Joginder Singh, Charan Singh, Surajmal, Om Parkash S/o
					14	Private	Irrigated	1-18	961.134	
					15	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Azad, Dalip, Ranbir S/o Tek Chand
					16	Private	Irrigated	2-15	1391.115	Dalip Singh, Ranbir, Azad S/o Tek Chand, Ram Bhagat S/o Ramji Lal
					17	Private	Irrigated	1-18	961.134	Jile Singh S/o Ratan Singh
					24/2	Private	Irrigated	1-16	910.548	Dharam Pal, Kartar Singh S/o Nandu, Smt. Gyani D/o Nandu, Dharam Pal, Kartara S/o Nandu, Joginder Singh S/o Sardara
					25	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Om Parkash, Rohtas, Ram Phal, Ranbir, Satbir, Balbir, Dharambir S/o Jaage S/o Daani
				45//						
					4/2	Private	Irrigated	1-16	910.548	Smt. Ram Murti Widow, Jai Narayan, Satbir, Om Parkash S/o Gopi Ram, Vidha, Shakuntala D/o Gopi Ram, Smt. Shanti Widow, Jai Narayan, Satyanarayan, Vijay, Vinod, Tilak S/o Dharmi, Smt. Krishana, Sunita D/o Dharmi, Basant S/o Ram Chand
					5	Private	Irrigated	2-14	1365.822	Om Parkash, Rohtas, Ram Phal, Ranbir, Satbir, Balbir, Dharambir S/o Jaage S/o Daani
					459	Private	Irrigated	0-3	75.879	Village Panchayat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					6	Private	Irrigated	2-7	1188.771	Om Parkash, Rohtas, Ram Phal, Ranbir, Satbir, Balbir, Dharambir S/o Jaage S/o Daani
					7	Private	Irrigated	1-13	834.669	Ram Phal S/o Jaganlal, Lixman Singh, Rai Singh, joginder Singh, Anand Singh, Vinod Kumar S/o Ram Phal S/o Har Dutt, Sarti D/o Har Dutt, Azad Singh, Bhoop Singh, Rajender S/o Mira Singh, Sant Ram S/o Munsu, Smt. Santosh Widow, Monika D/o Hawa Singh, Sumit, Amit S/o Hawa Singh, Sukhbir Singh S/o Nafe Singh, Satbir Singh S/o Balwant Singh
					178	Panchayat	Path	0-9	227.637	Village Panchayat
					14	Private	Irrigated	1-16	910.548	Ram Phal S/o Juglal, Lixman Singh, Rai Singh, joginder Singh, Anand Singh, Vinod Kumar S/o Ram Phal S/o Har Dutt, Sarti D/o Har Dutt, Azad Singh, Bhoop Singh, Rajender S/o Mira Singh, Sant Ram S/o Munsu, Smt. Santosh Widow, Monika D/o Hawa Singh, Sumit, Amit S/o Hawa Singh, Sukhbir Singh S/o Nafe Singh, Satbir Singh S/o Balwant Singh
					15/1	Private	Irrigated	2-7	1188.771	Om Parkash, Rohtas, Ram Phal, Ranbir, Satbir, Balbir, Dharambir S/o Jaage S/o Daani
					15/2	Private	Irrigated	0-9	227.637	Smt. Rajbanti W/o Jagbir Singh, Smt. Rabina Devi D/o Kanwar Singh
					16	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Devi D/o Kanwar Singh
					17	Private	Irrigated	1-14	859.962	Ram Phal S/o Jaganlal, Lixman Singh, Rai Singh, joginder Singh, Anand Singh, Vinod Kumar S/o Ram Phal S/o Har Dutt, Sarti D/o Har Dutt, Azad Singh, Bhoop Singh, Rajender S/o Mira Singh, Sant Ram S/o Munsu, Smt. Santosh Widow, Monika D/o Hawa Singh, Sumit, Amit S/o Hawa Singh, Sukhbir Singh S/o Nafe Singh, Satbir Singh S/o Balwant Singh
					500	Panchayat	Path	0-2	50.586	Village Panchayat
					24	Private	Irrigated	1-16	910.548	Ram Phal S/o Juglal, Lixman Singh, Rai Singh, Joginder Singh, Anand Singh, Vinod Kumar S/o Ram Phal S/o Har Dutt
					25	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Satish Kumar Khurana S/o Amamath
				67//						
					4	Private	Irrigated	1-16	910.548	Dahre S/o Shyam, Kabza Shubhraj S/o Chanderbal, Satpal Singh S/o Bangar Ram
					5	Private	Irrigated	2-13	1340.529	Attar Singh, Jile Singh S/o Chitru
					6/2	Private	Irrigated	2-7	1188.771	Attar Singh, Jile Singh S/o Chitru
					7	Private	Irrigated	1-16	910.548	Dhare S/o Shyama S/o Ram Lal, Satpal Singh S/o Bangra Ram, Kabza Shubhram S/o
					14	Private	Irrigated	0-19	480.567	
					15	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Attar Singh, Jile Singh S/o Chitru
					16	Private	Irrigated	1-18	981.134	Jeet Singh S/o Hajari S/o Chandri, Satyawan, Chand Singh S/o Jile Singh S/o Pyre Lal, Satish Kumar S/o Manful Singh s/o Kundan Lal, Smt. Dhanpati W/o Ram Kishor s/o Manfool Singh
					145	Panchayat	G.M Pond	2-10	1264.65	Village Panchayat
				68//						
					452	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					5	Private	Irrigated	1-2	556.448	Kesho S/o Pyare Lal, Rai Singh, Jai Bhagwan,
					6/1	Private	Irrigated	1-14	859.962	Ram Nivas S/o Kesho
					6/2	Private	Irrigated	0-6	151.758	Jile Singh S/o Pyare Lal
					15	Private	Irrigated	2-4	1112.892	
					16	Private	Irrigated	2-12	1315.236	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					177	Private	Irrigated	0-4	101.172	Village Panchayat
					24	Private	Irrigated	2-3	1087.599	Shivnarayan S/o Tara Chand, Khazan Singh, Sube Singh S/o Shiv Narayan S/o Tara Chand Smt. Keshar Widow, Mukesh D/o Nand Lal aka Lilu, Jagbir Singh, Krishan S/o Patram S/o Tara Chand (In. No. 4685)
					25	Private	Irrigated	2-8	1214.064	Smt. Parvati Widow, Suman D/o Kanhiya, Krishan S/o Kanhiya, Ranbir S/o Kanhiya
				89//						
					4/1	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Shivnarayan S/o Tara Chand, Khazan Singh, Sube Singh S/o Shiv Narayan S/o Tara Chand Smt. Keshar Widow, Mukesh D/o Nand Lal aka Lilu, Jagbir Singh, Krishan S/o Patram S/o Tara Chand (In. No. 4685)
					4/2	Private	Irrigated	2-4	1112.892	Smt. Parvati Widow, Suman D/o Kanhiya, Krishan S/o Kanhiya, Ranbir S/o Kanhiya
					5	Private	Irrigated	0-3	75.879	Smt. Parvati Widow, Suman D/o Kanhiya, Krishan S/o Kanhiya, Ranbir S/o Kanhiya
					7/1	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Naresh Kumar S/o Balwan
					7/2	Private	Irrigated	2-1	1037.013	Smt. Rewati Widow, Smt. Kamla, Nirmala,
					14/1	Private	Irrigated	1-18	961.134	Bina, Sunita D/o Suraj Bhan, Suresh Kumar,
					14/2	Private	Irrigated	2-14	1365.822	Smt. Rewati Widow, Smt. Kamla, Nirmala,
					17/1	Private	Irrigated	2-14	1365.822	Bena, Sunita D/o Suraj Bhan, Suresh Kumar,
					17/2	Private	Irrigated	1-4	607.032	Smt. Rewati Widow, Smt. Kamla, Nirmala,
					24/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Bina, Sunita D/o Suraj Bhan, Suresh Kumar,
					24/2	Private	Irrigated	2-17	1441.701	Vijay Kumar, Hari Om D/o Suraj Bhan
				90//						
					3	Private	Irrigated	1-16	910.548	Vijay Kumar, Suresh Kumar, Hariom S/o Suraj Bhan
					4/1	Private	Irrigated	0-19	480.567	Smt. Rewati Widow, Smt. Kamla, Nirmala, Bena, Sunita D/o Suraj Bhan, Suresh Kumar, Vijay Kumar, Hariom S/o Suraj Bhan, Kabza Smt. Kamlesh, Ram Chand, Hakdar Shamlal
					4/2/1	Private	Irrigated	1-5	632.325	Smt. Santra Widow, Ranbir, Satbir S/o Kirdara
					4/2/2	Private	Irrigated	0-13	328.809	Darya Chandram, Dharamveer, Rajveer S/o, Smt. Chota Devi W/o Chater Singh S/o Chundi Lal, Intikal No. 4665, 4704
					7	Private	Irrigated	2-16	1418.408	Vijay Kumar, Suresh Kumar, Hariom S/o Suraj Bhan, Kabza Hushyor S/o Shera
					8	Private	Irrigated	1-14	859.962	Vijay Kumar, Suresh Kumar, Hariom S/o Suraj Bhan
					13	Private	Irrigated	1-8	708.204	Bhan
					14	Private	Irrigated	2-9	1239.357	Prakash, Khazan, Kapoor, Mahavir, Gaje
					17	Private	Irrigated	2-3	1067.599	Singh S/o Puran, Attar Singh Suraj Bhan S/o
					18	Private	Irrigated	1-2	556.446	Vijay Kumar, Suresh Kumar, Hariom S/o Suraj Bhan
					509	Panchayat	Path	0-2	50.586	Village Panchayat
					23	Private	Irrigated	0-10	480.567	Vijay Kumar, Suresh Kumar, Hariom S/o Suraj Bhan
					24	Private	Irrigated	1-7	682.911	Smt. Parwati, Kalewati, Dharam Singh S/o Muliya, Jile Singh, Kesho Ram S/o Pyare Lal
				112//						
					3	Private	Irrigated	1-12	809.378	Vijay Kumar, Suresh Kumar, Hariom S/o Suraj Bhan
					4/1	Private	Irrigated	0-13	328.809	Smt. Parwati, Kalewati, Dharam Singh S/o Muliya, Jile Singh, Kesho Ram S/o Pyare Lal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					4/2	Private	Irrigated	0-13	328.809	Roop Chand, Laxminarayan S/o Hargopal, Smt. Kalawati, Parwati D/o Hargopal, Smt. Basarfi Widow, Barfi, Prem Lata, Vidha Devi, D/o Laxmikant, Bhoop Singh, Ramotar, Mahaber S/o Shyonarayan, Jile Singh S/o Pyare Lal
					464	Panchayat	Path	0-2	50.586	Village Panchayat
					7	Private	Irrigated	0-10	252.93	Smt. Shanti Widow, Kanwar Singh, Tej Singh, Ramesh, Sukhi Ram, Krishan S/o Jage Ram,
					8/1	Private	Irrigated	1-2	556.446	Jeet Singh, Raj Singh, Ram Kanwar, Jagbeer, Sukhbeer S/o Hazari
					8/2	Private	Irrigated	1-15	885.255	Balwan S/o Juglal
					13/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Jaage, Bodan S/o Lokram
					13/2	Private	Irrigated	2-4	1112.892	Smt. Shanti Widow, Kanwar Singh, Tej Singh, Ramesh, Sukhi Ram, Krishan S/o Jage Ram, Smt. Maya Devi Widow Sushma, Manisha, Aarti D/o, Mukesh S/o Man Singh, Bodan S/o Lok Ram
					18	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Balwan S/o Juglal
					19	Private	Irrigated	1-14	859.962	Jile Singh S/o Pyare Lal
					22	Private	Irrigated	1-10	758.79	Smt. Shanti Widow, Kanwar Singh, Tej Singh, Ramesh, Sukhi Ram, Krishan S/o Jage Ram, Smt. Maya Devi Widow Sushma, Manisha, Aarti D/o Lok Ram, Mukesh S/o Man Singh, Bodan S/o Lok Ram
					23	Private	Irrigated	2-18	1466.994	
				113//						
					2	Private	Irrigated	0-18	455.274	Kesho S/o Pyare Lal, Rai Singh, Jai Bhagwan, Ram Nivas S/o Kesho
					3	Private	Irrigated	3-3	1593.459	Smt. Shanti Widow, Kanwar Singh, Tej Singh, Ramesh, Sukhi Ram, Krishan S/o Jage Ram, Smt. Maya Devi Widow Sushma, Manisha, Aarti D/o, Mukesh S/o Man Singh, Bodan S/o Lok Ram
					8	Private	Irrigated	1-14	859.962	
					9/1	Private	Irrigated	1-8	708.204	Dharam Chand S/o Muliya, Ram Phal, Jai Singh, Jagbir, Mukesh S/o Dharam Chand
					9/2	Private	Irrigated	0-12	303.516	
					12/1	Private	Irrigated	0-18	455.274	Smt. Shanti Widow, Kanwar Singh, Tej Singh, Ramesh, Sukhi Ram, Krishan S/o Jage Ram, Smt. Maya Devi Widow Sushma, Manisha, Aarti D/o, Mukesh S/o Man Singh, Bodan S/o Lok Ram
					12/2	Private	Irrigated	1-7	682.911	
					12/3	Private	Irrigated	0-19	480.567	Rajesh Kumar S/o Bhoop Singh, Indian Oil Corporation Ltd. Bandra East Mumbai
					13/1	Private	Irrigated	0-5	126.465	Smt. Shanti Widow, Kanwar Singh, Tej Singh, Ramesh, Sukhi Ram, Krishan S/o Jage Ram, Smt. Maya Devi Widow Sushma, Manisha, Aarti D/o, Mukesh S/o Man Singh, Bodan S/o Lok Ram
					511	Panchayat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					465	Panchayat	Path	0-4	101.172	Village Panchayat
					19/1	Private	Irrigated	1-11	784.083	Rajesh Kumar S/o Bhoop Singh, Indian Oil Corporation Ltd. Bandra East Mumbai
					19/2	Private	Irrigated	0-18	455.274	Ramesh Kumar, Raghubir Singh, Om Parkash, Dayanand S/o Kishan Chand
					19/3	Private	Irrigated	1-0	505.86	Dharam Chand S/o Muliya, Ram Phal, Jai Singh, Jagbir, Mukesh S/o Dharam Chand
					21	Private	Irrigated	1-2	556.446	Jile Singh S/o Umrao Singh
					22	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Ramesh Kumar, Raghubir Singh, Om Parkash, Dayanand S/o Kishan Chand
				131//						
					1	Private	Irrigated	0-7	177.051	Jile Singh S/o Umrao Singh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					2	Private	Irrigated	1-3	581.739	Ramesh Kumar, Raghbir Singh, Om Parkash, Dayanand S/o Kishan Chand
					466	Panchayat	Path	0-4	101.172	Village Panchayat
					174	Panchayat	Road	17-18	9054.894	Shamlat Kewat No. 660/700
					Total Area of Village			191-14	96973.362	
			(6) Raipur	2//						
			H.B. No. 236	13//	22	Private	Irrigated	0-3	75.879	Om Parkash - Harish Chander S/o, Mukesh - Papita D/o Umed Singh, Mandroop Singh S/o Jamna, Anand - Anoop S/o Mandroop
					2/1	Private	Irrigated	0-5	126.465	Bhoop Singh S/o Chandgi
					2/2	Private	Irrigated	0-8	202.344	Bhoop Singh S/o Chandgi
					9/1	Private	Irrigated	0-14	354.102	Bhoop Singh S/o Chandgi
					12/2	Private	Irrigated	0-13	328.809	Rajender S/o Ram Singh
					20	Private	Irrigated	0-18	455.274	Rajender S/o Ram Singh
					21	Private	Irrigated	1-4	607.032	Rajender S/o Ram Singh
				14//						
					1	Private	Irrigated	0-5	126.465	Shri Lal S/o Ram Singh
					10/1	Private	Irrigated	0-7	177.051	Shri Lal S/o Ram Singh
					10/2	Govt	canal	0-4	101.172	Haryana Govt. Lok Nirman
					10/3	Private	Irrigated	0-2	50.586	Shri Lal S/o Ram Singh
					11/1	Private	Irrigated	0-14	354.102	Shri Lal S/o Ram Singh
					20	Private	Irrigated	0-12	303.516	Ratiram S/o Shiv Lal
					21	Private	Irrigated	0-11	278.223	Ratiram S/o Shiv Lal
				24//						
					6	Private	Irrigated	0-0	0	Dharambir - Dharmender S/o Sukhbir Singh
				25//						
					1	Private	Irrigated	0-5	126.465	Smt. Aprajita Parekh W/o C. K. Parikh
					Total Area of Village			7-5	3667.49	
			(7) Gejadhori	18//						
			H.B. No. 260		14	Private	Irrigated	0-5	126.465	Santosh Widow Shiv Kumar, Bhoop Singh - Manoj S/o, Sushila - Shashi - Manju D/o Mahender Singh vian Om Parkash - Dharamvir S/o Bakhtawar, Bakhtawar - Dhare S/o Shyama, Surender - Azad S/o Mange
					17	Private	Irrigated	1-10	758.79	Shri Bhagwan - Jai Bhagwan - Samunder - Vishnu Bhagwan - Nafe - Jaipal S/o Nathu
					114	Private	Irrigated	1-1	531.153	Prithi S/o Jwan Village Silani, Mortgage
					287	Private	Manure Pit's	0-7	177.051	Shri Chand S/o Jageram
					381	Panchayat	Path	0-2	50.586	Gram Panchayat
				35//						
					4	Private	Irrigated	1-0	505.86	Ram Gopal - Shri Gopal - Vijay Pal S/o Nihal Singh
					7/1	Private	Irrigated	1-0	505.86	Ram Gopal - Shri Gopal - Vijay Pal S/o Nihal Singh
					14/2/2	Private	Irrigated	0-15	379.395	Om Parkash / Surender Singh - Bhurker Singh - Satpal - Richpal S/o Chandgi vian Ram Gopal - Shri Gopal - Vijay Pal S/o Nihal Singh, Sh Mahant Dharamraj Gin, Mahant Atarna Nand Gin, Saroj D/o Mahant Dharamraj Gin
					17	Private	Irrigated	0-9	227.637	Ram Gopal - Shri Gopal - Vijay Pal S/o Nihal Singh
					23/1	Private	Irrigated	0-0	0	Bhagwan Dass - Jai Kishan - Om Parkash S/o Matu Ram, Karamvir S/o Ram Kanwar, Sandeep S/o Bhagwan Dass, Jitender - Surender S/o Ram Kishan
				36//						
					13	Private	Irrigated	0-0	0	Randhir - Rajbir vian Vijay - Suresh - Hariom S/o Surajbhan
					18	Private	Irrigated	0-10	252.93	
					23	Private	Irrigated	0-6	151.758	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				53//						
					13/1	Private	Irrigated	0-2	50.586	Om Parkash S/o Shiv Lal, Rehnan, Sundu S/o Loka, Guliya S/o Gagaman, Murthnan
					13/2	Private	Irrigated	0-3	75.879	Vijay - Suersh - Hariom S/o Surajbhan
					18	Private	Irrigated	0-14	354.102	Vijay - Suersh - Hariom S/o Surajbhan
					23	Private	Irrigated	0-16	404.688	Om Parkash S/o Shiv Lal
				54//						
					3	Private	Irrigated	0-5	126.465	Meva Devi Widow, Kamlesh D/o, Rajesh - Dharampal S/o Meer Singh, Karan Singh - Sumer Singh via Dharampal S/o Hansram
					8	Private	Irrigated	0-2	50.586	
					12/2	Private	Irrigated	0-6	151.758	
					19	Private	Irrigated	0-3	75.879	Jai Narayan-Sumer Singh S/o Jaimal
					Total Area of Village			9-16	4957.428	
			(8)Khakhna	6//						
			a							
			H.B. No.		1	Private	Irrigated	1-3	581.739	Smt. Malhi Devi Widow, Daya Ram - Maha Singh - Nawal Singh - Krishan - Satpal S/o, Maya Devi - Dayawati - Shyamwati - Ramesh Devi D/o Johri, Parbhati S/o Moti, Hukam Chand S/o Harshay
			237		2	Private	Barren Land	1-10	758.79	
					9/1	Private	Irrigated	0-17	429.981	
					9/3	Private	Irrigated	1-2	556.446	
					10/1	Private	Barren Land	0-15	379.395	
					10/3	Private	Barren Land	0-3	75.879	
					11	Private	Barren Land	1-2	556.446	
					12/1	Private	Barren Land	2-18	1466.994	
					19	Private	Irrigated	2-16	1416.408	
					20	Private	Irrigated	1-0	505.86	
					21	Private	Irrigated	1-0	505.86	Urmed Singh - Indraj - Ishwar - Jagat Singh - Partap S/o Heeru S/o Bhola
					22	Private	Irrigated	2-2	1062.306	
					26	Private	Community Centre	0-16	404.688	Jahnaya Khewat no. 2, Rampratap etc, Khewat no 9, googan Khewat no 14. Ramanand banam:- Smt. Reshma Devi Widow, Ram Niwas, Satpal, Satish, Vinod S/o Ramanand, Smt. Champa Devi Widow, Sunil, Sunny S/o, Smt. Rikesh D/o Rajender, Mamraj, John, Prabhati S/o Moti, Hukam S/o Harsaraye
				7//						
					15	Private	Irrigated	1-16	910.548	Urmed Singh - Indraj - Ishwar - Jagat Singh - Partap S/o Heeru S/o Bhola
					16	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Ganeshi - Bihari - Dhan Singh S/o Bhulaniya S/o Khubi
					25	Private	Irrigated	2-0	1011.72	
				8//						
					1/1	Private	Irrigated	1-4	607.032	Urmed Singh - Indraj - Ishwar - Jagat Singh - Partap S/o Heeru S/o Bhola
					1/2	Private	Irrigated	2-18	1466.994	
					2	Private	Irrigated	0-2	50.586	
					10/1	Private	Irrigated	3-0	1517.58	
					10/2	Private	Irrigated	1-10	758.79	
					11	Private	Irrigated	3-0	1517.58	
					20	Private	Irrigated	3-0	1517.58	Ganeshi - Bihan - Dhan Singh S/o Bhulaniya S/o Khubi
					21	Private	Irrigated	2-18	1466.994	
				14//						
					1	Private	Irrigated	2-4	1112.892	
					10	Private	Irrigated	1-14	859.962	Hari Kishan S/o Maman, Hemraj S/o Daya Kishan
					11	Private	Irrigated	0-14	354.102	Amar Singh S/o Mohaniya, Santosh S/o Daya Kishan
					20	Private	Irrigated	0-0	0	Geneshi - Bihari - Dhan Singh S/o Bhulaniya S/o Khubi
				15//						
					5	Private	Irrigated	2-0	1011.72	Ganeshi - Bihan - Dhan Singh S/o Bhulaniya S/o Khubi, Santosh S/o Daya Kishan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					6/1	Private	Irrigated	1-4	607.032	Hari Kishan S/o Maman, Hemarj S/o Prithi, Amar Singh S/o Mohariya, Santosh S/o Daya Kishan
					6/2	Private	Irrigated	2-1	1037.013	
					15/1	Private	Irrigated	2-8	1214.064	
					15/2	Private	Irrigated	2-2	1062.306	
					16/1	Private	Irrigated	2-12	1315.236	
					16/2	Private	Irrigated	2-7	1188.771	
					24	Private	Irrigated	2-4	1112.892	Ganeshi - Bihari - Dhan Singh S/o Bhulaniya S/o Khubi
					25	Private	Irrigated	2-12	1315.236	
				16//						
					4/1	Private	Irrigated	1-6	657.618	
					4/2	Private	Irrigated	1-0	505.86	
					5	Private	Irrigated	2-13	1340.529	
					6	Private	Irrigated	2-17	1441.701	Ratan, Daya Kishan, Ram Kishan S/o Layaka, Hoshiyar Singh S/o Lakhmi, Smt. Chidiya Widow, Smt. Savitri D/o Puran
					7	Private	Irrigated	2-6	1163.478	
					14/1	Private	Irrigated	2-4	1112.892	
					14/2	Private	Irrigated	2-8	1214.064	
					15	Private	Irrigated	0-14	354.102	
					17	Private	Irrigated	3-4	1618.752	
					18	Private	Irrigated	2-1	1037.013	Ram Singh S/o Dharam Singh, Shishram S/o Ram Chander, Duli Chand S/o Bohdumal
					23	Private	Irrigated	2-1	1037.013	
					24/1	Private	Irrigated	1-3	581.739	
					24/2	Private	Irrigated	2-1	1037.013	
				23//						
					3	Private	Irrigated	2-2	1062.306	
					4	Private	Irrigated	3-4	1618.752	Batwan S/o Sumer Singh Ram Singh S/o Dharam Singh, Shishram S/o Ram Chander Chiman S/o Udmi, Phoolpati Widow Anantram S/o Ishram, Mangal - Bharta S/o Kaliya, Shishram S/o Ram Chander, Jagram - Badlu S/o Chaman Lal
					7	Private	Irrigated	3-3	1593.459	
					8	Private	Irrigated	2-2	1062.306	
					12	Panchyat	Irrigated	2-2	1062.306	
					13	Panchyat	Irrigated	3-1	1542.873	
					14	Private	Irrigated	0-0	0	
					18	Panchyat	Irrigated	3-5	1644.045	Dwarka Prasad S/o Chander Bhan, Biran Dei, Bishambhari S/o Ramlachuman, Shiv Shankar, Ravi Dutt S/o Jawah Prasad Gair Maurssi, Ami Chand S/o Badlu, Charna S/o Ram Karan, Gordhan S/o Gair Maurssi
					19	Panchyat	Irrigated	2-0	1011.72	
					22/1	Panchyat	Irrigated	0-9	227.637	
					22/2	Panchyat	Irrigated	2-2	556.446	
					22/3	Private	Community Centre	0-11	278.223	
					23/1	Panchyat	Non Irrigated	3-6	1669.338	
				24//						
					2/1	Panchyat	Irrigated	1-5	632.325	Dwarka Prasad S/o Chander Bhan, Biran Dei, Bishambhari S/o Ramlachuman, Shiv Shankar, Ravi Dutt S/o Jawah Prasad Gair Maurssi, Ami Chand S/o Badlu, Charna S/o Ram Karan, Gordhan S/o Gair Maurssi

3570 50/10-14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					2/2/2	Private	House	2-10	1264.65	Smt Chandbai Widow, Krishna D/o, Karan Singh - Khadak Singh - Sahab Singh - Sher Singh - Shyam Lal - Randhir S/o Gordhan,
					3/2	Private	Irrigated	0-4	101.172	Smt. Parwati - Chhoto D/o, Amir Chand -
					9	Private	Irrigated	1-8	708.204	Chatrar Singh S/o Ballu, Charan Singh - Phool Singh S/o Ramsawroop
					39	Panchyat	Path	0-11	278.223	Gram Panchayat
					Total Area of Village			122-17	62144.90	
			(9) Dadanpur	15//						
			H.B.No. 238		16	Panchyat	Barren Land	0-0	0	Village Panchayat
					25	Panchyat	Barren Land	1-0	505.86	Village Panchayat, Ratiya S/o Nanhad Gair Maurusi
				16//						
					9	Private	Irrigated	1-16	910.548	Ram Kishan, Subhash Chand, Sri Bhagwan S/o Pyare Lal
					11	Govt	Playground	0-7	177.051	Government High School Dadanpur
					119	Govt	School	3-0	1517.58	Government High School Dadanpur
					12	Private	Irrigated	3-6	1669.338	Ram Kishan, Subhash Chand, Sri Bhagwan S/o Pyare Lal
					19/2	Private	Irrigated	0-15	379.395	Daya Ram, Mahabir, Jai Singh S/o Smt. Bimala D/o Dhan Singh, Krishan S/o Sardara,
					20/1	Private	Irrigated	2-13	1340.529	
					20/2/1	Private	Irrigated	1-7	682.911	Mahender S/o Surjan S/o Ram Dia
					20/2/2	Private	Plot	0-2	50.586	Dharampal S/o Badlu
					20/2/3	Private	Plot	0-2	50.586	Tarachand S/o Badlu
					20/2/4	Private	Plot	0-3	75.879	Santram S/o Mangaldas
					21/1	Panchyat	Barren Land	0-14	354.102	Village Panchayat
					21/2/1	Private	Irrigated	3-0	1517.58	Daya Ram, Mahabir, Jai Singh S/o Smt. Bimala D/o Dhan Singh, Krishan S/o Sardara, Bhoop Singh S/o Amilal, Attar Singh S/o Deep Chand, Pramod Kumar S/o Naval Singh, Ramphal S/o Nihal Singh
					21/2/2	Private	Irrigated	0-8	202.344	Smt. Khazani Widow, Attar Singh, Mahender Singh, Rajender S/o Sees Ram, Smt. Dayawanti D/o Sees Ram.
				19//						
					1/1	Private	Irrigated	0-4	101.172	Smt. Memwati Widow Shyamlal
					1/2	Private	Irrigated	2-19	1492.287	Smt. Sumitra Devi Widow, Satnarayan S/o Harchand, Smt. Darshana W/o Satnarayan S/o Harchand
					10/2/1	Private	Irrigated	0-0	0	Sri Krishan S/o Manphool Singh
					10/2/2	Private	Irrigated	1-4	607.032	Smt. Sumitra Devi Widow, Satnarayan S/o Harchand, Smt. Darshana W/o Satnarayan S/o Harchand
				20//						
					5	Panchyat	Irrigated	2-1	1037.013	Village Panchayat, Ratiya S/o Nanhad Gair Maurusi
					6/1	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Smt. Sumitra Devi Widow, Satnarayan S/o Harchand, Smt. Darshana W/o Satnarayan
					6/2	Panchyat	Irrigated	2-3	1087.599	Village Panchayat, Ratiya S/o Nanhad Gair Maurusi
					14/1	Panchyat	Barren Land	0-10	252.93	Village Panchayat, Rohtas, Kundan S/o Prithi,
					14/3	Panchyat	Irrigated	0-17	429.981	Mahender S/o Baje Singh, Siksar S/o Arjan,
					15/1	Panchyat	Irrigated	0-10	252.93	Village Panchayat, Phool Singh S/o Dhaman Gair Maurusi.
					15/3	Panchyat	Irrigated	1-12	809.376	Village Panchayat
					16	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Smt. Sumitra Devi Widow, Satnarayan S/o Harchand, Smt. Darshana W/o Satnarayan, Rajesh, Mukesh S/o Ramdhan
					17/2	Panchyat	Irrigated	2-14	1365.822	Village Panchayat, Ratiya S/o Nanhad Gair Maurusi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					23	Private	Irrigated	1-8	708.204	Ram Avtar, Krishan Lal, Sri Bhagwan, Ranber Singh S/o Dayaram, Smt. Ramrati Widow, Smt. Kasturi D/o Vijender S/o Shyonarayan, Smt. Sunita Widow, Renu, Pawan S/o Satbir
					24	Private	Irrigated	3-15	1896.975	Ramher, Rajender S/o Balbeer, Baiwan, Saroop Singh, Subhash, Gopal Singh S/o Dev Dutt, Attar Singh, Jawahar Lal, Surender Singh S/o Hukum Singh
					25	Private	Irrigated	1-6	657.618	
					27	Private	Well	0-1	25.283	
				32//						
					6	Private	Irrigated	0-5	126.485	Randher, Ramher, Hansraj, Krishan Kumar S/o Sardara or Smt Kamlesh Widow, Smt. Manita, Lalita D/o Ajit, Chanderhaas S/o Ajit, Bhoop Singh, Karwai Singh, Madan Singh, Rohtas S/o Hoshiyara
					464 min	Panchyat	Path	0-14	354.102	Village Panchayat
					13	Private	Irrigated	0-0	0	Dhanpal Singh S/o Ratiya
					14	Private	Irrigated	2-3	1087.599	Dhanpal Singh S/o Ratiya
					26	Private	Well	0-13	328.609	Attar Singh, Ramesh, Jasbir, Vijay Pal, Mahender Singh S/o Deep Chand, Ramber, Rajbir, Rajpal S/o Hukum Chand, Randhir, Ramher, Hansraj, Krishan Kumar S/o Sardara, Kamlesh Widow, Manita, Lalita D/o Ajit, Chanderhaas S/o Ajit, Bhoop Singh, Karwai Singh, Madan Singh, Rohtas S/o Hoshiyara, Smt. Sumitra Devi Widow, Satnarayan S/o Harchand, Darshana W/o Harchand, Smt. Parmeshwari, Smt. Krishana, Kalawati Widow, Hariprakash, Anand S/o Sadhu Ram, Ram Chander S/o Champa, Saraswati D/o Shyamal, Ved Parkash S/o Ramanand, Sugan S/o Dhadhyam, Inderaj S/o Kehri, Smt. Adhni Devi Widow, Parasram S/o Dhadhyam, Anguri Devi, Santra Devi D/o Devkinandan, Dhanahyam, Hari Singh etc. M. Khawat No. 208, Dhanpal etc M. Khawat No. 204
					15	Private	Irrigated	6-0	3035.16	Randher, Ramher, Hansraj, Krishan Kumar S/o Sardara or Smt Kamlesh Widow, Smt.
					16/2	Private	Irrigated	1-4	607.032	
					17	Panchyat	Irrigated	3-5	1644.045	Village Panchayat, Ram Saroop S/o Datta Ram, Dhanpal S/o Ratiya, Dholidarani
					18/1	Private	Irrigated	1-13	634.669	Dhanpal Singh S/o Ratiya
					139	Panchyat	Road	2-18	1466.994	Village Panchayat
					18/2	Private	Irrigated	2-9	1239.357	Attar Singh, Ramesh, Jasvir, Vijay Pal, Mahender Singh, S/o Deep Chand, Rajbir,
					19/1	Private	Irrigated	1-0	506.66	
					21	Panchyat	Irrigated	6-3	101.172	Village Panchayat, Kehri, Jugli S/o Saroop, Balbeer, Sabha Chand S/o Shera, Chattar, Amilal, Phool S/o Sohan Gair Maurusi.
					22/1	Panchyat	Irrigated	0-14	354.102	Village Panchayat Bharto Wd/o or Tek Chand, Ratan Singh, Daleep Singh S/o Bhajan Gair Maurusi
					22/2	Private	Irrigated	4-0	2023.44	Attar Singh, Ramesh, Jasvir, Vijay Pal, Mahender Singh, S/o Deep Chand, Rajbir, Rambir, Rajpal S/o Hukum Chand
					83	Asbadi	Asbadi	7-5	3667.48	Asbadi
					23	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Attar Singh, Ramesh, Jasvir, Vijay Pal, Mahender Singh, S/o Deep Chand, Rajbir, Rambir, Rajpal S/o Hukum Chand
					133	Panchyat	Path	0-8	202.344	Village Panchayat
					437	Private	Irrigated	0-10	252.93	Inder Raj S/o Kehri
				33//						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					2	Private	Irrigated	1-13	834.669	Ram Avtar, Krishan Lal, Sri Bhagwan, Ranber Singh S/o Dayaram, Smt. Ramrati Widow, Smt. Kasturi D/o Vijender S/o Shyonarayan, Smt. Sunita Widow, Renu, Pawan S/o Satbir
					3	Private	Irrigated	8-9	4274.517	Ramher, Rajender S/o Balbeer, Balwan, Saroop Singh, Subhash, Gopal Singh S/o Dev Dutt, Attar Singh, Jawahar Lal, Surender Singh S/o Hukum Singh
					8	Private	Irrigated	1-15	885.255	
					9	Private	Irrigated	6-15	3485.141	
					10/1	Private	Irrigated	2-7	1188.771	Rame Singh S/o Sehaj Ram, Balwan, Dhare, Nimender S/o Rame Singh, Smt. Ramrati Widow, Pramila D/o Dharam Singh, Ram Niwas, Sanjeev, Om Parkash S/o Dharam Singh
					10/2	Private	Irrigated	1-11	784.083	Baljeet, Ramber S/o Jogram, Smt. Bhatari Mata, Kuldeep S/o Jageram, Smt. Dayawati Widow, Joginder Singh S/o Jagdish, Kamlesh D/o Jagdish, Sri Bhagwan, Rajender Singh, Sunil Dutt S/o Umed Singh
					11	Private	Irrigated	3-5	1644.045	Ram Singh S/o Sehajram, Balwan Singh, Nimender S/o Pyare S/o Rame Singh, Smt. Ramrati Widow, Pramila D/o Dharam Singh, Ramniwas, Sanjeev, Omprakash S/o Dharam Singh, Ajit Kaur W/o Narender Singh, Kamlesh W/o Rameshwar, Smt. Mausam W/o Raju, Geeta W/o Sanjeet, Babita W/o Nath Singh
					106	Panchyat	Non Irrigated	1-12	809.376	Village Panchayat
					12	Private	Irrigated	0-5	126.465	Baljeet, Ramber S/o Jogram, Smt. Bhatari Mata, Kuldeep S/o Jageram, Smt. Dayawati Widow, and Joginder Singh S/o Jagdish, Kamlesh D/o Jagdish, Sri Bhagwan, Rajender Singh, Sunil Dutt S/o Umed Singh
				42/						
					5	Private	Irrigated	2-10	1264.65	Subhash Chand, Balbeer Singh S/o Shera, Kanwal Singh, Gaje Singh, Raj Singh, Lakshmi Chand, Mansa Ram S/o, Smt. Bhana D/o Chatr Singh, Dayanand, Bhoop Singh, uday Singh, Suraj Bhan S/o Amilal, Smt. Rama, Laxmi, Nahani D/o Amilal
					127	Panchyat	Pond	5-15	2908.695	Village Panchayat
					6 MIN	Private	Irrigated	1-7	682.911	Subhash Chand, Balbeer Singh S/o Shera, Kanwal Singh, Gaje Singh, Raj Singh, Lakshmi
					6 MIN	Private	Irrigated	1-12	809.376	
					123	Panchyat	Non Irrigated	5-8	4755.084	Village Panchayat
					7	Private	Irrigated	0-12	303.516	Subhash Chand, Balbeer Singh S/o Shera, Kanwal Singh, Gaje Singh, Raj Singh, Lakshmi Chand, Mansa Ram S/o, Smt. Bhana D/o Chatr Singh, Dayanand, Bhoop Singh, uday Singh, Suraj Bhan S/o Amilal, Smt. Rama, Laxmi, Nahani D/o Amilal
					14	Private	Irrigated	3-16	1922.268	
					17	Private	Irrigated	6-3	3111.039	
					24/1	Private	Irrigated	3-16	1922.268	
					143 min	Panchyat	Road	1-3	581.739	Village Panchayat
					24/2/1	Private	Irrigated	1-10	758.79	Kartar Singh, Mukhtyar Singh, Inder Singh, Mahender Singh, Shyam, Bhagwar Dass S/o Maman Singh, Juglal S/o Chellu
					24/2/2	Private	Irrigated	0-13	328.809	Khazan Singh, Sri Kishan, Satyanarayan S/o Manphool
				52/						
					4/1	Private	Irrigated	1-11	784.083	Maha Singh S/o Juglal
					4/2	Private	Irrigated	2-3	1087.599	Kartar Singh, Mukhtyar Singh, Inder Singh, Mahender Singh, Shyam, Bhagwan Dass S/o Maman Singh, Juglal S/o Chellu
						Private	Irrigated	2-11	1289.943	Khazan Singh, Sri Kishan, Satyanarayan S/o Manphool

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					4/4	Private	Irrigated	0-12	303.516	Jaidev, Ram Kishan S/o Abhey Ram
					6	Private	Irrigated	0-6	151.758	Baljeet, Ramber S/o Jageram, Smt. Bhatia, Mata, Kuldeep S/o Jageram, Smt. Daya, Widow, Joginder Singh S/o Jagdish, Kamlesh D/o Jagdish, Sri Bhagwan, Rajender Singh, Sunil Dutt S/o Umed Singh
					7	Private	Irrigated	6-15	3414.555	Jaidev, Ram Kishan S/o Abhey Ram
					14/1	Private	Irrigated	0-19	480.567	Kartar Singh, Mukhtyar Singh, Inder Singh, Mahender Singh, Shyam, Bhagwan Dass S/o Maman Singh, Juglal S/o Chellu
					14/2	Private	Irrigated	4-0	2023.44	Khazan Singh, Sri Kishan, Satya narayan S/o Manphool
					15	Private	Irrigated	2-2	1062.306	Samsher Singh, Om Parkash, Satyavan, Dharmender Kumar S/o Ramher
					16/1	Private	Irrigated	1-13	834.689	Mehar Singh, Ram Singh S/o Ramkala, Hasveer, Jaiber S/o Bhagat Singh
					16/2	Private	Irrigated	2-15	1391.115	Baljeet, Ramber S/o Jageram, Smt. Bhatia, Mata, Kuldeep S/o Jageram, Smt. Daya, Widow, Joginder Singh S/o Jagdish, Kamlesh D/o Jagdish, Sri Bhagwan Rajender Singh, Sunil Dutt S/o Umed Singh
					17	Private	Irrigated	2-4	1112.892	Samsher Singh, Om Parkash, Satyavan, Dharmender Kumar S/o Ramher
					153	Panchyat	Path	0-13	328.809	Village Panchayat
					24	Private	Irrigated	0-3	75.879	Ram Singh S/o Sehaj Ram, Balwan, Pyare, Nimender S/o Rame Singh, Smt. Ramrati, Widow, Pramila D/o Dharam Singh, Ram Niwas, Sanjeev, Om Parkash S/o Dharam Singh
					25	Private	Irrigated	7-1	3566.313	Sahiram S/o Ram Singh
				53//						
					21	Private	Irrigated	0-4	101.172	Bhadur Singh S/o Ran Singh
				62//						
					1	Private	Irrigated	2-12	1315.236	Kartar Singh, Mukhtyar Singh, Inder Singh, Mahender Singh, Shyam, Bhagwan Dass S/o
					10/1	Private	Irrigated	5-1	2554.593	Maman S/o Juglal, Khazan Singh, Sri Kishan, Satnarayan S/o Manphool, Jai Dev, Ram Kishan S/o Abhey Ram, Chote S/o Juglal, Maha Singh S/o Juglal
					10/2	Private	Path	0-4	101.172	Maman S/o Juglal, Khazan Singh, Sri Kishan, Satnarayan S/o Manphool, Jai Dev, Ram Kishan S/o Abhey Ram, Chote S/o Juglal, Maha Singh S/o Juglal
					11/1	Private	Irrigated	0-16	404.688	Khazan Singh, Sri Kishan, Satyanarayan S/o Manphool
					11/2	Private	Path	0-2	50.586	Maman S/o Juglal, Khazan Singh, Sri Kishan, Satnarayan S/o Manphool, Jai Dev, Ram Kishan S/o Abhey Ram, Chote S/o Juglal, Maha Singh S/o Juglal
					11/3	Private	Irrigated	4-16	2428.128	Maha Singh S/o Juglal
					26	Private	Well	1-1	531.153	Maman S/o Juglal, Khazan Singh, Sri Kishan, Satnarayan S/o Manphool, Jai Dev, Ram Kishan S/o Abhey Ram, Chote S/o Juglal, Maha Singh S/o Juglal
					12	Private	Irrigated	0-9	227.637	Maha Singh S/o Juglal
					19	Private	Irrigated	2-18	1466.994	Khazan Singh, Sri Kishan, Satyanarayan S/o Manphool
					20	Private	Irrigated	4-2	2074.026	Jaidev, Ram Kishan S/o Abhey Ram
					21	Private	Irrigated	1-18	961.134	Chote S/o Juglal
					22	Private	Irrigated	3-18	1972.854	Khazan Singh, Sri Kishan, Satyanarayan S/o Manphool
				63//						
					5	Private	Irrigated	4-12	2326.956	Chote S/o Juglal
					6	Private	Irrigated	1-15	885.255	Chote S/o Juglal
					15/1	Private	Irrigated	0-0	0	Khazan Singh, Sri Kishan, Satyanarayan S/o Manphool
				71//						
					1/2	Private	Irrigated	0-12	303.516	Maha Singh S/o Juglal
					2/1	Private	Irrigated	2-13	1340.529	Maha Singh S/o Juglal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					2/2/1	Private	Path	0-0	0	Smt. Sedakaur Widow, Mool Chand, Sumita Devi Widow, Satnarayan S/o Har Chand, Smt. Parmeshwari D/o Phool Chand, Smt. Darshana W/o Satnarayan, Satbir Singh, Niranjan Singh, Ronak Singh S/o Mange Ram, Smt. Ompati W/o Satbir, Smt. Channo W/o Niranjan, Smt. Kamlesh W/o Ronak Singh
					2/2/2/1	Private	Irrigated	0-1	25.293	Smt. Sumitra Devi Widow, Satnarayan S/o Harchand, Smt. Darshana W/o Satnarayan S/o Harchand
					2/2/2/2	Private	Irrigated	0-18	455.274	Smt. Sumitra Devi Widow, Satnarayan S/o Harchand, Smt. Darshana W/o Satnarayan, (Satpal S/o Hardwari Lal) Mustri
					481	Panchayat	Path	0-4	101.172	Village Panchayat
					9/1	Private	Irrigated	1-3	581.739	Smt. Sumitra Devi Widow, Satnarayan S/o Harchand, Smt. Darshana W/o Satnarayan, Keshi Baya Satpal S/o Hardwari Lal, Rajesh, Mukesh S/o Ramdhan
					9/2	Private	Irrigated	1-5	632.325	
					10	Private	Irrigated	1-17	935.841	Jile Singh, Ram Chander S/o Harphool, Mushriyan, Jile Singh etc. Malak Khawat No. 152
					11	Private	Irrigated	1-10	758.79	Ram Kishan, Subhash Chand, Sri Bhagwan S/o Pyare Lal
					12	Private	Irrigated	2-18	1466.994	Dalip Singh, Rai Singh, Om Prakash S/o Rijkran or Suraj Bhan, Chand Singh, Inderjeet Singh, S/o Chander Bhan
					482	Panchayat	Path	0-4	101.172	Village Panchayat
					19	Private	Irrigated	2-17	1441.701	Pyare Lal S/o Ram Sahaya, Raj Singh S/o Smt. Manbhari D/o Ramswaroop, Chand Singh S/o Mahanand, Ganpat S/o Mahanand, Mukesh S/o Ganpat, Hawa Singh S/o Lakhi Ram, Rohtas S/o Sultan Singh, Dinesh Kumar, Satish Kumar S/o Chand Singh
					20	Private	Irrigated	1-12	809.376	Ram Kishan, Subhash Chand, Sri Bhagwan S/o Pyare Lal
					21	Private	Irrigated	1-14	859.962	Ram Kishan, Subhash Chand, Sri Bhagwan S/o Pyare Lal
					22	Private	Irrigated	3-0	1517.58	
					79/1					
					1	Private	Irrigated	0-11	278.223	
					2	Private	Irrigated	1-7	682.911	
					Total Area of Village			254.8	122848.10	
			(10) Chandpur	16//						
			H.B.No. 239		1/1	Panchayat	Path	0-2	50.586	Ran Singh, Ram Kumar S/o Ram Kala, Pradeep Kumar S/o Ran Singh, Babita Widow, Sujata D/o Hari Ram
					1/2	Private	Irrigated	1-0	505.88	Narsender Singh, Joginder Singh S/o Ram Kumar
					2	Private	Irrigated	1-16	910.548	
					9/2	Private	Irrigated	3-0	1517.58	
					10	Private	Irrigated	1-14	859.962	Ishwar Singh S/o Turti
					275	Panchayat	Path	0-5	128.465	Village Panchayat
					11/1	Private	Barren Land	1-16	910.548	Captain Singh S/o Turti, Joginder Singh S/o Captain Singh
					11/2	Private	Barren Land	2-0	1011.72	Ramesh, Raj Singh, Azad Singh, Wazir Singh S/o Jog Ram
					12	Private	Barren Land	0-13	328.809	
					19	Private	Barren Land	0-0	0	
					20/1	Private	Barren Land	3-0	1517.58	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					20/2/1	Private	Irrigated	1-16	910.548	Deewan Singh, Sahab Singh, Samsher Singh S/o Dharam Singh
					20/2/2	Private	Irrigated	0-19	480.567	Kishori Lal S/o Turti, Vinit Kumar, Vinay Kumar S/o Kishori Lal
					20/3	Private	Irrigated	0-5	126.465	Jai Kishan, Mahavir, Rajender, Jugal Kishore, Birender, Mukhtyar, Dharamvir, Dilbagh S/o Gyani
					21	Private	Irrigated	3-0	1517.58	Mahavir, Jai Pal, Tej Singh, Nafe Singh, Jasveer S/o Hardwari
				17//						
					16	Private	Irrigated	0-0	0	Deewan Singh, Sahab Singh, Samsher Singh S/o Dharam Singh
					25/1	Private	Irrigated	0-5	126.465	Kishori Lal S/o Turti, Vinit Kumar, Vinay Kumar S/o Kishori Lal
					25/2	Private	Irrigated	0-6	151.758	Jai Kishan, Mahavir, Rajender, Jugal Kishore, Birender, Mukhtyar, Dharamvir, Dilbagh S/o Gyani
				28//						
					5	Private	Irrigated	1-10	758.79	
					274	Panchyat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					6	Private	Irrigated	1-13	834.669	Dharam Singh, Bakhtawar Singh, Hari Ram, Captaan Singh, Kishori Lal, Balwaan Singh, Ishwar Singh S/o Turti
					15	Private	Irrigated	1-16	910.548	Jeetender Singh S/o Bakhtawar Singh
					16	Private	Irrigated	1-10	758.79	Hari Ram S/o Turti
					25/1	Private	Irrigated	1-0	505.86	Balwan Singh S/o Turti, Virender Singh, Sunder Singh, Paramjeet Sons Balwan Singh
					25/2	Panchyat	Barren Land	2-13	1340.529	Village Panchayat
				29//						
					1/1	Private	Irrigated	0-3	75.879	Jai Kishan, Mahavir, Jugal Kishore, Rajender, Virender, Mukhtyar, Dharamvir S/o Gyani
					1/2	Private	Barren Land	3-1	1542.873	Mahavir, Jai Pal, Tej Singh, Nafe Singh, Jasveer S/o Hardwari
					10	Private	Barren Land	2-16	1416.408	
					276	Panchyat	Path	0-5	126.465	Village Panchayat
					11	Private	Irrigated	3-0	1517.58	Santra Widow, Devender, Anil S/o Pinki D/o Ram Kumar, Ratan, Raj Kumar, Satbir S/o
					20	Private	Irrigated	2-9	1239.357	
					21/1	Private	Plot	0-3	75.879	Risal Singh S/o Googan
					21/2	Panchyat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					21/3	Private	Plot	0-0	0	Mahender S/o Sher Singh
					21/9	Panchyat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					21/16	Private	Plot	0-2	50.586	Umed S/o Reechpal
					21/17	Private	Plot	0-3	75.879	Pahlad S/o Reechpal
					21/18	Private	Plot	0-3	75.879	Prabhu S/o Munshi
					21/19	Private	Plot	0-2	50.586	Hari Om S/o Munshi Ram
					21/26	Panchyat	Path	0-3	75.879	Village Panchayat
					21/27	Panchyat	Irrigated	0-10	252.93	Village Panchayat Jagan S/o Mangli Mortgage
				36//						
					1	Panchyat	Banke	1-19	986.427	Village Panchayat
					10	Panchyat	Banke	2-19	1492.287	Village Panchayat
					11	Panchyat	School	3-3	1593.459	Haryana Government
					20	Panchyat	Irrigated	3-1	1542.873	Village Panchayat Neki S/o Shadi Mortgage
					277	Panchyat	Path	0-5	126.465	Village Panchayat
					21/1	Private	Irrigated	1-5	632.325	Adi Lal, Satbir, Suresh, Ranbir, Jagbir S/o Raje Ram

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					21/2	Private	Irrigated	0-9	227.637	Daya Ram, Krishan S/o Lal Chand, Bhagwati Widow, Yashwanti, Anita D/o Karn Singh, Mahavir, Satveer, Mukesh S/o Dharam Singh, Ram Phal, Ram Kanwar S/o Ram Singh, Om Prakash S/o Mange, Samunder, Mahadev S/o Ram Niwas, Govind W/o Rajender, Maha Dai W/o Shiv Kumar
					21/3	Private	Irrigated	2-16	1416.408	Ram Karan, Om Prakash S/o Laxmi Narayan Satish Kumar S/o Hukum Chand, Harawan, Shiv Kumar, Hari Om, Anand S/o Durgesh D/o Subhachand
				37//						
					5/1	Private	Irrigated	0-15	379.395	Jai Kishan, Mahaveer, Jugan, Rajender, Rajender, Jaipal, Mukhtyar, Dharamveer S/o Gyani
					5/2	Panchayat	Banke	1-5	632.325	Village Panchayat
					27	Private	Irrigated	1-14	859.962	Kironi S/o Puran S/o Mohan
					6/1	Private	Irrigated	0-17	429.981	Ram Narayan, Om Prakash S/o Reshpal, Raj Hans, Pradeep S/o Ishwar, Inderaj S/o Shiv Lal, Ram Subhash S/o Hari Singh
					90	Private	Path	0-4	101.172	Village Panchayat
					15/2	Private	Irrigated	1-6	657.618	Adi Lal, Satbir, Suresh, Ranbir, Jagbir S/o Raje Ram
					16	Private	Irrigated	1-4	607.032	
					25/1	Private	Irrigated	0-2	50.586	
				46//						
					1/1	Private	Irrigated	1-9	733.497	Daya Ram, Krishan S/o Lal Chand, Bhagwati Widow, Yashwanti, Anita D/o Karn Singh, Mahavir, Satveer, Mukesh S/o Dharam Singh, Ram Phal, Ram Kanwar S/o Ram Singh, Om Prakash S/o Mange, Samunder, Mahadev S/o Ram Niwas, Govind W/o Rajender, Maha Dai W/o Shiv Kumar
					1/2	Private	Barren Land	2-13	1340.529	Chotu S/o Maha Ram
					2	Private	Barren Land	0-8	202.344	
					9	Private	Irrigated	3-4	1618.752	Jagdish S/o Bhagwan, Kishan Chand S/o Surje, Santosh Devi Widow, Babu Lal, Rakesh, Shyam Lal, Kaam Raj, Ashok, Rajesh S/o Asha Devi D/o Ram Chander, Dharamveer, Rajveer, Suresh S/o Rameshwar
					10	Private	Irrigated	1-6	657.618	Daya Ram, Krishan S/o Lal Chand, Bhagwati Widow, Yashwanti, Anita D/o Karn Singh,
					11/1	Private	Irrigated	0-18	455.274	
					11/2	Private	Irrigated	0-13	328.809	Sukhde, Mansha, Ramehar S/o Mange
					12	Private	Irrigated	3-4	1618.752	Jagdish S/o Bhagwan, Kishan Chand S/o Surje, Santosh Devi Widow, Babu Lal,
					19	Private	Irrigated	3-1	1542.873	
					20	Private	Irrigated	1-10	758.79	Sukhde, Mansha, Ramehar S/o Mange
					21/1	Private	Irrigated	0-3	75.879	Sukhde, Mansha, Ramehar S/o Mange
					21/2	Private	Irrigated	1-4	607.032	Ram Kumar S/o Raje Ram
					22	Private	Barren Land	3-1	1542.873	Ram Dhan, Sunil Dutt S/o Narachand, Googan, Gyani S/o Ramji Lal
				50//						
					1	Private	Petrol Pump	0-0	0	Balbir Singh, Mukhtyar Singh, Lakhi Ram S/o Jage Ram, Vijender, Inderjeet S/o Onkar, Satvir Singh, Ram Niwas S/o Maha Singh, Anil, Amit S/o Hoshiyar Singh
					2/1	Private	Petrol Pump	1-12	809.376	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					2/2	Private	Barren Land	2--16	1416.408	Daya Ram, Krishan S/o Lal Chand, Bhagwani Widow, Yashwanti, Anita D/o Karn Singh, Mahavir, Satveer, Mukesh S/o Dharam Singh, Ram Phal, Ram Kanwar S/o Ram Singh, Om Prakash S/o Mange, Samunder, Mahadev S/o Ram Niwas, Govind W/o Rajender, Maha Dai W/o Shiv Kumar
					278	Private	Irrigated	0--5	126.465	Village Panchayat
					8	Private	Barren Land	0--16	404.688	Radhe Shyam, Jai Bhagwan, Suresh Kumar, Hari Kishan S/o Siriya
					9/1	Private	Barren Land	2--9	1239.357	
					9/2			2--2	1062.306	Village Panchayat Jai Ram Chela Asha Dohlidar
					13	Private	Barren Land	0--11	278.223	Radhe Shyam, Jai Bhagwan, Suresh Kumar, Hari Kishan S/o Siriya
					Total Area of Village			101--17	51521.34	

[F. No. NHAI/BOT/11013/2/2009/HRY]

SUMER SINGH GULIA, Director